



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 3—दिसम्बर 9, 2005 (अग्रहायण 12, 1927)  
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3—DECEMBER 9, 2005 (AGRAHAYANA 12, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय  
(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2005

सं. 563, दिनांक 2 नवम्बर 2005—राष्ट्रपति, भारतीय डाक एवं तार लेखा एवं वित्त सेवा (82) की अधिकारी अनुराधा मित्रा, को दिनांक 03 अक्टूबर 2005 (पूर्वाह्न) से 02 अक्टूबर 2010 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में अपर वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :—

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री वी. तानाबालन को 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में 13 अक्टूबर, 2005 से 26 दिसम्बर, 2005 तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. के. पाण्डेय  
निदेशक (वित्त/स्थापना)

सेना शाखा

सं. 564, दिनांक 9 नवम्बर 2005—राष्ट्रपति सहर्ष यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 74/76 के अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टि. के पद पर (परख पर)

जय सेन (एमआर-08187एम), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
अनीश कुमार विशाल (एमआर-08188पी), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
सुरेश वावु वेलीनीनी (एमआर-08189एक्स), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
रितेश दुबे (एमआर-08190एम), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
मोहित कुमार अग्रवाल (एमआर-08191पी), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
अनिल कुमार सिंह (एमआर-08192एक्स), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
मनोज कुमार गुप्ता (एमआर-08193ए), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
कुमार राजेश रंजन (एमआर-08162ए), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
मनीष तनेजा (एमआर-08163एच), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
रीमा सोलंकी (एमआर-08164एल), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
विक्रम सिंह (एमआर-08165एन), एएमसी, 21 फरवरी 2005

अरविन्द मिश्रा (एमआर-08167वाई), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
 रोहित मल्होत्रा (एमआर-08168एफ), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
 रोहित मेहरा (एमआर-08169के), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
 चन्दन सिन्हा (एमआर-08170वाई), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
 संकरानन्द पी (एमआर-08171एफ), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
 विनोद कुमार (एमआर-08172के), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
 चंदन कुमार ठाकुर (एमआर-08173एम), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
 डी वी भार्गव (एमआर-08174पी), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
 सतीश कुमार (एमआर-08175एक्स), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
 के लक्ष्मी प्रिया (एमआर-08176ए), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
 अमित पटानिया (एमआर-08177एच), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
 राजीव रंजन (एमआर-08178एल), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
 सुधीर दुबे (एमआर-08179एन), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
 वादलामनी सुर्य प्रकाश (एमआर-08180एच), एएमसी, 21 फरवरी 2005  
 अभिषेक गुप्ता (एमआर-08181एल), एएमसी, 21 फरवरी 2005

राजेश कमरान  
 ब्रिगेडियर  
 डिप्टी डीजीएफएमएस(पर्स)

वायु सेना मुख्यालय

सं. 565, दिनांक 3 नवम्बर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में, निजी सचिव (ग्रुप ख राजपत्रित), वेतनमान, 6,500-200-10,500, के पद पर अस्थाई आधार पर, उनके नाम के सामने दी गई अवधि के लिए या नियमित चयन सूची के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :--

नाम	पदोन्नति की अवधि
श्री जी एस श्रीधर	21 अप्रैल 2005 से 30 जून 2005
श्री जी सी पाण्डे	30 जून 2000 से 30 जून 2005
श्री आर एन शर्मा	19 अगस्त 2005 से 31 दिसम्बर 2005
श्री एस राजकुमार	18 अगस्त 2005 से 31 दिसम्बर 2005

उपरिलिखित अधिकारियों की निजी सचिव के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर हैं :--

(क) यह नियुक्तियाँ पूर्णतः अस्थाई आधार पर की गई हैं तथा प्रशासनिक कारणों से बिना किसी पूर्व सूचना दिए समाप्त की जा सकती हैं।

(ख) उपर्युक्त पद पर स्थाई नियुक्ति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी अस्थाई नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

स्थायी आर्मी  
 मिलिट्री नर्सिंग सेवा  
 (स्थायी कमीशन)

सं. 566, दिनांक 8 नवम्बर 2005--निम्नलिखित एम एन एस के प्रत्येक अधिकारी के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से स्थायी कमीशन दिया जाता है तथा वरिष्ठता वेतन व पदोन्नति दिनांक 06 सितम्बर 1996 से दी जाती है :--

एन एस से एन आर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तारीख

कुमारी शुष्मा आर (एन एस-20427एन) स्थायी, 25 जुलाई 2001

कुमारी डी शीबा (एन एस-20431एन), 25 जुलाई 2001

कुमारी निशा एन (एन एस-20432डब्ल्यू), 25 जुलाई 2001

श्रीमती रेगिना वी (एन एस-20433वाई), 25 जुलाई 2001

श्रीमती सुजा वी पिल्लै (एन एस-20435के), 25 जुलाई 2001

श्रीमती मोहिनी (एन एस-20437पी), 25 जुलाई 2001

कुमारी सिन्धुमोल (एन एस-20438एक्स), 25 जुलाई 2001

कुमारी बिन्दु पी जी (एन एस-20439ए), 25 जुलाई 2001

कुमारी श्यनी जॉर्ज (एन एस-20442ए), 25 जुलाई 2001

कुमारी सीमा डेविड (एन एस-20443एच), 25 जुलाई 2001

कुमारी स्मीथा इपे (एन एस-20444एल), 25 जुलाई 2001

कुमारी रोसा लिंगी थॉमस (एन एस-20445एन), 25 जुलाई 2001

श्रीमती सुमा देवी पी (एन एस-20446डब्ल्यू), 25 जुलाई 2001

कुमारी वानिश्री जे (एन एस-20447वाई), 25 जुलाई 2001

कुमारी अस्वथी आई (एन एस-20449के), 25 जुलाई 2001

कुमारी मंजु जॉर्ज (एन एस-20450वाई), 25 जुलाई 2001

श्रीमती मिनीमोल के के (एन एस-20451एफ), 25 जुलाई 2001

कुमारी सुनीता शर्मा (एन एस-20453एम), 25 जुलाई 2001

कुमारी सुलेखा हेल्डर (एन एस-20455एक्स), 25 जुलाई 2001

कुमारी श्रीजा एस (एन एस-20456ए), 25 जुलाई 2001

कुमारी शांति माया तमंग (एन एस-20458एल), 25 जुलाई 2001

श्रीमती बिन्दु के पंकज (एन एस-20459एन), 25 जुलाई 2001

श्रीमती बिन्दु एस (एन एस-20460एच), 25 जुलाई 2001

श्रीमती मिनीमोल के के (एन एस-20451एफ), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी सुनिता शर्मा (एन एस-20453एम), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी सुलेखा हलडर (एन एस-20455एक्स), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी श्रीजा एस (एन एस-20456ए), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी शान्ति माया तमंग (एन एस-20458एल), 25 जुलाई 2001  
 श्रीमती बिन्दु के पंकज (एन एस-20459एन), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी बिन्दु एस (एन एस-20460एच), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी श्रीपा टी एस (एन एस-20461एल), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी मिनी पी चैकको (एन एस-20462एन), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी जयाश्री बी एस (एन एस-20463डब्ल्यू), 25 जुलाई 2001  
 श्रीमती नालिनी जी (एन एस-20464वाई), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी जुबैरा ए (एन एस-20465एफ), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी मंजुषा वी के (एन एस-20466के), 25 जुलाई 2001  
 श्रीमती चेशा शर्मा (एन एस-20468पी), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी मिनीमोल जे (एन एस-20469एक्स), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी बिन्दु के पी (एन एस-20470एम), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी विभा पी एस (एन एस-20471पी), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी सिन्धु माधवन (एन एस-20472एक्स), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी कविता एस कुमार (एन एस-20476एन), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी रीता स्वाति कुजुर (एन एस-20477डब्ल्यू), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी शायनी पी सकरोच (एन एस-20479एफ), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी वी सुजा (एन एस-20480डब्ल्यू), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी गंगा सी बी (एन एस-20483के), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी बिन्दु एम इ (एन एस-20485पी), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी उमा देवी एन (एन एस-20487ए), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी रेशमी एस नायर (एन एस-20488एच), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी शीजा एम (एन एस-20490ए), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी ललिता नायर (एन एस-20491एच), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी रेखा आर (एन एस-20492एल), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी शिबि राजन (एन एस-20495वाई), 25 जुलाई 2001  
 श्रीमती आशा देवी के जे (एन एस-20496एफ), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी बलस्सी टी (एन एस-20497के), 25 जुलाई 2001  
 श्रीमती विजय लक्ष्मी एल (एन एस-20498एम), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी इन्दुलेखा वी के (एन एस-20499पी), 25 जुलाई 2001

कुमारी सिन्धु एन जे (एन एस-20503एम), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी सिसिलिआ जॉन (एन एस-20506ए), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी आशा पी (एन एस-20507एच), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी चार्लेस्टोन ए एस (एन एस-20508एल), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी मंजु के एन (एन एस-20509एन), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी अनिता (एन एस-20510एच), 25 जुलाई 2001  
 श्रीमती बिन्दु मोहन (एन एस-20512एन), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी गीथा बी (एन एस-20513डब्ल्यू), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी मोनिका लिम्बु (एन एस-20516के), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी रानी पी (एन एस-20517एम), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी स्वपना सदानन्दन (एन एस-20518पी), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी सिन्धु ए (एन एस-20519एक्स), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी शीफा एस एस (एन एस-20520एम), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी श्रीदेवी पी के (एन एस-20521पी), 25 जुलाई 2001  
 कुमारी टी वी रोमा (एन एस-20522एक्स), 25 जुलाई 2001

ऊषा सिकंदर  
 मेजर जनरल  
 ए डी जी एम एन एस

नेवी ब्रांच  
 नौसेना मुख्यालय

सं. 567, दिनांक 3 नवम्बर 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के श्री जे एस जोशी, निदेशक (वर्ग 'क' राजपत्रित) वेतनमान रु. 14300-400-18300 की नियुक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 04.04.2005 से 03.10.2005 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक बढ़ाते हैं।

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई हैं तथा प्रशासकीय कारणों से रद्द की जा सकती हैं।

राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 24.08.2005 से 23.02.2006 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग ख राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु. 6500-200-10,500/- में नियुक्त करते हैं :--

श्री एन. सी. साहू	श्री एस. बनर्जी
श्री डी. एस. शोकीन	श्री मानसिंह
श्री चन्द प्रकाश	श्रीमती स्मिता आहूजा

श्री भगवान सहाय	श्री मामचंद	दफादार नले शिवाजी सदा शिव (सं. 1071125एक्स अब जेसी-241250ए), 06 अप्रैल 2005*
श्री नारायण सिंह	श्री आर. पी. सिंह	
श्री भजन लाल	श्री डी. वी. आर्या	*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)
श्री वी. के. दास	श्री एन. के. आहूजा	
श्री मामन चन्द (सेवानिवृत्त)	श्री मोहन लाल	दफादार विजय कुमार (सं. 1070657एल अब जेसी-241279एच), 01 जुलाई 2005*
श्री एस. के. कर्दम	श्री वेदप्रकाश	*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)
श्री एन. एस. मदान	श्री महावीर सिंह	
श्री कैलाश चन्द	श्री ठाकुर आर. एन.	दफादार शाम सिंह (सं. 1079974एन अब जेसी-241305वाई), 03 जून 2005*
श्री शिव कुमार	श्री पी. के. दास	
श्री खुशाल चन्द्र	श्री यू. एस. भिण्डवाड़	*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)
श्री हेत प्रकाश	श्री रूप चंद	
श्री बी. पी. सिंह	श्री आर. के. साहनी	दफादार भीम सिंह (सं. 1069208के अब जेसी-241312पी), 25 जून 2005*
श्री डी. के. प्रसाद	श्री टी. टेनसिंग्	*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)
श्री जी. सी. थपलियाल	श्री एस. एल. छाबड़ा	
श्री जी. एस. सहगल	श्री रामेश्वर प्रसाद	दफादार रमाकान्त (सं. 1069587एल अब जेसी-241320एन), 17 जून 2005*
श्री सुभाष विश्वास	श्रीमती प्रेमिला रानी	
श्रीमती मीना के. रमाणी	श्री नीरज रंजन	*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)
श्री देवाशीष प्रधान	श्री उदय कापट	दफादार राम दयाल पंडित (सं. 1067471डब्ल्यू अब जेसी-241323एफ), 21 जुलाई 2005*
कु. उज्ज्वल कौर	श्री रविन्द्र साह	
श्रीमती डी. कृष्णामूर्ति	श्रीमती उषा वर्मा	*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)
श्री एस. पी. मल्होत्रा	श्री जे. पी. मीना	
श्री के. सी. ठाकुर		दफादार हरजवन्त सिंह (सं. 1077489ए अब जेसी-241332एच), 24 मई 2005*
ये नियुक्तियां पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई हैं तथा प्रशासकीय कारणों से रद्द की जा सकती हैं।	शंकर सिंह उप मुख्य प्रशासन अधिकारी	*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)
	-----	दफादार रघुनाथ सिंह (सं. 1071973डब्ल्यू अब जेसी-241345ए), 16 जून 2005*
	थल सेना विभाग	*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है)
सं. 568, दिनांक 2 नवम्बर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--	नियमित सेना कवचित कोर नायब रिसालदार के रैंक में	दफादार सूबेदार सिंह (सं. 1074804ए अब जेसी-241346एच), 10 जुलाई 2005*
		*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है)
		दफादार वाई जादुमनी सिंह (सं. 1072800एल अब जेसी-241347एल), 22 जून 2005*
		*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)
दफादार जसवन्त सिंह (सं. 1077412एक्स अब जेसी-241244एम), 20 अप्रैल 2005*		
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)		

दफादार पाटिल राजाराम बापूसाहेब (सं. 1071668के अब जेसी-241348एन), 16 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मार्च 2005 से दी जाती है)

दफादार ओम पाल सिंह (सं. 1066507एक्स अब जेसी-241349डब्ल्यू), 15 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

दफादार बलबीर सिंह (सं. 1077967वाई अब जेसी-241350एल), 28 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

दफादार विजय कुमार (सं. 1070230एफ अब जेसी-241351एन), 24 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

दफादार अथेल बोरा (सं. 1071822एक्स अब जेसी-241352डब्ल्यू), 16 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

दफादार विजय कुमार सरमा (सं. 1067551एन अब जेसी-241354एफ), 28 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

दफादार शिंदे हनमन्त विठोबा (सं. 1071318एक्स अब जेसी-241355के), 02 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

दफादार शमशेर सिंह (सं. 1080624एन अब जेसी-241356एम), 30 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

दफादार जमना सिंह (सं. 1074919एन अब जेसी-241357पी), 05 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मई 2005 से दी जाती है)

दफादार जय सिंग एकनाथ धोलप (सं. 1068752वाई अब जेसी-241358एक्स), 22 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार सुवा सिंह (सं. 1073018पी अब जेसी-241359ए), 01 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार जोगेश सिंह धायरी (सं. 1069820एन अब जेसी-241360पी), 06 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार सिद्धेश्वर यादव (सं. 1068958डब्ल्यू अब जेसी-241361एक्स), 05 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार उपेन्द्र प्रसाद शर्मा (सं. 1069139वाई अब जेसी-241362ए), 23 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार दसरथी साहु (सं. 1069363एल अब जेसी-241363एच), 23 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार जोरावर सिंह (सं. 15462074एक्स अब जेसी-241364एल), 07 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार रिषी नन्दन यादव (सं. 1074566वाई अब जेसी-241366डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार जाबर सिंह (सं. 1078030ए अब जेसी-241367वाई), 21 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार चन्द्र पाल सिंह (सं. 1075049एन अब जेसी-241368एफ), 21 जून 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार विश्व नाथ सिंह (सं. 1068792ए अब जेसी-241369के), 07 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार लक्ष्मण प्रसाद (सं. 1074106एम अब जेसी-241370वाई), 01 जुलाई 2005

दफादार अशोक कुमार (सं. 1077285एन अब जेसी-241373एम), 12 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार राम कुमार सिंह (सं. 1070099पी अब जेसी-241374पी), 15 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार जेठा राम (सं. 1075238एक्स अब जेसी-241375एक्स), 15 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार बृजवीर सिंह गोमर (सं. 1075265एफ अब जेसी-241376ए), 15 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार चन्द्र भान सिंह (सं. 1069972पी अब जेसी-241377एच), 25 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार अक्षय कुमार साहु (सं. 1068534ए अब जेसी-241378एल), 07 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार गुलाब शंकर मौरया (सं. 1070641ए अब जेसी-241379एन), 07 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार राम सरूप (सं. 1077597के अब जेसी-241380एच), 12 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार भुदेव सिंह (सं. 1071397एक्स अब जेसी-241381एल), 09 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार याद राम (सं. 1072307एक्स अब जेसी-241382एन), 09 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार राम कुमार सिंह (सं. 1075054वाई अब जेसी-241383डब्ल्यू), 25 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार एस बृज गोपाल सिंघा (सं. 1071011एम अब जेसी-241384वाई), 21 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार खोडके गुरुनाथ बाबू राव (सं. 1068042एफ अब जेसी-241385एफ), 01 अगस्त 2005 \*

दफादार शिव सिंह (सं. 1071033एल अब जेसी-241386के), 01 अगस्त 2005

दफादार नरेश (सं. 1075122एफ अब जेसी-241387एम), 02 अगस्त 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार शेंडोतानाजी अनन्ता (सं. 1071909वाई अब जेसी-241388पी), 08 अगस्त 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार राम प्रकाश (सं. 1071812एन अब जेसी-241389एक्स), 08 अगस्त 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार सुरिन्दर पाल (सं. 1074923डब्ल्यू अब जेसी-241390एम), 01 अगस्त 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार भूपिन्दर सिंह (सं. 1072282डब्ल्यू अब जेसी-241392एक्स), 01 अगस्त 2005

दफादार ओम प्रकाश (सं. 1074337एन अब जेसी-241394एच), 12 अगस्त 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार मातादिन यादव (सं. 1074757एन अब जेसी-241395एल), 12 अगस्त 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार लखवन्त सिंह (सं. 1079160पी अब जेसी-241396एन), 28 जुलाई 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार के वासाकुट्टी (सं. 1068130एक्स अब जेसी-241398वाई),  
10 अगस्त 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

दफादार रविन्द्र कुमार (सं. 1075642एम अब जेसी-241399एफ),  
08 अगस्त 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

दफादार सुरिन्द्र सिंह भदौरिया (सं. 1069541एच अब जेसी-241403वाई),  
16 अगस्त 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार एम डी शाहजहान अली (सं. 1073284एन अब  
जेसी-241404एफ), 18 अगस्त 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार राजपाल सिंह (सं. 1073521एम अब जेसी-241405के),  
18 अगस्त 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

दफादार इन्तजार हुसैन नायकवाडी (सं. 1073579के अब  
जेसी-241407पी), 18 अगस्त 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्र सिंह चन्देल (सं. 1080127के अब जेसी-241408एक्स),  
17 अगस्त 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दफादार बिजय रत्तन कुमार (सं. 1077210डब्ल्यू अब  
जेसी-241411एक्स), 08 अगस्त 2005 \*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

सं. 569, दिनांक 3 नवम्बर 2005—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियों  
करते हैं :—

सूबेदार : जी डी/एस डी

नायब सूबेदार दरपान सिंह कार्की (जेसी-642164पी), 01 मई 2005

नायब सूबेदार राम चन्द्रा प्रसाद (जेसी-642167एच), 01 जून 2005

नायब सूबेदार सोमेन्दु विश्वास (जेसी-642207वाई), 12 जुलाई 2005 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01  
जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार एस पुरुशोथम रेड्डी (जेसी-642209के), 20 जुलाई 2005 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01  
जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बकशीश सिंह (जेसी-642210वाई), 20 जुलाई 2005 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01  
जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम गिरी गोस्वामी (जेसी-642695एम), 18 जुलाई 2005 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01  
जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार अजय बहादुर (जेसी-642259पी), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार श्रीधरन एस (जेसी-642218एल), 01 अगस्त 2005

सूबेदार : व्यक्तिगत सहायक

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-642624एल), 11 जुलाई 2005 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01  
जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार तरसेम राज शर्मा (जेसी-642627वाई), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार टीका बहादुर महोत्रा (जेसी-642628एफ), 01 अगस्त  
2005

नायब सूबेदार सेथु माधवन टी वी (जेसी-642630वाई), 01 अगस्त  
2005

नायब सूबेदार शंकर कुमार तिवारी (जेसी-642631एफ), 01 अगस्त  
2005

नायब सूबेदार अन्टोनी सी ए (जेसी-642632के), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार लिपिक : जी डी/एस डी

हवलदार श्रीकान्त (सं. 6376418ए अब जेसी-663452पी), 01 अगस्त  
2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाएगी)

हवलदार आर सुरेन्द्रन पिल्लै (सं. 6377433एफ अब  
जेसी-663453एक्स), 02 मई 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी)

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 6377016पी अब जेसी-663454ए), 01 जुलाई  
2005

हवलदार चन्द्रा शेखर पिल्लै (सं. 6377082एक्स अब  
जेसी-663455एच), 01 अगस्त 2005

हवलदार कुश्वाहा चन्द्रा बदन ताहर सिंह (सं. 6375798एक्स अब जेसी-663456एल), 01 अगस्त 2005

हवलदार कसतुभानन्द जोशी (सं. 6377562एफ अब जेसी-663457एन), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार : व्यक्तिगत सहायक

हवलदार धाम सिंह (सं. 6379679वाई अब जेसी-663458डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

हवलदार रतन सिंह बहोथी (सं. 6376117डब्ल्यू अब जेसी-663459वाई), 01 अगस्त 2005

हवलदार रमेश चन्द्रा (सं. 14360328ए अब जेसी-663460एन), 01 अगस्त 2005

हवलदार प्रेम चन्द (सं. 6376741पी अब जेसी-663461डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

कोर ऑफ सिग्नल्स

नायब सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार मासूम अलि (सं. 15352047एल अब जेसी-376051ए), 01 जनवरी 2005

हवलदार एस प्रेम कुमार (सं. 15354398एक्स अब जेसी-376003ए), 01 जनवरी 2005

हवलदार सुकांत कुमार बेहरा (सं. 14257264ए अब जेसी-376052एच), 01 जनवरी 2005

हवलदार बसारे नागनाथ एम (सं. 15357613के अब जेसी-376005एल), 01 जनवरी 2005

हवलदार एस बेलायुथन (सं. 14264175के अब जेसी-376006एन), 01 जनवरी 2005

हवलदार राम हेत (सं. 15359928एम अब जेसी-376009एफ), 01 जनवरी 2005

हवलदार अजीत सिंह (सं. 15367170एफ अब जेसी-376015पी), 30 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार राजीव मोहन ई एन (सं. 15375200एच अब जेसी-376053एल), 01 जनवरी 2005

हवलदार आर के दुबे (सं. 15376966वाई अब जेसी-376054एन), 01 जनवरी 2005

हवलदार शांभरकर के एस आर (सं. 15360547एक्स अब जेसी-376055डब्ल्यू), 15 जनवरी 2005

हवलदार चराटे महावीर (सं. 15353136डब्ल्यू अब जेसी-376056वाई), 24 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जनवरी 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार राजन काना वीटिल (सं. 15367298एम अब जेसी-376024डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

हवलदार मैथ्यू जी (सं. 15373482एन अब जेसी-376027के), 01 जनवरी 2005

हवलदार नंद किशोर (सं. 15373359पी अब जेसी-376028एम), 01 जनवरी 2005

हवलदार पी काथिर वेलु (सं. 15382022एन अब जेसी-376059एम), 01 जनवरी 2005

हवलदार के एल गुर्जर (सं. 15386391एच अब जेसी-376060एफ), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में

हवलदार कुमार एम (सं. 14237979पी अब जेसी-375802के), 05 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार हवा सिंह (सं. 14253145एम अब जेसी-376029पी), 02 मई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी)

हवलदार देशमुख नागोराव बी आर (सं. 14253793पी अब जेसी-376030के), 01 मई 2005

हवलदार प्रभाश चन्द्र राय (सं. 14238397एफ अब जेसी-376031एम), 01 मई 2005

हवलदार आजाद सिंह (सं. 14251042पी अब जेसी-376032पी), 06 जून 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी)

हवलदार श्री भगवान (सं. 14254510पी अब जेसी-376090वाई), 04 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी)

हवलदार दिवाकर प्रसाद मौर्य (सं. 14245673एफ अब जेसी-376091एफ), 01 जुलाई 2005

हवलदार चांद वीर (सं. 14254858के अब जेसी-376093एम), 01 जुलाई 2005

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 14242704एल अब जेसी-376094पी), 01 जुलाई 2005

हवलदार सी एस चौधरी (सं. 14255479ए अब जेसी-376097एच), 01 जुलाई 2005



- हवलदार देवाशीष चटर्जी (सं. 14250001वाई अब जेसी-376099एन),  
04 जुलाई 2005  
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
जुलाई 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार दिनेश सिंह रावत (सं. 14254735एक्स अब जेसी-376101ए),  
04 जुलाई 2005  
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
जुलाई 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार विजय के मोहापात्रा (सं. 14255692ए अब जेसी-376102एच),  
01 जुलाई 2005  
नायब सूबेदार (ओ पी स्पेशल) के रैंक में  
हवलदार रंजीत कुमार नाथ (सं. 14255652एल अब जेसी-375857एन),  
07 मार्च 2005  
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
मार्च 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार आर एस यादव (सं. 14258575ए अब जेसी-375923एल),  
11 अप्रैल 2005  
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
अप्रैल 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार रवीन्द्र सिंह (सं. 14252190एम अब जेसी-375931के), 13  
अप्रैल 2005  
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
अप्रैल 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार राजपाल (सं. 14259144ए अब जेसी-375935ए), 01 अप्रैल  
2005  
हवलदार सुदर्शन कुमार (सं. 14257957एक्स अब जेसी-375942डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2005  
हवलदार बलदेव किशन (सं. 14255597एन अब जेसी-375948एक्स),  
01 अप्रैल 2005  
हवलदार सुदेश पाल (सं. 14255797के अब जेसी-375951एक्स), 01  
अप्रैल 2005  
हवलदार सुन्दर सिंह (सं. 14256584एच अब जेसी-375954एल), 01  
अप्रैल 2005  
हवलदार आशितबरन गुछैत (सं. 14252944डब्ल्यू अब  
जेसी-376106वाई), 01 जुलाई 2005  
हवलदार पृथ्वी सिंह (सं. 14246589एन अब जेसी-376107एफ), 04  
जुलाई 2005  
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
जुलाई 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार के बी नायडू (सं. 14257410पी अब जेसी-376108के), 01  
जुलाई 2005  
हवलदार जगत प्रकाश (सं. 14260406एक्स अब जेसी-376111के),  
01 जुलाई 2005  
हवलदार के एस यादव (सं. 14260460एल अब जेसी-376112एम),  
01 जुलाई 2005  
हवलदार नागाराजा (सं. 14260691एफ अब जेसी-376114एक्स), 01  
जुलाई 2005  
हवलदार आर रवि (सं. 14260675के अब जेसी-376115ए), 01 जुलाई  
2005  
हवलदार राजबीर (सं. 14255986एन अब जेसी-376116एच), 05  
जुलाई 2005  
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
जुलाई 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार पवार यशवंत जी (सं. 14258894एम अब जेसी-376117एल),  
01 जुलाई 2005  
हवलदार राजू सिंह (सं. 14260013पी अब जेसी-376119डब्ल्यू), 01  
जुलाई 2005  
हवलदार प्रसाद जी (सं. 14255975एफ अब जेसी-376120एल), 01  
जुलाई 2005  
नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में  
हवलदार गुरचरन सिंह (सं. 14244175एच अब जेसी-375811एल),  
25 फरवरी 2005  
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
फरवरी 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार एलोइस कुजुर (सं. 14245555एन अब जेसी-376034ए),  
01 मई 2005  
हवलदार जी एस चौहान (सं. 14251829के अब जेसी-376050एक्स),  
01 मई 2005  
हवलदार बलजीत सिंह (सं. 14255288एल अब जेसी-376061के),  
15 जून 2005  
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
जून 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार अवतार सिंह संधू (सं. 14246354एफ अब जेसी-376062एम),  
01 जून 2005  
हवलदार के पी एस यादव (सं. 14253825एम अब जेसी-376063पी),  
05 जुलाई 2005  
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
जून 2005 से दी जाएगी)
- हवलदार सुमन्त कुमार बरिक् (सं. 14257335डब्ल्यू अब  
जेसी-376066एच), 01 जून 2005  
हवलदार सत्यपाल सिंह (सं. 14256488एन अब जेसी-376121एन),  
01 जुलाई 2005

हवलदार निर्मल सरकार (सं. 14256528के अब जेसी-376122डब्ल्यू),  
01 जुलाई 2005

हवलदार रामजीत (सं. 14257824एफ अब जेसी-376124एफ), 01  
जुलाई 2005

हवलदार एस सी दास (सं. 14257876एच अब जेसी-376125के), 07  
जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार बेचन सिंह (सं. 14239748एक्स अब जेसी-375965एक्स),  
20 अप्रैल 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
अप्रैल 2005 से दी जाएगी)

हवलदार सी एस त्रिपाठी (सं. 14247622एम अब जेसी-376133एच),  
01 जुलाई 2005

हवलदार बलबीर चन्द (सं. 14246298एन अब जेसी-376134एल),  
01 जुलाई 2005

हवलदार थान सिंह (सं. 14254044एल अब जेसी-376135एन), 01  
जुलाई 2005

हवलदार रवीन्द्र कुमार दत्ता (सं. 14246482वाई अब  
जेसी-376136डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005

हवलदार लाखे सिंह (सं. 14250219एल अब जेसी-376137वाई), 01  
जुलाई 2005

हवलदार एस बी तिवारी (सं. 14253477डब्ल्यू अब जेसी-376138एफ),  
01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14245457एन अब जेसी-375808एल),  
01 जनवरी 2005

हवलदार एस एस उमाशिव (सं. 14243646वाई अब जेसी-375821पी),  
09 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
फरवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार सागर मल (सं. 14246124एन अब जेसी-375840ए), 01  
फरवरी 2005

हवलदार राम सेवक (सं. 14247824एन अब जेसी-375841एच), 01  
फरवरी 2005

हवलदार राम चन्द्र (सं. 14246887के अब जेसी-375842एल), 01  
फरवरी 2005

हवलदार राम बाबू कुशवाहा (सं. 14245544एफ अब  
जेसी-375843एन), 01 फरवरी 2005

हवलदार काश्मीर सिंह (सं. 14247498डब्ल्यू अब  
जेसी-375844डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

हवलदार किशन लाल (सं. 14247668पी अब जेसी-375874एन), 05  
मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
मार्च 2005 से दी जाएगी)

हवलदार रामचन्द्र दारा (सं. 14234637डब्ल्यू अब जेसी-375875डब्ल्यू),  
01 मार्च 2005

हवलदार जसवन्त सिंह (सं. 14239797ए अब जेसी-375876वाई), 06  
मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
मार्च 2005 से दी जाएगी)

हवलदार बिशम्बर दयाल (सं. 14240477एक्स अब जेसी-375877एफ),  
01 मार्च 2005

हवलदार बाचस्पति शर्मा (सं. 14241352एम अब जेसी-375878के),  
01 मार्च 2005

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं. 14231993एल अब जेसी-375879एम),  
07 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
मार्च 2005 से दी जाएगी)

हवलदार विनोद कुमार शर्मा (सं. 14230686ए अब जेसी-375880एफ),  
12 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
मार्च 2005 से दी जाएगी)

स्थायी सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

नायब सूबेदार ज्ञान चन्द (जेसी-372200एल), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-372211एक्स), 01 मई 2005

नायब सूबेदार हवा सिंह जाट (जेसी-372212ए), 01 जून 2005

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-372213एच), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार एस सिवा कुमार (जेसी-372214एल), 09 जुलाई 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सतीश कुमार मिश्रा (जेसी-372215एन), 10 अगस्त  
2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र पाठक (जेसी-372216डब्ल्यू), 01 जुलाई  
2005

नायब सूबेदार सुरेश सिंह सेंगर (जेसी-372217वाई), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार एस एस पनवर (जेसी-372218एफ), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार पी कुमार मिश्रा (जेसी-372219के), 11 जुलाई 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01  
जुलाई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार मांगे राम (जेसी-372220वाई), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार गुट्टे मधुकर एम (जेसी-372221एफ), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार मोईनुद्दीन (जेसी-372222के) 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार उमेद सिंह भूकल (जेसी-372223एम), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार त्रिलोकी नाथ प्रसाद (जेसी-372224पी), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-372225एक्स), 01 अगस्त 2005  
 स्थाई सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में  
 नायब सूबेदार कमलेश कुमार पाठक (जेसी-372172 के) 01 फरवरी 2005  
 नायब सूबेदार रघुनाथन पिल्लई (जेसी-372181एल), 01 मार्च 2005  
 नायब सूबेदार जय कुमार (जेसी-372188पी), 11 अप्रैल 2005  
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)  
 नायब सूबेदार हरि लाल (जेसी-372380वाई), 02 जून 2005  
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)  
 नायब सूबेदार जी एच चन्द्र शिवप्पा (जेसी-372382के), 01 जून 2005  
 नायब सूबेदार कुमाराबेदिबेल एम (जेसी-372383एम), 01 जून 2005  
 नायब सूबेदार पी बैंकदा सामी (जेसी-372384बी), 01 जून 2005  
 नायब सूबेदार एस अलगुबन्डी (जेसी-372385एक्स), 01 जून 2005  
 नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-372386ए), 01 जून 2005  
 नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-372389एन), 01 जून 2005  
 नायब सूबेदार विश्वानाथन वी (जेसी-372390एच), 01 जून 2005  
 नायब सूबेदार मदन मोहन प्रमाणिक (जेसी-372392एन), 01 जून 2005  
 नायब सूबेदार सुमन जेना (जेसी-372393डब्ल्यू), 15 जुलाई 2005  
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)  
 नायब सूबेदार गोविन्दन के (जेसी-372395एफ), 01 जून 2005  
 नायब सूबेदार सुशील कुमार (जेसी-372396के), 01 जून 2005  
 नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-372397एम), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार विनोद (जेसी-372398पी), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार रेनादेवाने (जेसी-372400एफ), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार इमादुद्दीन (जेसी-372401के), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार राजेन्द्र चन्द्र (जेसी-372405ए), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-372406एच), 22 जुलाई 2005  
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार समीर कुमार सिंघा (जेसी-372407एल), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार परकाश यादव (जेसी-372408एन), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार कंजरिया लक्ष्मन जी (जेसी-372404एक्स), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-371993एम), 01 अगस्त 2005  
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जुलाई 2005 से दी जायेगी)  
 स्थाई सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में  
 नायब सूबेदार भास्करन पिल्लई के वी (जेसी-373006एच), 01 मार्च 2005  
 नायब सूबेदार अशोक कुमार दीक्षित (जेसी-373321वाई), 11 जुलाई 2005  
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)  
 नायब सूबेदार मन्ने चेन्नईया (जेसी-373322एफ), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार करन सिंह (जेसी-373329एल), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार जोगेन्द्र सिंह (जेसी-373330ए), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार सतवीर सिंह (जेसी-373333एन), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-373907पी), 07 जुलाई 2005  
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)  
 नायब सूबेदार जी सी कटोच (जेसी-373336एफ), 11 जुलाई 2005  
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)  
 नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-373337के), 04 जुलाई 2005  
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)  
 नायब सूबेदार करतार सिंह (जेसी-373338एम), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार सत्य पाल (जेसी-373340के), 10 अगस्त 2005  
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)  
 नायब सूबेदार गिरधर बरुआ (जेसी-373456ए), 01 जुलाई 2005  
 नायब सूबेदार सदानंदन एम (जेसी-373909ए), 01 अगस्त 2005  
 नायब सूबेदार नोमु राम बरुआ (जेसी-373458एल), 19 अगस्त 2005  
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)  
 नायब सूबेदार पोटलुरी वी प्रसाद (जेसी-373459एन), 01 अगस्त 2005

स्थाई सूबेदार (ओ पी स्पेशल) के रैंक में	नायब सूबेदार बीकर सिंह (जेसी-373171एन), 01 मार्च 2005
नायब सूबेदार कंधी लाल कोष्टा (जेसी-372315वाई), 23 फरवरी 2005	नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-373201ए), 01 मार्च 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)	नायब सूबेदार बासालिंगप्पा अंगदी (जेसी-373202एच), 06 मार्च 2005
नायब सूबेदार राम निवास रोहिला (जेसी-372879एफ), 01 नवम्बर 2004	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार जोसे जॉर्ज पी (जेसी-372880डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004	नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-373203एल), 01 मार्च 2005
नायब सूबेदार राजन कोल्लिलयल (जेसी-372910एच), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार राम कुमार सरोहिया (जेसी-373204एन), 21 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार सुखराज सिंह (जेसी-372911एल), 01 दिसम्बर 2004	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार राधा कुमार एम (जेसी-372912एन), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार शिवाजी कदम (जेसी-373205डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-372913डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार प्रभात छाबड़ा (जेसी-373280पी), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार बेनुधर बेहेरा (जेसी-372914वाई), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार प्यार चन्द (जेसी-373231एक्स), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार सरवजीत (जेसी-372915एफ), 01 जनवरी 2005	नायब सूबेदार ए जेबियर (जेसी-373232ए), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार भीम सिंह (जेसी-372916के), 01 जनवरी 2005	नायब सूबेदार रवीन्द्र कुमार तिवारी (जेसी-373234एल), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार विजया कुमारन वी (जेसी-372917एम), 01 जनवरी 2005	नायब सूबेदार धरम पाल (जेसी-373235एन), 03 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार राम जगम राम (जेसी-372918पी), 01 जनवरी 2005	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-372919एक्स), 01 जनवरी 2005	नायब सूबेदार देस राज (जेसी-373236डब्ल्यू), 05 मई 2005
नायब सूबेदार एस कृष्णनाथ रामा (जेसी-373048पी), 01 फरवरी 2005	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार आर पी मिश्रा (जेसी-373049एक्स), 01 फरवरी 2005	नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-373237वाई), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार मदन मोहन (जेसी-373050एम), 01 फरवरी 2005	नायब सूबेदार त्रिजोगी सिंह (जेसी-373238एफ), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार के एस पटियाल (जेसी-373051पी), 01 फरवरी 2005	नायब सूबेदार रन सिंह पूनिया (जेसी-373239के), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार राजेश्वर प्रसाद (जेसी-373053ए), 01 फरवरी 2005	नायब सूबेदार राधे श्याम (जेसी-373240वाई), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार राम निवास दाईया (जेसी-373055एल), 01 मार्च 2005	नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-373241एफ), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार जी के नायर के (जेसी-373149एच), 01 मार्च 2005	नायब सूबेदार करन पाल सिंह (जेसी-373341एम), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार मुलायम सिंह (जेसी-373150एक्स), 01 मार्च 2005	नायब सूबेदार जे एस जसवाल (जेसी-373343पी), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार संत कुमार सिंह (जेसी-373151ए), 24 मार्च 2005	नायब सूबेदार मुरली ए पी (जेसी-373343एक्स), 01 अप्रैल 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)	नायब सूबेदार विजयन पी वी (जेसी-373344ए), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार वी पी सिंह (जेसी-373152एच), 02 अप्रैल 2005	नायब सूबेदार राजन एन (जेसी-373346एल), 18 मई 2005
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार देव कुमार सिंह (जेसी-373167एल), 01 मार्च 2005	नायब सूबेदार थंगाराजू एस (जेसी-373347एन), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-373170एल), 01 मार्च 2005	नायब सूबेदार डी कुप्पन (जेसी-373348डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार मदाने निमरूटी गुलाब (जेसी-373349वाई), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार ए के श्रीवास्तव (जेसी-373350एन), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार रामअवध सिंह (जेसी-373351डब्ल्यू), 13 अप्रैल 2005  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पिन्डरजीत सिंह (जेसी-373473ए), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार बावन कुमारसिंह (जेसी-373474एच), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार राकेश सिंह (जेसी-373475एल), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार रोशन लाल (जेसी-373477डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार राम वृक्ष यादव (जेसी-373478वाई), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार बी सी नायर पी डी (जेसी-373479एफ), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार अमर सिंह शाक्य (जेसी-373480डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार रामेश्वर सिन्हा (जेसी-373481वाई), 01 जून 2005

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-373482एफ), 03 जून 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मंजीत सिंह (जेसी-373483के), 01 जून 2005

नायब सूबेदार शक्तीपदा पंजा (जेसी-373484एम), 01 जून 2005

नायब सूबेदार धरम पाल सिंह (जेसी-373485पी), 01 जून 2005

नायब सूबेदार यशोदानंद झा (जेसी-373486एक्स), 06 जून 2005  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गोपालाकृष्णन टी पी (जेसी-373487ए), 24 जून 2005  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार तरसेम लाल (जेसी-373488एच), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार डी एस सिरौही (जेसी-373489एल), 01 सितम्बर 2005

स्थाई सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार देविन्दर सिंह (जेसी-371267एक्स), 01 जनवरी 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बलजीत कौशिक (जेसी-371352ए), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार मंगत राम (जेसी-371353एच), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-371354एल), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-371355एन), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार तिलेश्वर हाजम (जेसी-371358एफ), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार सी एच तंडाले (जेसी-371359के), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार मजलूम खान (जेसी-371360वाई), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार रवीन्द्रन एस (जेसी-371361एफ), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार कमल चन्द्र बोरा (जेसी-371362के), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार विजय कुमार शर्मा (जेसी-371363एम), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार रामानंद (जेसी-371366ए), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार अशोक कुमार शुक्ला (जेसी-371367एच), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार सुदर्शन कुमार (जेसी-371369एन), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार एस के शर्मा (जेसी-372528एम), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार मोहन सिंह बिष्ट (जेसी-371371एल), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार सुख राज यादव (जेसी-371373डब्ल्यू), 01 जून 2005

नायब सूबेदार जनार्दना पेंक्कताविता (जेसी-371622के), 01 जून 2005

नायब सूबेदार यादव रघु सिद्ध (जेसी-371727एन), 11 जून 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम सुभग सिंह (जेसी-371729वाई), 01 जून 2005

नायब सूबेदार आसित कुन्दु (जेसी-371730एन), 01 जून 2005

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-371731डब्ल्यू), 08 अगस्त 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार वेनुगोपालन वी (जेसी-371733एफ), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-371734के), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार शिव राज सिंह (जेसी-371836ए), 30 जुलाई 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जी मदन मोहना (जेसी-371837एच), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार सुल्तान सिंह चीता (जेसी-371838एल), 18 जुलाई 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-371839एन), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार ताजवर सिंह (जेसी-371907डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार राम बरीक यादव (जेसी-371625एक्स), 16 अगस्त 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

स्थाई सूबेदार (एस के टी) के रैंक में	नायब सूबेदार हरिहर सिंह (जेसी-373538एच), 01 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार बिक्रम सिंह (जेसी-373464वाई), 01 जनवरी 2005	नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-373539एल), 01 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-373465एफ), 13 मई 2005	नायब सूबेदार एस एम पाटिल (जेसी-373540ए), 01 अक्टूबर 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)	नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-373541एच), 07 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार पी के साहू (जेसी-373466के), 01 जून 2005	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार पी के भट्टाचार्या (जेसी-373467एम), 01 जून 2005	नायब सूबेदार हरि राम दुबे (जेसी-373542एल), 01 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार ज्ञान चन्द शर्मा (जेसी-373468पी), 01 जून 2005	नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-373543एन), 01 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार गुलदीप सिंह (जेसी-373469एक्स), 01 जुलाई 2005	नायब सूबेदार इमानुल (जेसी-373544डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार श्रीधर नायर आर (जेसी-373470एम), 01 जुलाई 2005	नायब सूबेदार अशोक कुमार के के (जेसी-373545वाई), 01 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार जगदीश चन्द (जेसी-373471पी), 01 अगस्त 2005	नायब सूबेदार मेहर सूर्याम नीला (जेसी-373547के), 01 अक्टूबर 2004
स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में	नायब सूबेदार साधों सिंह (जेसी-373548एम), 01 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार दान सिंह (जेसी-373261पी), 28 जून 2004	नायब सूबेदार इन्दर सेन (जेसी-373549पी), 01 अक्टूबर 2004
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)	नायब सूबेदार सुभाष सिंह (जेसी-373550के), 27 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-373374एक्स), 01 अगस्त 2004	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-373518पी), 01 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-373552पी), 01 नवम्बर 2004
नायब सूबेदार एस नार्थ मोहन्ती (जेसी-373519एक्स), 01 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार रूप लाल चौधरी (जेसी-373553एक्स), 01 नवम्बर 2004
नायब सूबेदार एम सी शुक्ला बैद्य (जेसी-373521पी), 01 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-373554ए), 01 नवम्बर 2004
नायब सूबेदार परशुराम सिंह (जेसी-373522एक्स), 01 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार मेजर सिंह (जेसी-373555एच), 01 नवम्बर 2004
नायब सूबेदार भंवर सिंह (जेसी-373524एच), 01 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जेसी-373556एल), 01 नवम्बर 2004
नायब सूबेदार सधन चन्द्र देवनाथ (जेसी-373525एल), 01 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार अप्पासाहेब होलिन (जेसी-373557एन), 01 नवम्बर 2004
नायब सूबेदार यशपाल सिंह (जेसी-373526एन), 01 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार वीरेन्द्र प्रसाद (जेसी-373558डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004
नायब सूबेदार बाबू जे (जेसी-373527डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार धरम पाल (जेसी-373559वाई), 18 नवम्बर 2004
नायब सूबेदार रवीन्द्र नाथ विश्वास (जेसी-373528वाई), 01 अक्टूबर 2004	(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार पाटिल मुंडलिक रामा (जेसी-373529एफ), 01 अक्टूबर 2004	एम. एम. सिंह अवर सचिव
नायब सूबेदार सुखबीर (जेसी-373530डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004	-----
नायब सूबेदार प्रह्लाद सिंह (जेसी-373532एफ), 01 अक्टूबर 2004	मिलिट्री नर्सिंग सेवा स्थायी (कमीशन)
नायब सूबेदार एन एस भोजलिंग (जेसी-373534एम), 01 अक्टूबर 2004	संख्या 570, दिनांक 8 नवम्बर 2005--राष्ट्रपति प्रत्येक अधिकारी के सम्मुख दर्शाई गई तारीख से निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:- (लेफ्टिनेंट से कैप्टन)
	कुमारी सुषमा आर (एन आर-20427एल), 06 सितम्बर 2001

कुमारी डी शीबा (एन आर-20431एन), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी निशा न (एन आर-20432डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2001  
 श्रीमती रिगीना बी (एन आर-20433वाई), 06 सितम्बर 2001  
 श्रीमती सुजा बी पिल्लै (एन आर-20435के), 06 सितम्बर 2001  
 श्रीमती मोहिनी (एन आर-20437पी), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी सिन्धुमोल पी के (एन आर-20438एक्स), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी बिन्दु पी जी (एन आर-20439ए), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी श्यनी जॉर्ज (एन आर-20442ए), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी सीमा डेविड (एन आर-20443एच), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी स्मीता दूबे (एन आर-20444एल), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी रोसा लिंगी थोमस (एन आर-20445एन), 06 सितम्बर 2001  
 श्रीमती सुमा देवी पी (एन आर-20446डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी वार्नश्री जे (एन आर-20447वाई), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी असवथी आई (एन आर-20449के), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी मंजु जॉर्ज (एन आर-20450वाई), 06 सितम्बर 2001  
 श्रीमती मिनीमोल के के (एन आर-20451एफ), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी सुनिता शर्मा (एन आर-20453एम), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी सुलेखा हलडर (एन आर-20455एक्स), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी श्रीजा एस (एन आर-20456ए), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी शान्ति माया तमंग (एन आर-20458एल), 06 सितम्बर 2001  
 श्रीमती बिन्दु के पंकज (एन आर-20459एन), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी बिनू एस (एन आर-20460एच), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी श्रीपा टी एस (एन आर-20461एल), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी मिनी पी चैक्को (एन आर-20462एन), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी जयाश्री बी एस (एन आर-20463डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी नालिनी जी (एन आर-20464वाई), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी जुबैरा ए (एन आर-20465एफ), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी मंजुषा बी के (एन आर-20466के), 06 सितम्बर 2001  
 श्रीमती चेथा शर्मा (एन आर-20468पी), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी मिनीमोल जे (एन आर-20469एक्स), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी बिन्दु के पी (एन आर-20470एम), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी विभा पी एस (एन आर-20471पी), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी सिन्धु माधवन (एन आर-20472एक्स), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी कविथा एस कुमार (एन आर-20476एन), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी रीता स्वाति कुजुर (एन आर-20477डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2001

कुमारी शायनी पी सकरोच (एन आर-20479एफ), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी बी सुजा (एन आर-20480डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी गंगा सी बी (एन आर-20483के), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी बिन्दु एम ई (एन आर-20485पी), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी उमा देवी एन (एन आर-20487ए), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी रेशमी एस नायर (एन आर-20488एच), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी शीजा एम (एन आर-20490ए), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी ललिथा नायर (एन आर-20491एच), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी रेखा आर (एन आर-20492एल), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी शिबि राजन (एन आर-20495वाई), 06 सितम्बर 2001  
 श्रीमती आशा देवी के जे (एन आर-20496एफ), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी बलस्सी टी (एन आर-20497के), 06 सितम्बर 2001  
 श्रीमती विजय लक्ष्मी (एन आर-20498एम), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी इन्दुलेखा बी के (एन आर-20499पी), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी सिन्धु एन जे (एन आर-20503एम), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी सिसिलिया जॉन (एन आर-20506ए), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी आशा पी (एन आर-20507एच), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी चारलेस्टोन ए एस (एन आर-20508एल), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी मंजु के एन (एन आर-20509एन), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी अनिता (एन आर-20510एच), 06 सितम्बर 2001  
 श्रीमती बिन्दु मोहन (एन आर-20512एन), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी गीथा बी (एन आर-20513डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी मोनिका लिम्बु (एन आर-20516के), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी रानी पी (एन आर-20517एम), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी स्वप्ना सदोनन्दन (एन आर-20518पी), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी सिन्धु ए (एन आर-20519एक्स), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी शीफा एस एस (एन आर-20520एम), 06 सितम्बर 2001  
 कुमारी श्री देवी पी के (एन आर-20521पी), 06 सितम्बर 2001

उषा सिकंदर

मेजर जनरल

ए डी जी एम एन एस

-----

सं. 571, दिनांक 9 नवम्बर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एएमसी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

सर्जन लेफ्टिनेन्ट कमान्डर के पद पर

के प्रदीप शंकर (एमएस-14144एन) (एम आर-08107के) (75743),  
 एएमसी, 21 मार्च 2005

नारायण एस (एम एस-14184पी) (एम आर-08124के), एएमसी,  
13 दिसम्बर 2004

राजेश कामरान  
ब्रिगेडियर  
डिप्टी डीजीएफएमएस(पर्स)

सं. 572, दिनांक 7 नवम्बर 2005—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों  
की सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति देते हैं :—

प्रादेशिक सेना  
प्रादेशिक कमीशन  
मेजर बनाया जाता है।

कैप्टन दमनजीत सिंहगिल (टी ए-42010), इन्फैन्ट्री, 04 फरवरी 2003  
कैप्टन बी बी एस चन्द्रा (टी ए-42125), इन्फैन्ट्री, 02 मई 2004  
कैप्टन एम के हुसैन (टी ए-42418), इन्फैन्ट्री, 10 फरवरी 2003  
कैप्टन अजय नेहरा (टी ए-42458), इन्फैन्ट्री, 14 जनवरी 2005  
कैप्टन आर एन भट्टाचार्यजी (टी ए-42523), इन्फैन्ट्री, 11 फरवरी  
2003

एस. के. मागनिक  
निदेशक (जी)

सं. 573, दिनांक 8 नवम्बर 2005—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित अधिकारियों  
की सहर्ष पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना  
स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में पदोन्नति (चयन द्वारा)

आईसी सं., नाम, आर्म्स/सर्विस व मूल रैंक की तिथि

आईसी-34097 कंवलजीत सिंह, मैक इन्फैन्ट्री, 01 दिसम्बर 2000

आईसी-36772 कश्न ऋषि भटनागर, गार्ड्स, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-34431 सुनील कुमार धवन, एओसी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-वी00354 एस एस परमार, आरवीसी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-वी00356 टी एस सचदेवा, आरवीसी, 01 फरवरी 2005 (किन्तु  
वरिष्ठता 31 अक्टूबर 2004 से बिना वेतन व पेंशन पर प्रभाव के)

आईसी-वी00357 जे बी बक्शी, आरवीसी, 01 फरवरी 2005 (किन्तु  
वरिष्ठता 31 अक्टूबर 2004 से बिना वेतन व पेंशन पर प्रभाव के)

आईसी-38203 संजीव कुमार अर्गल, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37032 जगीत सिंह देओल, एएससी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37047 राकेश बक्शी, एसी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37050 जी के मेदीरता, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-35255 कंबर कृष्ण बदम, एएडी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-35287 सत्येन्द्र सिंह ढीसा, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-35306 ए के परदेसी, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-35408 चवलुम वेंकट रमनैया, आईसी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37232 योगेन्द्र कुमार माथुर, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-35611 मंजीत सिंह, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-35784 गुरभीत सिंह बैदवान, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37056 बलराज सिंह ग्रेवाल, एओसी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37316 प्रदीप सिंह मेहता, एसी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37317 आर्थर रॉय सेमुअल, मैक इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37320 विशम्बर दयाल, एसी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37323 रजनीश कुमार रावत, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37324 परमपाल सिंह बल, एएससी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37328 जसपाल सिंह पामा, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37331 नरिन्दर विज, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37332 मोहन पांडुरंग पाटिल, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37335 राजिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37338 हरबीर सिंह ब्राह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37342 ओम प्रकाश अबरॉल, एएससी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37349 रवि जयरथ, एएडी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37354 दीपक रैना, एओसी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37355 रणबीर सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37369 अशोक कुमार गांगुली, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37371 अशोक कुमार, एएससी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37373 ओम प्रकाश यादव, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37382 अरुण कुमार, सिग्नल्स, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37384 नवल कपूर, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37386 दीपक सापरा, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37388 महावीर सिंह निगानिया, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37389 विरिन्दर सिंह ग्रेवाल, ईन्ट, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37391 अशोक कुमार, एएससी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37395 महेन्द्र सिंह, बीका, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37396 प्रभु सिंह राठौड़, जैग, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37397 अखिल दीक्षित, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-37404 गजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004



आईसी-37407 राजेश्वर सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-37411 रणबीर सिंह लठवाल, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-37420 विजय कुमार यादव, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-37379 रघुनन्दन सिंह राघव, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-37398 राजन रविन्द्रन, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-37345 जतिन्दर पाल सिंह, एओसी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-37794 जितेन्द्र कुमार नारंग, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-37795 विश्वम्भर सिंह, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-37796 राजिन्दर कुमार मोहन्ती, ईएमई, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35999 मदनपथ राजगोपाल, एओसी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35904 सरथ चन्द, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35907 अजय कुमार प्रसाद, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35908 अजय आनन्द, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35909 अजय सिंह पंवर, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35911 रणजीत सिंह, गार्ड्स, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35912 सम्पत राव पांडूरंग पाटिल, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35913 मोदिन मशक नडफ, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35915 राजीव तिवारी, एसी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35916 हर्षा नागर, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35917 अशोक कुमार सिंह, एएडी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35919 अमरजीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35921 प्रदीप कुमार डोगरा, एएडी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35922 विजय बक्शी, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35923 जगबीर सिंह चीमा, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35924 राजेश दुआ, ईएमई, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35925 संजय अग्रवाल, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35928 गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35929 विनोद वशिष्ठ, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35931 अरुण कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35932 रक्षित सुकेश, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35933 अरुण धर, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35934 ज्योति स्वरूप सिंह, एएडी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35936 अरुण मार्या, एसी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35940 जगदीश कुमार, एएससी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-35941 प्रकाश नारायण त्रिपाठी, एएडी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35942 बलराज सिंह राठी, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35944 प्रेम सागर, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35947 नितिन कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35952 रमन पिचई, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35953 अविनाश लक्ष्मण चवाण, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35954 शरद खट्टर, ईएमई, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35955 अमरीक सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35956 अजमेर सिंह सांगवान, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35960 शखन कुमार पटयाल, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35962 ललित कुमार पाण्डे, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35965 राजेन्द्र रामराव निम्भोरकर, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35969 रमेश चन्द कटोच, एएडी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35970 ऐलथ कुट्टेरी जयचन्द्रन, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35971 नीलरतन मित्रा, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35972 शिव दयाल मांगवा, आर्मी एविएशन, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35974 संजय रघुनाथ पाठक, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35976 प्रमोद रामचन्द्र देशपाण्डे, एएडी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35978 अमरजीत सिंह, सिग्नल्स, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35979 जसविन्दर सिंह सूरज, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35982 सतीश बी चवाण, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35983 अनुराग गुप्ता, मैक इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35984 आशीष कुमार घोष, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35986 भास्करन विजय कुमार नायर, एएडी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35987 दीवान रविन्द्रनाथ सोनी, एसी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35989 शिव प्रताप सिंह कुंवर, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35992 अमरजीत सिंह चित्तोत, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35996 हरदीत सिंह, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-35998 हर्षा ककर, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-38001 किजाकविल कोटिअथ अरुण, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-38006 प्रफुल पी ओका, एसी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-38007 असादुल्लाह खान, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-38011 पंकज कुमार श्रीवास्तव, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आईसी-38012 रविन्दर सिंह, एएससी, 31 अक्टूबर 2004

आईसी-38013 विनोद कुमार पिल्लै, गाड्स, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39848 भूषण बिभूति, ई एम ई, 31 अक्टूबर 2004
आईसी-38016 हेमन्त कुमार अहलूवालिया, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39854 उमेश कुमार सिंह, ई एम ई, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38020 राकेश छिब्रर, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39853 राज कुमार शर्मा, ई एम ई, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38024 लैप्रकपम निशिकांत सिंह, इन्ट, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39798 सुधीर सूद, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38026 विजित कृष्ण तिवारी, एस, 31 अक्टूबर 2004	आईसी-39799 धनंजय विनायक विधवांस, ई एम ई, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38027 देवेश्वर प्रसाद सिन्हा, इन्फैन्ट्री 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39801 के एस घुमन, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38028 सुनील भंडारी, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39803 राजेश कुमार पट्याल, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38032 आशुतोष दत्ताराव नारगोलकर, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39808 गुरदीप सिंह, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38043 चन्द्र शेखर, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39810 सौरभ सन्याल, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38044 पंकज सचदेवा, मेक इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39816 हरदीप सिंह धन्नी, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38045 प्रदीप सैनी, आर्मी एविएशन, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39818 सुरेश शर्मा, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38046 सतिन्दर जीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39825 राजेन्द्र कुमार, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38049 अनिल मलिक, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39826 त्रिलोचन सिंह सिदाना, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38060 भानू कुमार पांडे, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39829 प्रकाश झा, ई एम ई, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38063 अशोक कुमार नायर, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39838 प्रकाश नारायण लखे, ई एम ई, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38071 संजीव कुमार शर्मा, एओसी, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39843 अशोक कुमार भुटानी, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38075 रणधीर सिंह यादव, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-39846 आशीष रंजन प्रसाद, सिग्नल, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38089 मो. इशराऊल हक, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-35943 शेखर नायडू, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38090 जितेन्द्र सिंह मनराल, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-37472 गुरदीप सिंह, ए ओ सी, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38093 अडोल्फ सेबास्तियन पिन्तो, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-37476 भरत भूषण, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38096 राम गोपाल नलिंगथिंगल, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-37480 रवि मोहन मंडला, ए ओ सी, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38097 अजय कुमार पंत, एसी, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-37492 दीनाकरण गणपति, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38105 मधु सूदन कुकशाल, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-37463 सुरेश कुमार यादव, गार्ड्स, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38108 जसविन्दर सिंह साही, मैक इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-37466 जगत सिंह मेहता, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38118 गुरु सदाय बताव्याल, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-37473 संजीव सूद, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38122 निरेश रातौर, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-37485 अनुपिन्दर सिंह जस्सर, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38131 नरेन्द्र कुमार यादव, ए एस सी, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-37490 अश्विनी कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38135 जी सुब्रमणियन, ए ए डी, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-37499 हरबिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38154 एम श्री कुमार नायर, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-37505 विजय कुमार पथिल, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38205 सन्नी कुरियन कीझूर, ए ई सी, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-37511 रघुनाथ नांबियार, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38208 प्रदीप पॉल, ए ई सी, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-37531 आलोक राय माधुर, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38227 अरुण सरीन, ए ई सी, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-38363 यादविन्दर सिंह महिवाल, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
आई सी-38231 सुनील चन्द्र, ए ई सी, 31 अक्टूबर 2004	आई सी-38370 दीपक मल्होत्रा, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
	आई सी-38373 ललित मोहन चमोला, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004

- आई सी-38377 पंकज सिन्हा, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38381 रानू सिंह राठौर, ए ओ सी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38382 परीक्षित कुमार बिश्नोई, ए ए डी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38386 माम राज सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38388 राजेश त्यागी, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38391 अजय कुमार, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38429 सज्जन कुमार शेखावत, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38434 दीपेश बहुगुणा, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38435 दिलीप चिन्तामणि कोटी भास्कर, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38437 रवि वीर बत्रा, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38439 समीर बिसरिया, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38440 सागर सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38441 दिवाकर डोगरा, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38448 जय कुमार नायर, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38461 रवि प्रकाश श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38462 विमल कुमार, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38511 सच्चिदानंद प्रसाद साही, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38530 सैनानी विनोद थंवरदास, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38543 अनिल कुमार थापा, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38265 दलीप कुमार प्रधान, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38266 सुरिन्दर सिंह, गार्ड्स, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38268 राजेन्द्र सिंह यादव, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38269 करण सिंह राठौर, ए सी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38270 कुलवन्त कुमार शर्मा, ए ए डी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38271 विजय पाण्डे, मैक इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38272 रूप चन्द ठाकुर, ई एम ई, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38274 मोनी चन्दी, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38277 हरबिन्दर सिंह गिल, ए सी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38280 इंदुपूरु नारायणा, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38281 सुजान सिंह, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38282 दीपक धाण्डा, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38283 जतिन्दर सिंह साही, ए सी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38285 शक्ति प्रकाश शर्मा, एओसी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38286 दिनेश कुमार बडोला, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38287 बाल कृष्ण यादव, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38288 समरजीत सिंह सहगल, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38289 सुधीर सिंह जाखड़, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38293 ओंकार सिंह यादव, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38297 विनीत मोहन, एएडी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38300 विवेक प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38304 मनमोहन सिंह भराज, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38305 करुण कुमार सिन्हा, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38306 संजीव खन्ना, ईएमई, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38308 विजय कुमार सहगल, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38309 हरमिन्दर सिंह, सिग्नल, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38311 सतीश कुमार दुआ, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38312 बानी सिंह, एओसी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38316 नरेश चन्द्र बधानी, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38317 संजीव मेहरा, मैक इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38318 प्रभजीत सिंह थिंड, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38322 जयन्त आर पेन्डसे, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38325 राजीव शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38329 सुनील चन्द्र चमोली, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38331 पुनीत तिवारी, एसी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38333 मुकुन्द मोहन शर्मा, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38339 राकेश कुमार कौशिश, सिग्नल, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38340 शंकर प्रसाद शर्मा, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38341 संगप्पा गुरप्पा बालुतगी, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38342 आर पी एस भदूरिया, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38344 नारा रामा कोटेश्वर राव, सिग्नल, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38347 पलानी मुत्थु जयराम, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38350 अश्विनी कुमार शर्मा, एसी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38353 दिनेश कुमार शाह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38357 राजिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38359 अनुपम बासु, ईएमई, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38361 रविन्द्रनाथ चटर्जी, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38372 रमेश कुमार जंघु, मैक इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004
- आई सी-38397 नरेश कुमार मेहता, एओसी, 31 अक्टूबर 2004

आई सी-38402 भवानी सिंह, एसी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38403 शौकीन चौहान, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38405 दिलीप नारायण सिंह, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38407 जयदीप सिंह, एसी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38408 विवेक सहगल, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38413 दीपक नामदेवराव खडसे, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38431 रमेश कुमार मलिक, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38473 जगदीश चन्द, एओसी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38475 चन्द्रपाल सिंह, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38479 अशोक कुमार, चौधरी, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38487 पम्पापति दोदप्पा हाल्लुर, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38491 बाल गोविन्द पाठक, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38494 अनिल खोसला, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38496 कमल कुमार चौहान, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38503 अरुण भटनागर, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38506 बसन्त नारायण सिंह, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38512 चार्ल्स मर्विन रॉड्रिग्स, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38516 सुभाष बसन्त चौधरी, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38528 कपिल कुमार अग्रवाल, ईएमई, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38558 शारद चन्द्र मिश्रा, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38560 बलिनन्दर सिंह चौधरी, एओसी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38562 दीपक सक्सेना, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38580 अजीत बाजपेई, सिग्नल, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38585 विवेक अनन्तकृष्णन, इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38588 सुधीर चन्द्र मिश्रा, एओसी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38590 संजीव वर्मा, एसी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38597 शूबीर सिंह नेगी, एईसी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38601 जॉन एलिस, एईसी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38623 अजीत सिंह राठौड़, मिलिट्री फार्म, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38422 एस आर मारानबसारी, आर्टी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-38303 गोपीनाथ मेनन, एएडी, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-40263 के जे थंकाचन, सिग्नल, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-40272 विश्व मोहन प्रसाद, ईएमई, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-40273 रणधीर सिंह, इंजीनियर्स 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-40277 सुशान्त कुमार मिश्रा, ईएमई, 31 अक्टूबर 2004  
 आई सी-37863 सुनील विनायक गाओपाण्डे, इंजीनियर्स, 31 अक्टूबर

आर. वी. सी. ऑफिसर्स

स्थायी आयोग

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में

वी-398 अनिल कुमार, आर.वी.सी., 10 अगस्त 2004  
 वी-400 दुष्यन्त बाली, आर.वी.सी., 10 अगस्त 2004  
 वी-401 एस. डी. शर्मा, आर.वी.सी., 10 अगस्त 2004  
 वी-402 राजेन्द्र धूमल विनायक, आर.वी.सी., 10 अगस्त 2004  
 वी-403 मोहन राजीव डांग, आर.वी.सी., 10 अगस्त 2004  
 वी-404 विवेक चौहान, आर.वी.सी., 10 अगस्त 2004  
 वी-406 अभय सिंह, आर.वी.सी., 10 अगस्त 2004  
 वी-407 पी. बी. देशमुख, आर.वी.सी., 16 नवम्बर 2004  
 वी-408 सी. एस. ओझा, आर.वी.सी., 16 नवम्बर 2004  
 वी-409 सी. एम. देसाई, आर.वी.सी., 16 नवम्बर 2004  
 वी-410 एस. के. दीक्षित, आर.वी.सी., 16 नवम्बर 2004  
 वी-411 पी. के. पुस्टी, आर.वी.सी., 16 नवम्बर 2004  
 वी-416 राजन थापर, आर.वी.सी., 10 अगस्त 2004  
 वी-418 डी. एस. ग्रेवाल, आर.वी.सी., 10 अगस्त 2004  
 वी-420 डी. वी. नेहरा, आर.वी.सी., 10 अगस्त 2004  
 वी-422 पी. के. सिंह, आर.वी.सी., 16 नवम्बर 2004  
 वी-424 अरुण शर्मा, आर.वी.सी., 16 नवम्बर 2004  
 वी-426 नरेन्द्र सिंह, आर.वी.सी., 10 अगस्त 2004  
 वी-429 एस. वी. एस. सुधाकर, आर.वी.सी., 16 नवम्बर 2004

मेजर से ले. कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक सं., नाम, आर्म व मूल रैंक की तिथि

आईसी-38661 एस पी एस पुरी, एओसी, 16 दिसम्बर 2004 (किन्तु वरिष्ठता दिनांक 31 दिसम्बर 2002 से)

नोट : उपरोक्त अधिकारी ले. कर्नल के एक्विंग रैंक में है अतः उसके वेतन एवं भत्ते पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु (चयन द्वारा) के मूल रैंक में पदोन्नति हेतु उसकी वरिष्ठता को प्रस्थापित किया गया है।

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

आईसी-41953 एल एस सिंह, इन्फैन्ट्री, 9 जून 2004  
 एसएल-03163 अजीत सिंह, एसएल(आरओ), 20 जुलाई 2004  
 आईसी-45007 एस पी एस राहेजा, इन्फैन्ट्री, 26 अप्रैल 2003  
 आईसी-41179 सी एस सालुंके, इंजीनियर्स, 18 जून 2003  
 आईसी-38584 सुशील चन्द्रा, इन्फैन्ट्री, 14 जनवरी 2000

मेजर से ले. कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में  
टैरिटोरियल आर्मी (अविभागीय)

वैयक्तिक सं., नाम, आर्म, मूल रैंक की तिथि

टीए-41592 एन के घई, टीए(अवि), 21 अप्रैल 1996

टीए-41743 एन के कोतवाल, टीए(अवि), 03 जून 2004

टीए-41749 जे वी प्रसाद, टीए(अवि), 13 जून 2001

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में पदोन्नति  
टैरिटोरियल आर्मी (अविभागीय)

टीए-42182 एस एस सावंत, टीए(अवि), 01 फरवरी 2002

टीए-41599 एन के वी नारायणन, टीए(अवि), 03 अक्टूबर 2001

टीए-41687 ए के रॉय, टीए(अवि), 24 दिसम्बर 2001

टीए-41708 एस के पारीक, टीए(अवि), 25 दिसम्बर 2003

अजय गोयल  
उप निदेशक  
एम एस-8ए

सेना सचिव शाखा

सं. 574, दिनांक 9 नवम्बर 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष मेजर जनरल के मूल  
रैंक में निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक

नाम, आई सी, आर्म, मेजर जनरल के मूल रैंक में प्रभावी तिथि

ब्रिगे. जसवाल एस के (आई सी-19387) इंजीनियर्स (जी सी),  
01 मई 2003

ब्रिगे. एच. वी. भल्ला (आई सी-19561) इन्फ, 21 मई 2003

ब्रिगे. मल्होत्रा पी. एस. (आई सी-23032) ए.ओ.सी., 22 मई 2003

ब्रिगे. शर्मा आर एस (आई सी-28332) ए.ओ.सी., 01 दिसम्बर 2003 से  
परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2003 से दी जाएगी।

ब्रिगे. यादव सत्यवीर, ए वी एस एम (आई सी-26838), कुमाँऊ,  
01 जुलाई 2003

ब्रिगे. ए. के. सिंह, ए वी एस एम, एन एम वी एस एम (आई सी-28192)  
इंजीनियर्स, 08 नवम्बर 2003 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले  
बिना 2 जुलाई 2003 से दी जाएगी।

ब्रिगे. गौतम दत्त (आई सी-23266) इंजीनियर्स, 01 जनवरी 2004 से  
परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अगस्त 2003 से दी  
जाएगी।

ब्रिगे. सिंह आर. वी एस एम (आई सी-23274), पारा, 02 अगस्त 2003

ब्रिगे. बापत यू के एन, वी एस एम (आई सी-23275), कुमाँऊ,  
03 अगस्त 2003

ब्रिगे. अशोक खोसला (आई सी-23376) सिग्स, 01 जनवरी 2004 से  
परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 अगस्त 2003 से दी  
जाएगी।

ब्रिगे. ए. के. बेदी (आई सी-23279) इंजीनियर्स, 20 जनवरी 2004 से  
परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 सितम्बर 2003 से दी  
जाएगी।

ब्रिगे. आर. के. एस. शिवरैन, ए वी एस एम (आई सी-23288) इन्फ,  
02 सितम्बर 2003

ब्रिगे. मोहन्ती जे. के. एस. एम (आई सी-23291) डोगरा, 01 दिसम्बर  
2003 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 सितम्बर 2003  
से दी जाएगी।

ब्रिगे. ग्रेवाल डी एस (आई सी-23292) मेक इन्फ, 01 दिसम्बर 2003 से  
परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 सितम्बर 2003 से दी  
जाएगी।

ब्रिगे. लीडर जे एस, भू वाई एस एम (आई सी-23295) ग्रेनेडियर,  
01 दिसम्बर 2003 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना  
05 सितम्बर 2003 से दी जाएगी।

ब्रिगे. सप्रू टी. के. वाई एस एम (आई सी-23302) 4 जी आर, 01 दिसम्बर  
2003 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अक्टूबर 2003  
से दी जाएगी।

ब्रिगे. भंडारी आर पी एस (आई सी-23303) 12 ए आर,  
02 अक्टूबर 2003

ब्रिगे. आर के कक्कर, वाई एस एम (आई सी-23322) इन्फ,  
03 अक्टूबर 2003

ब्रिगे. यू के झा (आई सी-23334) ईएमई, 04 अक्टूबर 2003

ब्रिगे. बी सी ढौंडियाल (आई सी-23353) सिग्स, 05 अक्टूबर 2003

ब्रिगे. बी पी एस मंडेर (आई सी-23362) ए एस सी, 06 अक्टूबर 2003

ब्रिगे. के पी डी सामन्ता (आई सी-23375) आर्टी, 07 अक्टूबर 2003

ब्रिगे. ए एस बक्शी (आई सी-23419) सिग्स, 05 मार्च 2004 से परन्तु  
ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 अक्टूबर 2003 से दी जाएगी।

ब्रिगे. बी डी वाधवा (आई सी-23431) ई एम ई, 01 दिसम्बर 2003 से  
परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 अक्टूबर 2003 से दी  
जाएगी।

ब्रिगे. एन बी सिंह (आई सी-23484) इन्फ, 01 नवम्बर 2003

ब्रिगे. एच एस सहगल (आई सी-23486) आर्टी, 02 नवम्बर 2003

ब्रिगे. ढाका एस एस, एस एम (आई सी-28423) ए ओ सी,  
23 दिसम्बर 2003 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना  
03 नवम्बर 2003 से दी जाएगी।

ब्रिगे. कौल टी. के. वी एस एम (आई सी-28531) कुमाँऊ, 04 नवम्बर  
2003

ब्रिगे. के. एस. सिक्कुमार वी एस एम (आई सी-28605) इन्फ,  
01 दिसम्बर 2003

ब्रिगे. एन एस पाण्डेय (आई सी-25751) इंजीनियर्स, 18 अक्टूबर 2004 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी।

ब्रिगे. बी थाम्बिया (आई सी-25757) इंजीनियर्स, 15 मार्च 2004 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी।

ब्रिगे. ए. के. नंदा (आई सी-23665) इंजीनियर्स, 01 जुलाई 2004 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी।

ब्रिगे. ए बी सय्यद (आई सी-23678) एम एस आई, 21 दिसम्बर 2003  
ब्रिगे. के. के. कोहली, वी एस एम (आई सी-23688) आर्टी (जी सी), 01 जनवरी 2004

ब्रिगे. बरार एन एस (आई सी-23689) आर्टी (जीसी), 02 जनवरी 2004

ब्रिगे. के एस वेणुगोपाल (आई सी-32703) ई एम ई, 03 जनवरी 2004

ब्रिगे. मल्हान आर पी एस, वाई एस एम, एस एम (आई सी-23718) पारा, 04 जनवरी 2004

ब्रिगे. हरबन्त कृष्ण (आई सी-23737) मेक इन्फ, 11 अप्रैल 2004 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जनवरी 2004 से दी जाएगी।

ब्रिगे. विक्रम मदान, वी एस एम (आई सी-23744) इन्फ, 06 जनवरी 2004

ब्रिगे. आर एस. गिल, ए सी (आई सी-23756) ए सी, 07 जनवरी 2004

ब्रिगे. ओम प्रकाश (आई सी-23759) सिग्स, 26 अगस्त 2004 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जनवरी 2004 से दी जाएगी।

ब्रिगे. एन एस. सप्रे (आई सी-23770) आर्टी, 09 जनवरी 2004

ब्रिगे. ए परमार (आई सी-23777) इन्फ, 20 जनवरी 2004

ब्रिगे. वी के जैन (आई सी-23799) आर्टी, 02 फरवरी 2004

ब्रिगे. ए के लाम्बा (आई सी-23801) आर्टी, 03 फरवरी 2004

ब्रिगे. पी एस यादव (आई सी-23812) इन्फ, 04 फरवरी 2004

ब्रिगे. बी जे गुप्ता, वी एस एम (आई सी-23813) इन्फ, 04 मार्च 2004

ब्रिगे. आर के छबरा (आई सी-23814) 4 जी आर, 01 अप्रैल 2004

ब्रिगे. पी पी राजगोपाल, वी एस एम (आई सी-23872) पारा, 02 अप्रैल 2004

ब्रिगे. राजिन्दर सिंह, एस एम, वी एस एम (आई सी-23928) इन्फ, 16 अप्रैल 2004

ब्रिगे. निलेन्द्र कुमार (आई सी-23978) जैग, 01 मई 2004

ब्रिगे. बी सी कटोच, यू वाई एस एम एस सी (आई सी-24006) पारा, 02 मई 2004

एन मारियप्पन  
संयुक्त निदेशक/एम एस (एक्स)

कार्यालय महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा/डीजी-3डी

सं. 575, दिनांक 9 नवम्बर 2005--परिवार कल्याण डाक्टरों के संवर्ग के पुनर्गठन के उपरान्त तथा पत्र संख्या 35273/ए सी पी/डी जी एएफएम एस/डी जी-3डी दिनांक 06.04.05 तथा 15.07.05 को जारी पदोन्नति आदेश के अन्तर्गत निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों (परिवार कल्याण) को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी वेतनमान रुपए 10000-15200 की श्रेणी में उनके नाम के सामने लिखित दिनांक से प्रोन्नत किया जाता है।

नाम, पदोन्नत पद व दिनांक

डा. (श्रीमती) रीता प्रमाणिक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, 26 अप्रैल 2001

डा. (श्रीमती) रितु भल्ला वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, 01 सितम्बर 2005

डा. (श्रीमती) पी शलेन्द्रा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, 15 जुलाई 2005

अमर नाथ सिन्हा  
उप निदेशक/डीजी-3डी

सं. 576, दिनांक 8 नवम्बर 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले. कर्नल (टी एस) ले. कर्नल

आईसी सं., नाम व आर्म

आईसी-37880 राजेन्द्र सिंह मेहता, इन्फैन्ट्री

आईसी-40059 एस एस बाजवा, इन्फैन्ट्री

आईसी-41676 अनूप थापा, इन्फैन्ट्री

आईसी-41308 कोनरूवेंकटारमण, आर्टी

--16 दिसम्बर 2004

मेजर ले. कर्नल

आईसी सं., नाम व आर्म

आईसी-42871 राज विजय रोहलानिया, ईन्ट

आईसी-48620 असीम कुमार नाथ, एओसी

आईसी-49596 साजू मैथ्यू, एएमसी

आईसी-50555 प्रवीण देव, एएससी

आईसी-44539 डी अरुल बारबास उदय कुमार, आर्टी

आईसी-44554 एस चट्ठा, इन्फैन्ट्री

आईसी-44810 एम एम एस रेखी, इन्फैन्ट्री

आईसी-44872 के के मिश्रा, इंजीनियर्स  
 आईसी-45798 वी एस सानख्यान, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45806 दलवी संग्राम नरेन्द्र, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47221 जी मथियालाल, आर्टी  
 आईसी-47364 मनीष कपूर, इंजीनियर्स  
 आईसी-47470 पी आर एस सिरोही, एसी  
 आईसी-46319 राजीव पुरी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46380 आई के वेणुगोपाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-48514 राजदीप सिंह मानेसे, एसी  
 आईसी-48527 स्हरिया नितिन मेहता, आर्टी  
 आईसी-48607 भट्टाचार्य सुभाजीत, आर्टी  
 आईसी-48732 हरीश खान्गरोट, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-48790 हरबिन्दर सिंह सन्धू, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-48994 ब्रह्म प्रकाश शर्मा, आर्टी  
 आईसी-49047 सुनीत वीर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49059 रजनीश सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49115 भास्कर सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49180 तरुण कुमार चोपड़ा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49274 अलोक चन्द्रा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49310 संजय खन्ना, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49383 विजय चौधरी, ईएमई  
 आईसी-46431 सुरेश अधिकारी, ईएमई  
 आईसी-46466 लल्लन कुमार जी सिंह, इंजीनियर्स  
 आईसी-42824 पी वी वाडावाड़गी, सिग्नल्स  
 आईसी-43375 रामचन्द्रा मारुति काम्बले, आर्टी  
 आईसी-43435 एल पाड्री, इंजीनियर्स  
 आईसी-43255 अमिताव नाथ, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45450 जसबीर गुरनाम सिंह खोक्कर, ईएमई  
 आईसी-44854 एम माया मयन नायर, ईएमई  
 आईसी-44858 अमिक गर्ग, ईएमई  
 आईसी-48116 गुरसतिन्दर सिंह सब्बरवाल, ईएमई  
 आईसी-48242 रवि दीप सिंह, ईएमई  
 आईसी-48392 महेन्द्रा प्रसाद, ईएमई  
 आईसी-47619 एम के मधु मोहन, ईएमई  
 आईसी-49619 गुलशन चावला, ईएमई  
 आईसी-49655 संजीव कुमार शर्मा, ईएमई

आईसी-49894 अनिल लूथरा, ईएमई  
 आईसी-49989 पी जे सिंह, ईएमई  
 आईसी-50376 बीरेन्द्र सिंह राठी, ईएमई  
 आईसी-44983 राजीव सूद, इंजीनियर्स  
 आईसी-48479 रूपीन्द्र जीत सिंह, सिग्नल्स  
 आईसी-49388 आर मोहन कृष्ण नायर, इंजीनियर्स  
 आईसी-45073 रवि शंकर एम, आर्टी  
 आईसी-44220 जायसन के जोश, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45613 जी प्रमोद कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47004 पी एस शेखावत, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46889 सुखमीत सिंह, आर्टी  
 आईसी-50333 मनीष सरीन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50374 विवेक माथुर, इंजीनियर्स  
 आईसी-50465 वैद्या नितिन विलास, सिग्नल्स  
 आईसी-50499 सुप्रीत सिंह गिल, आर्टी  
 आईसी-50587 गुरप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50656 जे एस प्रकाश, इंजीनियर्स  
 आईसी-50664 हरपाल सिंह, इंजीनियर्स  
 आईसी-37377 बी एस धतला, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-38354 रोहिताश्व, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-38436 जोतिन्दर पाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-39397 राम बाबू पलेती, एएससी  
 आईसी-41047 के के बर्धन, इंजीनियर्स  
 आईसी-41049 एल एस पतवाल, सिग्नल्स  
 आईसी-41050 राजेन्द्रा सिंह, सिग्नल्स  
 आईसी-41051 सी पी मिश्रा, सिग्नल्स  
 आईसी-41053 जे पी शर्मा, सिग्नल्स  
 आईसी-41056 एन के शर्मा, इंजीनियर्स  
 आईसी-41057 आर पी शुक्ला, सिग्नल्स  
 आईसी-41059 राजवीर सिंह, ईएमई  
 आईसी-41060 जी जी मैथ्यूज, सिग्नल्स  
 आईसी-41061 पी वी रामाकृष्णा, इंजीनियर्स  
 आईसी-47747 रूपक शर्मा, एएससी  
 आईसी-44593 रमेश कुमार, एएससी  
 आईसी-47753 सुखमिन्दर पाल सिंह परहार, इन्फैन्ट्री

आईसी-44066 के सनातन, एसी	आईसी-46874 इन्दर पाल सिंह सेठी, ए ओ सी
आईसी-44215 मनोज कुमार सचन, आर्टी	आईसी-46875 हेमन्त दूबे, ए एस सी
आईसी-45703 संजीव सब्बरवाल, एसी	आईसी-46876 प्रसन्ना श्री खण्डे, ए ओ सी
आईसी-40558 एन के हरिनारायण, इन्फैन्टी	आईसी-46877 जिया मासकोड अनवर, आर्टी
आईसी-40960 ए के त्यागी, इन्फैन्टी	आईसी-46878 अनूप कुमार सिंह राणा, आर्टी
आईसी-41531 बिनोद कुमार झा, इन्फैन्टी	आईसी-46879 संजय नाथ शाह देव, ए सी
आईसी-42431 पी पी तिवारी, इन्फैन्टी	आईसी-46880 मनीष जेटली, ए सी
आईसी-39754 हिम्मत सिंह, मैक इन्फैन्टी	आईसी-46881 अजय सिंह चौहान, आर्टी
आईसी-42382 संजीव पराशर, मैक इन्फैन्टी	आईसी-46882 रजनीश मेहता, ए एस सी
आईसी-39602 आर एम गौर, इन्फैन्टी	आईसी-46883 राजेश सिंह, आर्टी
आईसी-42253 टी के शशिधरण, इंजीनियर्स	आईसी-46884 प्रिया दर्शन बहुगुणा, ए ओ सी
आईसी-37814 प्रमोद सिंह, ए ओ सी	आईसी-46885 अरूण भनोट, ए सी
आईसी-46847 जसवीर सिंह, एसी	आईसी-46886 बी वेंकट रामणा, ए एस सी
आईसी-46848 विक्रम सिंह, ए एस सी	आईसी-46887 रविश भारद्वाज, आर्टी
आईसी-46849 हिमांशु राय, ए सी	आईसी-46888 जगराज सिंह, ए सी
आईसी-46850 संजय कुमार, ई एम ई	आईसी-46890 सुदीप मित्रा, आर्टी
आईसी-46851 अतुल पन्नू, ए ओ सी	आईसी-46891 एम संजय रविन्द्रनाथ, इन्फैन्टी
आईसी-46852 जितेन्द्र सिंह रावत, ए ओ सी	आईसी-46892 जी गोस्वामी, ए एस सी
आईसी-46854 हेमन्त परमार, ए एस सी	आईसी-46893 एन के भारद्वाज, ए ओ सी
आईसी-46855 सतीश कुमार तिवारी, ए एस सी	आईसी-46894 संजीव पठानिया, ए सी
आईसी-46856 मनोज पुष्कन विट्टिल, आर्टी	आईसी-46895 रामेश्वर गुप्ता, ए ओ सी
आईसी-46857 उदय प्रकाश सिंह मिन्हास, आर्टी	आईसी-46896 जितेन्द्र सिंह, आर्टी
आईसी-46858 प्रफुल्ल सिंह, आर्टी	आईसी-46897 सुनील बहादुर सिन्हा, ए सी
आईसी-46859 आदर्श बुठेल, इन्फैन्टी	आईसी-46899 सतीश एस केकरे, ए डी ए
आईसी-46860 संदीप कपूर, एसी	आईसी-46900 पुनीत नयथानी, ए सी
आईसी-46862 भूपेन्द्र सिंह शाही, इन्फैन्टी	आईसी-46901 ए के मिश्रा, ए ओ सी
आईसी-46863 दलीप सिंह ठाकुर, इन्फैन्टी	आईसी-46902 विक्रम सिंह पठानिया, ए डी ए
आईसी-46865 नरेन्द्र सिंह, इन्फैन्टी	आईसी-46903 नवजोत काना, आर्टी
आईसी-46866 कमल कान्त उप्रेती, आर्टी	आईसी-46904 हरी प्रसाद, इन्फैन्टी
आईसी-46867 रोबिन छेत्री, इन्फैन्टी	आईसी-46906 मनजीत सिंह धद्दा, आर्टी
आईसी-46868 राजीव बक्शी, इन्फैन्टी	आईसी-46907 राजदीप थापा, ए एस सी
आईसी-46869 प्रदीप कुमार, आर्टी	आईसी-46908 ओथरा अब्राहम ओनीत्तन, ई एम ई
आईसी-46871 राजेश सेठी, ए एस सी	आईसी-46909 वी के यादव, ए एस सी
आईसी-46872 अमरनाथ, ए ओ सी	आईसी-46910 सिद्धार्थ राजगुरू, ईन्ट
आईसी-46873 बलजिन्दर सिंह गोराया, ए एस सी	आईसी-50272 पवन दत्त, इंजीनियर्स



आईसी-50273 सन्दीप सिंह रावत, ए सी	आईसी-50312 गुरविन्द्र सिंह, ए डी ए
आईसी-50274 पी सज्जन मोइदीन, ए डी ए	आईसी-50313 मोहित जिवेदी, इन्फैन्ट्री
आईसी-50275 विक्रम सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री	आईसी-50314 करमेल सिंह, आर्टी
आईसी-50276 कुलजीत सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50315 दीपेन्द्र मनसाम, इन्फैन्ट्री
आईसी-50277 सल्लुम गुप्ता, इंजीनियर्स	आईसी-50316 गुनइम देवका सेनरेड्डी, आर्टी
आईसी-50279 धरम राज राय, इन्फैन्ट्री	आईसी-50317 महेन्द्रा सिंह पायल, सिग्नल्स
आईसी-50281 जी शेखर, इंजीनियर्स	आईसी-50318 राजेश सिद्दाग, ई एम ई
आईसी-50282 अमीत खोखरन, आर्टी	आईसी-50319 शिवा कुमार दी आसानी, इन्फैन्ट्री
आईसी-50283 शमशेर सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50321 प्रताप सिंह राणावत, ए सी
आईसी-50284 आदित्य विक्रम सिंह राठी, इन्फैन्ट्री	आईसी-50322 राम चन्द्रा यादव, ईन्ट
आईसी-50286 विजय पाल सिंह दहिया, ए वी एन	आईसी-50323 गोविन्द सिंह तंवर, इन्फैन्ट्री
आईसी-50287 कुलबीर सिंह सनेवाल, ए सी	आईसी-50324 एस सूरज, ए एस सी
आईसी-50288 सुशील कुमार, ई एम ई	आईसी-50325 रघुवीर सिंह भास्कर, ए एस सी
आईसी-50289 गुरजीत सिंह सन्धु, इन्फैन्ट्री	आईसी-50326 सौरभ सिन्हा, ए ओ सी
आईसी-50290 टी जे अजीत कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-50327 राय सिंह गुजर, इन्फैन्ट्री
आईसी-50291 प्रदीप कुमार, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-50328 अमीश चड्ढा, इन्फैन्ट्री
आईसी-50292 राजेश सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-50329 प्रभज्योत सिंह भाटी, आर्टी
आईसी-50293 दान सिंह विष्ट, ए ओ सी	आईसी-50331 वीर मेहता, ए ओ सी
आईसी-50294 विजयाविथला के गुडी, सिग्नल्स	आईसी-50332 रन्जय जार्ज, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50295 रघबीर सिंह लाम्बा, आर्टी	आईसी-50334 जसपाल सिंह नदान, ई एम ई
आईसी-50296 सन्दीप शीतल, इन्फैन्ट्री	आईसी-50336 सत्यामूर्ति, ए ओ सी
आईसी-50297 पुनीत कपूर, ई एम ई	आईसी-50337 तरुण अग्रवाल, आर्टी
आईसी-50298 पंकज फोतेदार, सिग्नल्स	आईसी-50338 मनोज मास्तरण सलासकर, इंजीनियर्स
आईसी-50299 अनिल कुमार मोर, इन्फैन्ट्री	आईसी-50339 रन्जन केरान, ए सी
आईसी-50300 विनोद कुमार कल्ला, ए ओ सी	आईसी-50340 दूरेक मरिदा, आर्टी
आईसी-50301 नवदीप बरार, आर्टी	आईसी-50341 जगप्रीत सिंह, ए एस सी
आईसी-50302 विकास कुमार, ई एम ई	आईसी-50342 एम मुरुगननथम, आर्टी
आईसी-50303 मनीष चुग, सिग्नल्स	आईसी-50343 आदेश कौशिक, ए सी
आईसी-50304 रन्जन मलिक, इन्फैन्ट्री	आईसी-50344 गौतम पेन्टल, ए एस सी
आईसी-50305 रवि श्वेत, इंजीनियर्स	आईसी-50345 मोहित नानागिया, इंजीनियर्स
आईसी-50306 अरविन्द चौहान, इन्फैन्ट्री	आईसी-50346 संजीव कुमार गुप्ता, इन्फैन्ट्री
आईसी-50307 मोहित मेहन्दरू, ए एस सी	आईसी-50347 विजय कुमार गुरंग, इन्फैन्ट्री
आईसी-50308 अमरजोत एस संगत, सिग्नल्स	आईसी-50348 सुनील चौहान, ए डी ए
आईसी-50310 अजय नन्द खन्डूरी, ई एम ई	आईसी-50349 जोश वर्गीस, ई एम ई
आईसी-50311 परमज्योत सिंह पथेजा, ए वी एन	आईसी-50350 हरिन्द्र सिंह सिधू, इन्फैन्ट्री

आईसी-50351 अजय फिरोज शाह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50391 राजू कृष्णी, एडीए
आईसी-50352 करुमन सुलेमान राजा कुमार, आर्टी	आईसी-50393 विक्रमजीत सिंह गिल, आर्टी
आईसी-50355 शान्ता कुमार पी ए, इन्फैन्ट्री	आईसी-50394 जयचन्द्रन सी जे, इंजीनियर्स
आईसी-50356 राजेश कृष्ण, एसी	आईसी-50395 पंकज साती, एएससी
आईसी-50358 अजय सोनी, एडीए	आईसी-50396 जितेन्द्र पंडित, इंजीनियर्स
आईसी-50359 अनिल कजूरिया, सिग्नल्स	आईसी-50397 प्रीतपाल सिंह बांगा, सिग्नल्स
आईसी-50360 परमवीर सिंह, एओसी	आईसी-50398 राजकुमार किशन पैथनकर, आर्टी
आईसी-50361 विजय कुमार शर्मा, ईएमई	आईसी-50399 कपिल हांडा, सिग्नल्स
आईसी-50362 संतोष कुमार जायसवाल, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-50400 नरेन्द्रा सिंह धाकडे, ईएमई
आईसी-50363 जे सन्धू साकाराम, इंजीनियर्स	आईसी-50402 अमर अशोक बापत, इन्फैन्ट्री
आईसी-50364 नवीन राठी, आर्टी	आईसी-50403 अतुल मुकुन्दव सालूंकी, एसी
आईसी-50365 शलैन्द्रा श्रीधर करहादे, सिग्नल्स	आईसी-50404 अनिरबन दाता, इन्फैन्ट्री
आईसी-50366 अनिल पाठक, आर्टी	आईसी-50405 बीरेन्द्र कुमार, आर्टी
आईसी-50367 धनगजाम तिकेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50406 गगन दीप, इन्फैन्ट्री
आईसी-50368 उपेन्द्र सिंह कनदिल, आर्टी	आईसी-50407 मन मोहन सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50369 शेष सुधाकर शहते, इन्फैन्ट्री	आईसी-50408 संजय कुमार लाकरा, ईएमई
आईसी-50370 विनोद कुमार बनगखा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50409 चेतन धीमन, इन्फैन्ट्री
आईसी-50371 सजन सिंह नेहरा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50410 आदित्य कुमार वर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-50372 गुरदीप सिंह गिल, एएससी	आईसी-50411 वीरेन्द्र सिंह राठौर, एडीए
आईसी-50373 सन्दीप भारद्वाज, एएससी	आईसी-50412 जसवन्त सिंह, एएससी
आईसी-50375 अरुण कुमार गौतम, इन्फैन्ट्री	आईसी-50413 सुरेश रामेश्वर शर्मा, आर्टी
आईसी-50377 पी कालाई मोहन, ईएमई	आईसी-50414 अनूप अलगाराजन, ईएमई
आईसी-50378 पी जी सुरेश कुमार, आर्टी	आईसी-50415 अजय बतरा, इंजीनियर्स
आईसी-50379 संजीव कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-50416 रघुनन्दन सिंह जसरोटिया, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50380 नीरज पंजकरण, ईएमई	आईसी-50417 अमित शर्मा, एओसी
आईसी-50381 शमशेर सिंह कुलर, इन्फैन्ट्री	आईसी-50418 सतवीर सिंह गिल, इन्फैन्ट्री
आईसी-50382 संतोष कुमार नायर, इन्फैन्ट्री	आईसी-50419 सुनील कुमार दलाल, एसी
आईसी-50383 योगेश सरधाना, सिग्नल्स	आईसी-50420 जतिन्द्रा दामोदर सहस्त्रबुध, इन्फैन्ट्री
आईसी-50384 शिरीन देशपांडे, सिग्नल्स	आईसी-50421 अशोक मिश्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-50385 डी नन्दन पांडे, एसी	आईसी-50422 रवि शंकर आर, ईएमई
आईसी-50386 संजीव कुमार दत्ता, इन्फैन्ट्री	आईसी-50423 अजय बशिष्ठ, आर्टी
आईसी-50387 नरेन्द्र सिंह नेगी, एओसी	आईसी-50424 जोशी प्रसन्ना सुधाकर, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50388 जयदीप गोपाल सूरी, एसी	आईसी-50425 उपेन्द्र सिंह राघव, इन्फैन्ट्री
आईसी-50389 सुबोध कुमार, एओसी	आईसी-50426 राजीव वी वैद्य, एओसी
आईसी-50390 अरुण कुमार सिन्हा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50427 आर के सुरेश कुमार, इन्फैन्ट्री

आईसी-50429 नरेश कुमार, आर्टी	आईसी-50471 मेहरबान सिंह बाजवा, एओसी
आईसी-50431 बिपिन कुमार, आर्टी	आईसी-50472 निलेश ए साल्वी, इन्फैन्ट्री
आईसी-50433 राजेन्द्र सिंह, ईएमई	आईसी-50474 अमित माहना, इंजीनियर्स
आईसी-50434 प्रेम सिंह सीकारवाल, एएससी	आईसी-50475 गणेश भट्ट, आर्टी
आईसी-50436 मनोज रंजन, इंजीनियर्स	आईसी-50476 अमित भटनागर, एएससी
आईसी-50437 राहुल यादव, सिग्नल्स	आईसी-50477 कुलवन्त कटारिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-50438 शिव दयाल सिंह दयोल, आर्टी	आईसी-50478 मिथिलेश कुमार भदानी, सिग्नल्स
आईसी-50439 महेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-50479 राजे जोन, सिग्नल्स
आईसी-50440 हेमन्ता पानगिना, इन्फैन्ट्री	आईसी-50481 रणजीत सिंह मान, एएससी
आईसी-50441 प्रगट सिंह, एसी	आईसी-50482 वाका भास्कर रेड्डी, एएससी
आईसी-50442 जे संजीव, ईन्ट	आईसी-50483 भवीसेती श्री नागेश, ईएमई
आईसी-50444 दर्पण सूद, सिग्नल्स	आईसी-50484 नरेश कुमार यादव, एएससी
आईसी-50445 सुनील राणा, एएससी	आईसी-50485 दिग्विजय सिंह पटियाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-50446 हरबिन्द परमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-50486 श्रधानदिल धर पांडे, एडीए
आईसी-50447 सबीन्द्र विदी, इन्फैन्ट्री	आईसी-50487 संकट देव, आर्टी
आईसी-50448 यशपाल यादव, इन्फैन्ट्री	आईसी-50489 कुमार अभिषेक, इंजीनियर्स
आईसी-50449 प्रवीण शंकर त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री	आईसी-50490 जोन्नालागेद्दा वेंकटा भास्कर वेंकटेश्वर, ईएमई
आईसी-50450 शांतानू चौधरी, इन्फैन्ट्री	आईसी-50491 विनो बाजिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-50451 महेन्द्रा सिंह, आर्टी	आईसी-50492 नवराज सिंह ग्रेवाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-50452 धनन्जय पालसोकर, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-50494 अरुण हरिहरण, इंजीनियर्स
आईसी-50453 आसीम चौधरी, इंजीनियर्स	आईसी-50495 रवीन्द्रानाथ चौधरी, एडीए
आईसी-50454 अशोक यादव, एडीए	आईसी-50496 रमेन्द्रा कुमार बाजपेयी, ईएमई
आईसी-50456 विकास शर्मा, आर्टी	आईसी-50498 संजीव सूद, सिग्नल्स
आईसी-50457 चन्द्रा शेखर शर्मा, एएससी	आईसी-50500 मनजिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50458 सुमीत सुर, ईएमई	आईसी-50501 प्रदीप कुमार चौधरी, आर्टी
आईसी-50459 गजेन्द्र सिंह राठौर, एसी	आईसी-50502 अजय कुमार, एओसी
आईसी-50460 जसबीर सिंह बाथ, आर्टी	आईसी-50503 शांतनू ऋषि, इंजीनियर्स
आईसी-50461 हर्ष वर्धन दूबे, एओसी	आईसी-50505 सुशील कुमार सिंह, आर्टी
आईसी-50462 गगन दीप सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50506 सरबजीत सिंह ओबराय, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50464 के साधियम मूर्ति, एओसी	आईसी-50507 शिशुपाल सिंह पंवर, एएससी
आईसी-50466 नरेश कुमार, आर्टी	आईसी-50508 देबाशीष बोस, सिग्नल्स
आईसी-50467 विवेक नौटियाल, सिग्नल्स	आईसी-50509 अनुराग ज्योति, एसी
आईसी-50468 राजीव कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-50510 अखिलेश कुमार यादव, एसी
आईसी-50469 अनिल रमन, इन्फैन्ट्री	आईसी-50511 जोबी जोसफ, इन्फैन्ट्री
आईसी-50470 तालूम दूबी, इन्फैन्ट्री	आईसी-50512 अनिन्दया रॉय चौधरी, एओसी

आईसी-50513 प्रवीण शर्मा, आर्टी	आईसी-50551 सुभाष चन्द्रा प्रधान, आर्टी
आईसी-50514 विवेकजीत सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-50552 सीमान्त कालरा, ईएमई
आईसी-50515 महेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-50553 राकेश कुमार चहार, ईएमई
आईसी-50516 के आनन्द मेनन, आर्टी	आईसी-50554 गुरमीत सिंह, सिग्नल्स
आईसी-50517 इन्दर प्रीत सिंह नन्दा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50556 अजीत कुमार बौराह, आर्टी
आईसी-50518 दान्तकाले विवेक रमेश, इन्फैन्ट्री	आईसी-50557 के पी राजेन्द्रा कुमार, इंजीनियर्स
आईसी-50519 अर्जुन यादव, एसी	आईसी-50558 अनिल कुमार पोखिरयाल, इंजीनियर्स
आईसी-50520 राकेश चन्द जायसवाल, इन्ट	आईसी-50559 मनिंदर आहलूवालिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-50521 राय सिंह गोधारा, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-50561 राजीव शर्मा, एडीए
आईसी-50522 जेम्स बलराज कोरनिसीयस, इन्ट	आईसी-50562 राजन मदान, इन्फैन्ट्री
आईसी-50523 ज्ञानेन्द्रा सिंह तैवटिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-50563 जितेन्द्रा बेनिवाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-50524 नवीन थापा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50564 सोबन सिंह दानू, इन्फैन्ट्री
आईसी-50525 संदीप छिकारा, आर्टी	आईसी-50565 विनायक कोनदीराम यादव, इन्फैन्ट्री
आईसी-50526 प्रेम किशोर पी, एएससी	आईसी-50567 कनौजिया राजेश विपतम कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-50527 अजीत वर्गीस, इंजीनियर्स	आईसी-50568 विकास चौधरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-50528 राजेश मेहता, इन्फैन्ट्री	आईसी-50569 देवेन्द्रा कुमार मैथानी, इंजीनियर्स
आईसी-50529 विजू सुन्दरस, एडीए	आईसी-50570 अभिजीत राय, इन्फैन्ट्री
आईसी-50530 उमेश कुमार ओझा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50571 अमजद जुलफिकार, ईएमई
आईसी-50531 पीपूष मोहन, एडीए	आईसी-50572 अरुण गणेश राव पतहाडे, आर्टी
आईसी-50532 विजय कुमार तिवारी, सिग्नल्स	आईसी-50573 अनिल गोरस्ही, इन्फैन्ट्री
आईसी-50533 शेखरानन्द मिश्रा, सिग्नल्स	आईसी-50574 अरविन्द्र सिंह बिन्दरा, ईएमई
आईसी-50534 आदिल इमरान, एओसी	आईसी-50575 कदम मनीष शशीकान्त, इन्फैन्ट्री
आईसी-50535 कुलवन्त सिंह, एएससी	आईसी-50576 नीरज शर्मा, ईएमई
आईसी-50536 पातिक सक्सेना, आर्टी	आईसी-50579 पद्मीण बी, इंजीनियर्स
आईसी-50537 अरविन्द कुमार सिंह, ईएमई	आईसी-50580 दीपान्त टो जेफर्ड, एडीए
आईसी-50538 अनिरुद्ध सेन, ईएमई	आईसी-50581 आलोक कुमार सिंह, आर्टी
आईसी-50539 चन्द्रशेखर आजाद, आर्टी	आईसी-50582 संजय त्रिपाठी, सिग्नल्स
आईसी-50540 सुदीप राय, सिग्नल्स	आईसी-50583 चरण सिंह बालवान, इंजीनियर्स
आईसी-50543 दिनेश सहगल, एओसी	आईसी-50584 के श्रीनिवास, आर्टी
आईसी-50544 पुन्य नरानी, एसी	आईसी-50585 सतीश चारी, एसी
आईसी-50545 निरमाया मधवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-50586 एम पी अरविन्द, सिग्नल्स
आईसी-50546 पी पी रविन्दर नाथ, सिग्नल्स	आईसी-50588 कृतिजिन्दर सिंह आहलूवालिया, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50547 कृपाल सिंह, आर्टी	आईसी-50589 जोसफ एन्टोनी, ए एस सी
आईसी-50548 महाश्वर पुब्बा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50590 मनप्रोत सिंह चौधरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-50550 राजेश गजराज, इन्फैन्ट्री	आईसी-50591 अभिजीत चन्द्रा, इन्फैन्ट्री

- आईसी-50592 कमल किशोर सिंह, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50593 सुनीत दत्ता, ईन्ट  
आईसी-50595 ब्रह्मचन्द्र सिंह, इंजीनियर्स  
आईसी-50596 मूबे सिंह ठुकराणा, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50597 कुलविन्द्र सिंह कौशल, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50598 चन्दन कुमार, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50599 सुदर्शन सिंह, आर्टी  
आईसी-50600 संजीव श्रीवास्तव, सिग्नल्स  
आईसी-50601 मोहम्मद गफ्फर, ए सी  
आईसी-50602 जितेन्द्र सिंह विक्रम, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50603 शिव कुमार सदाशिवन, आर्टी  
आईसी-50605 अतपेश बेनिवाल, ए ओ सी  
आईसी-50606 राजीव दलेला, ई एम ई  
आईसी-50607 कमलजीत सिंह पबला, ए डी ए  
आईसी-50609 प्रसान्त कामथ, आर्टी  
आईसी-50610 अतुल कुमार, आर्टी  
आईसी-50611 प्रतीक हामल, ए सी  
आईसी-50612 रघुनाथ सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50613 सत्येन्द्र वर्मा, सिग्नल्स  
आईसी-50614 राकेश कुमार गौतम, ए एस सी  
आईसी-50615 जयसील कौशल, ई एम ई  
आईसी-50616 सुनीत शांक्ता, ए सी  
आईसी-50617 अनिल तेवतिया, आर्टी  
आईसी-50618 अरूप दास गुप्ता, ई एम ई  
आईसी-50619 विनाद दिवाकरण, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50622 मनीष शर्मा, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50623 सी के राजेश, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50624 अमरदीप सिंह, ए ओ सी  
आईसी-50625 शेख महबूब बाशा, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50626 नवजोत सिंह भाटी, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50627 अनूप दयौली, आर्टी  
आईसी-50628 आशीष गुप्ता, इंजीनियर्स  
आईसी-50629 संजीव बवेजा, सिग्नल्स  
आईसी-50630 नरेन्द्र पाल सिंह तूर, ए सी  
आईसी-50631 मनोज दत्त शर्मा, ए ओ सी  
आईसी-50632 गगन खन्ना, इंजीनियर्स  
आईसी-50634 संजीव कुमार मारवाहा, ई एम ई  
आईसी-50637 पराग सुरेश गुप्ते, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50638 सुजे घोष, इंजीनियर्स  
आईसी-50640 अमरदीप सिंह, इंजीनियर्स  
आईसी-50641 संगीत बुधवार, सिग्नल्स  
आईसी-50642 राजेश पंकज, ए डी ए  
आईसी-50643 प्रवीण कुमार भट्ट, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50645 रविन्दर सिंह दलाल, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50646 पवन कुमार, इंजीनियर्स  
आईसी-50647 संजय सहाय, ई एम ई  
आईसी-50648 अशोक कुमार, आर्टी  
आईसी-50649 सुभाष दर, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50650 दिनेश, टी एस सी  
आईसी-50651 अजय कुमार, ए ओ सी  
आईसी-50652 राजीव वर्मा, आर्टी  
आईसी-50653 जोशी पदमानभ शांतरन, ईन्ट  
आईसी-50655 नवदीप चौधरी, आर्टी  
आईसी-50657 राजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
आईसी-50658 राजेश कुमार बाली, ए एस सी  
आईसी-50659 अरुण कुमार नायक, ई एम ई  
आईसी-50660 प्रीतपाल सिंह, इंजीनियर्स  
आईसी-50661 कुलदीप सिंह, एम एफ  
आईसी-50662 रविन्दर सिंह, इंजीनियर्स  
आईसी-50663 नरेन्द्रा सीरोन, इंजीनियर्स  
आईसी-50665 विजय कुमार, ए ई सी  
आईसी-50666 संजय चावला, इंजीनियर्स  
आईसी-50667 गुरप्रीत सिंह, ए ई सी  
आईसी-50668 अनूप कुमार साहू, इंजीनियर्स  
आईसी-50669 मालाय शंकर पाल, ई एम ई  
आईसी-50670 राजकुमार मेनगी, इंजीनियर्स  
आईसी-50671 रातिश पी वी, इंजीनियर्स  
आईसी-50672 नाथ नितिन पीताम्बर, ए ई सी  
आईसी-50673 मानस रन्जन बिसवाल, ई एम ई  
आईसी-50674 संजय कुमार शुक्ला, इंजीनियर्स

आईसी-50675 पित्तलै मनोज कुमार अचुनदन, इंजीनियर्स	आईसी-50714 गौरव कौशल, इंजीनियर्स
आईसी-50676 अतुल टंडन, इंजीनियर्स	आईसी-50715 डी शैषासाई मूर्ति, इन्फैन्ट्री
आईसी-50677 संजय कुमार वैद्यया, ई एम ई	आईसी-50716 अनूपम श्रीमाली, इन्फैन्ट्री
आईसी-50678 घोड़के रवि शंकर विरानथ, इंजीनियर्स	आईसी-50717 हरतेजब सिंह बजाज, इंजीनियर्स
आईसी-50679 सुज्जन मोहन्ती, इंजीनियर्स	आईसी-50718 दलबीर सिंह, ए ओ सी
आईसी-50680 अनिल ठाका, ई एम ई	आईसी-50720 तजिन्दर पाल सिंह कोन्सल, इन्फैन्ट्री
आईसी-50682 आर पुत्तरजुनम, ए ई सी	आईसी-50721 ए वेलाथुराई, ई एम ई
आईसी-50683 एस कुमारानन्, इंजीनियर्स	आईसी-50722 अमरीश पंवार, सिग्नल्स
आईसी-50684 राहुल त्यागी, सिग्नल्स	आईसी-50723 मोहनीश सिंह, ई एम ई
आईसी-50685 रमेश शंभुगम जी, ई एम ई	आईसी-50725 अतुल भट्टरिया, आर्टी
आईसी-50686 राजीव चौहान, सिग्नल्स	आईसी-50727 शेर सिंह डागर, इन्फैन्ट्री
आईसी-50687 वी एम शिवादासन, ई एम ई	आईसी-50728 विजेन्द्र सिंह मलिक, ए वी एन
आईसी-50688 अजय सिंहस घोनकर, इंजीनियर्स	आईसी-50729 इरविन्द्र सिंह गिल, आर्टी
आईसी-50689 नवीन वर्मा, ए डी ए	आईसी-50730 मोहित सेठ, इन्फैन्ट्री
आईसी-50690 सुमीत कपटियाल, इंजीनियर्स	आईसी-50731 संदीप कुमार सिंह, सिग्नल्स
आईसी-50691 करण सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50732 गौरव गौतम, इन्फैन्ट्री
आईसी-50692 मुकुल गोस्वामी, ए सी	आईसी-50733 सुशील चन्दर, ए ओ सी
आईसी-50693 प्रेम प्रकाश राजपुरोहित, ए सी	आईसी-50734 जगवेन्द्र पुनिया, ए एस सी
आईसी-50694 दीपक सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री	आईसी-50735 अनिल कुमार वशिष्ठ, ए ओ सी
आईसी-50695 चनू जीत सिंह धनोअ, ए सी	आईसी-50736 शिवीन्दर धारीवाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-50698 सुभाशीष दास, सिग्नल्स	आईसी-50737 राम दयाल मिश्रा, सिग्नल्स
आईसी-50699 तरुणजीत सिंह ओरी, ए सी	आईसी-50738 यदुनाथ सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50700 मन राज सिंह मान, इन्फैन्ट्री	आईसी-50739 उपकार चन्दर, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50701 मनीष गुप्ता, सिग्नल्स	आईसी-50740 बी वेंकट, ई एम ई
आईसी-50702 पुनीत अहुजा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50741 धर्मेन्द्र कुमार, आर्टी
आईसी-50703 बलजिन्दर सिंह, ई एम ई	आईसी-50742 व्यदीश महाजन, ए डी ए
आईसी-50704 विवेक कोहर, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-50743 अश्विनी नय्यर, इन्फैन्ट्री
आईसी-50706 सुदीप विजय, आर्टी	आईसी-50744 संदीप एस शारदा, इन्फैन्ट्री
आईसी-50707 गौरव दत्ता, इन्फैन्ट्री	आईसी-50745 पी बीनूराज, आर्टी
आईसी-50708 मनोज कुमार, ए डी ए	आईसी-50746 रन्दीप सिंह राणा, ए ओ सी
आईसी-50709 निलेश भनोट, इन्फैन्ट्री	आईसी-50747 नरेन्द्र सिंह, ए एस सी
आईसी-50710 पुरी दीपक, सिग्नल्स	आईसी-50748 सुशांसु शर्मा, ए ओ सी
आईसी-50711 रबी कपूर, इन्फैन्ट्री	आईसी-50749 सचिन मलिक, इन्फैन्ट्री
आईसी-50712 अनिल कुमार बाली, ए एस सी	आईसी-50750 राजीव सिंह रावत, इन्फैन्ट्री
आईसी-50713 सुदीप कुमार जैनी, आर्टी	आईसी-50751 नरेश चन्द, आर्टी

आईसी-50752 अशोक कुमार, ए एस सी  
 आईसी-50753 संजय कुमार दूबे, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50754 सत्यानारिन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50755 नवराज हिल्लन, ए सी  
 आईसी-50756 अनिल जैन, आर्टी  
 आईसी-50757 अजय कुमार पाठक, इंजीनियर्स  
 आईसी-50758 अश्वनी कुमार मोहन्ती, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50759 जीवन डी जिन्दे, ए एस सी  
 आईसी-50760 रामानुज गोस्वामी, ए डी ए  
 आईसी-50761 पुनीत भोयल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50762 शोभित राम, ई एम ई  
 आईसी-50763 सुधीर भालिक, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50764 दीपक शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50765 गरीश कालिया, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50766 मनोज कुमार माथुर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50768 अकुरबा विसवास, ए ओ सी  
 आईसी-50769 परमिन्दर सिंह, ए सी  
 आईसी-50770 नरवरे मोहित अरविन्द, इंजीनियर्स  
 आईसी-50771 समीर करोल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50772 राजेश कुमार शिवरेन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50773 गुरचरण सिंह भुल्लर, ए एस सी  
 आईसी-50774 रवाराधा राजा पेरुमल, ईन्ट  
 आईसी-50775 जयंत कार, आर्टी  
 आईसी-50777 सुवेन्दु कुमार पटनायक, आर्टी  
 आईसी-50778 जोग निरंजन सुभाष, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50780 राज कुमार मनन, ई एम ई  
 आईसी-50781 राजेश सेठी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50782 सूर्य प्रकाश माहादेव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50783 सतीश कादवथ, ए डी ए  
 आईसी-50784 गुरप्रीत सिंह चीमा, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50785 अनिल जोग एलफरेड परैरा, सिग्नल्स  
 आईसी-50786 योगी शिवरेन, आर्टी  
 आईसी-50787 वानखेडे मंगेश बाबानगर, आर्टी  
 आईसी-50788 अमित पाल, आर्टी  
 आईसी-50789 पवन भारद्वाज, इन्फैन्ट्री

आईसी-50790 शांतनू कुमार दास, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50791 शिवा थमियामुथन, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50792 राजिन्द्र सिंह, आर्टी  
 आईसी-50793 आशीष दास, सिग्नल्स  
 आईसी-50794 अनूपम सिंह राणा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50795 सलिल शुक्ला, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50796 बलजीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50797 लक्ष्मी कान्त यादव, ए एस सी  
 आईसी-50798 भूपेश हान्दा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50799 जगजीत सिंह, इंजीनियर्स  
 आईसी-50800 अनिल यादव, आर्टी  
 आईसी-50801 अरविन्द कुमार सूद, सिग्नल्स  
 आईसी-50802 अमित चोपड़ा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50803 शिवदेव सिंह, इंजीनियर्स  
 आईसी-50804 अजय कुमार विश्वकर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50805 सन्दीप मदान, ए ओ सी  
 आईसी-50807 अजय दुग्गल, ए एस सी  
 आईसी-50809 जाररिश पाल जैकब, ई एम ई  
 आईसी-50810 हरमीत सेठी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50811 संजय सेठी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50812 विजय अहलावत, ए सी  
 आईसी-50813 कुमार रन्जम सिंह, ई एम ई  
 आईसी-50814 मदन मोहन ठाकुर, ए ओ सी  
 आईसी-50815 देवेन्द्रा सिंह, आर्टी  
 आईसी-50816 मुनेन्द्रा गुप्ता, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50818 हरदयाल सिंह चौहान, ए सी  
 आईसी-50819 अजय सुमन्त, इंजीनियर्स  
 आईसी-50820 सुमीत पुरी, ए सी  
 आईसी-50821 योहानन के एम, आर्टी  
 आईसी-50822 बी एस शिवयोगन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-50823 विजेन्द्र सिंह बनिवाल, आर्टी  
 आईसी-50824 आर के शर्मा, ई एम ई  
 आईसी-50826 योगेश ओरोत्तरा, सिग्नल्स  
 आईसी-50827 चोदिशफकी शिवा सूर्या प्रकाश, इंजीनियर्स  
 आईसी-50828 बैनर्जी चन्चल बिनोय, इंजीनियर्स

आईसी-50829 अरुण सी जी, इन्फैन्ट्री	आईसी-50867 संजोग नेगी, ए डी ए
आईसी-50831 सुधीर सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50868 जय राम कटियाल, ए एस सी
आईसी-50832 राजेश महाजन, ई एम ई	आईसी-50869 सी दयालन, इन्फैन्ट्री
आईसी-50833 सुनील सच्चन, आर्टी	आईसी-50870 जमबीर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50834 अरुण आहूजा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50871 नीरज श्योरेन, आर्टी
आईसी-50835 एस डी युवाराज, आर्टी	आईसी-50872 विनसैंट डी सूजा, इन्फैन्ट्री
आईसी-50836 नीरज शुक्ला, इन्फैन्ट्री	आईसी-50873 कमलजोत सिंह, ए एस सी
आईसी-50837 मनीष पान्डे, आर्टी	आईसी-50874 इन्दूकूरी कृष्णा, सिग्नल्स
आईसी-50838 निर्मल सिंह धालीवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-50875 बिजय सिंह, ई एम ई
आईसी-50839 रफीकयूल इस्लाम मौलिक, ए एस सी	आईसी-50876 आर के भारद्वाज, ई एम ई
आईसी-50840 कथन राज यादव, ए ओ सी	आईसी-50877 अरविन्द कुमार त्यागी, इन्फैन्ट्री
आईसी-50841 हरजीत सिंह धुमन, ए एस सी	आईसी-50878 नरेश अहमद रिबदी, आर्टी
आईसी-50842 अमर सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50879 कुलदीप सिंह, सिग्नल्स
आईसी-50843 मनोहर लाल, ए एस सी	आईसी-50880 अजोय मुखर्जी, इन्फैन्ट्री
आईसी-50844 कृष्ण मोहन राय, जैग	आईसी-50881 नवीन, इन्फैन्ट्री
आईसी-50845 राहुल मल्लिक, सिग्नल्स	आईसी-50882 पंकजासन कुप्पादाक्काथ, इंजीनियर्स
आईसी-50846 राजेश शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50883 अरुण कुमार भारद्वाज, इन्फैन्ट्री
आईसी-50847 ए श्रीधर, आर्टी	आईसी-50884 रवि शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-50848 मगुकूरी वेंकटा रतनाम, इन्फैन्ट्री	आईसी-50885 मुकेश शर्मा, इंजीनियर्स
आईसी-50849 प्रशांत चौहान, इन्फैन्ट्री	आईसी-50886 प्रशांत कुमार मिश्रा, ई एम ई
आईसी-50850 गौरव ऋषि, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-50888 त्रिलोक्या मोहन पटनायक, इन्फैन्ट्री
आईसी-50851 राम निवास, इन्फैन्ट्री	आईसी-50889 रोहित राजपाल, ए वी एन
आईसी-50852 दीपक सचदेव, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-50890 अमर पाल सिंह, आर्टी
आईसी-50853 यशवन्त सिंह, इन्ट	आईसी-50891 क्लीतुस एम ए, ए एस सी
आईसी-50854 दलीप गोवदा, आर्टी	आईसी-50892 विजय कुमार, इन्ट
आईसी-50855 संजय खन्ना, ए डी ए	आईसी-50893 जोसफ जाज, ए ओ सी
आईसी-50856 अनिल कुमार दीक्षित, इंजीनियर्स	आईसी-50894 उमाकांत शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-50857 आशुतोष पी अथाव, आर्टी	आईसी-50895 पीयूष खुराना, इन्फैन्ट्री
आईसी-50858 हरप्रीत सिंह, ई एम ई	आईसी-50896 अजेन्द्र मुकुल, ई एम ई
आईसी-50860 अमन कुमार बवेजा, ए ओ सी	आईसी-50897 अनिल कुथियाल, इंजीनियर्स
आईसी-50861 सैयद नियामतहुल्ला, सिग्नल्स	आईसी-50898 अवतार सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50863 जूबिन श्री मैथ्यू, इन्फैन्ट्री	आईसी-50900 दीपक यादव, ई एम ई
आईसी-50864 सरवेश शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50901 अजय कुमार रजक, आर्टी
आईसी-50865 अमित कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50902 हरपाल सिंह हीर, आर्टी
आईसी-50866 फिनु थामस फिलिप, इंजीनियर्स	आईसी-50903 राजेश कुमार साहू, इन्फैन्ट्री



आईसी-50904 विक्रान्त सरदाना, सिग्नल्स	आईसी-50942 सुरेश कुमार मिश्रा, ई एम ई
आईसी-50905 के रन्जीव सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50943 राजेन्द्रा यादव, इन्फैन्ट्री
आईसी-50906 सुभाष चन्द्रा पान्डे, ए ओ सी	आईसी-50944 रणबीर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50907 राकेश थपलियाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-50945 जयंत कुमार बरूआ, इन्फैन्ट्री
आईसी-50908 जगविन्द्र पाल सिंह चीमा, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-50946 सन्जीव कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-50909 श्रीकान्त मेनन, आर्टी	आईसी-50948 गौतम रोय, इन्फैन्ट्री
आईसी-50911 राजीव बन्सल, ए सी	आईसी-50949 विमल मेहता, ए ओ सी
आईसी-50912 बी रामेश राव, ए डी ए	आईसी-50950 जसबीर सिंह कबेरवाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-50913 रमेश कुमार सांगवान, ए एस सी	आईसी-50952 भीम पाल सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50914 मनीष शरण, सिग्नल्स	आईसी-50953 अनूपम झांजी, सिग्नल्स
आईसी-50915 नवीन कुमार यादव, इन्फैन्ट्री	आईसी-50954 विशाल माथुर, आर्टी
आईसी-50916 पृथ्वीराज सिंह बिष्ट, इन्ट	आईसी-50955 भास्कर ज्योति हजारीका, आर्टी
आईसी-50917 महेश कुमार चौहान, ए एस सी	आईसी-50956 अजय मलिक, इन्फैन्ट्री
आईसी-50918 अशोक कुमार, ए एस सी	आईसी-50957 जयदीप गोस्वामी, इन्फैन्ट्री
आईसी-50920 राजेश रन्जन, ई एम ई	आईसी-50958 कोविद कृष्णा भारद्वाज, ए डी ए
आईसी-50922 वीरेन्द्र सिंह चौधरी, इंजीनियर्स	आईसी-50959 मनोज गुप्ता, आर्टी
आईसी-50923 राधाकृष्णन वी पी, आर्टी	आईसी-50960 नवीन बन्सल, आर्टी
आईसी-50924 जसीन्दर सिंह सोढी, इंजीनियर्स	आईसी-50961 अमित कबधियाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-50925 आशीष सत्यानन्द मसीह, एसी	आईसी-50962 संजीव कुमार, इंजीनियर्स
आईसी-50926 भूपिन्द्र सिंह धुमन, ए ओ सी	आईसी-50963 अतुल प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50927 हरदीप सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50964 भानु प्रताप सिंह कुशवाहा, एओसी
आईसी-50928 एस पोल राज, आर्टी	आईसी-50965 विमल कुमार पान्डे, इंजीनियर्स
आईसी-50929 सन्तोष कुमार, आर्टी	आईसी-50966 रमेश चन्द्र शुक्ला, सिग्नल्स
आईसी-50930 शाह रोहित वी, ए डी ए	आईसी-50967 जंगबीर सिंह, आर्टी
आईसी-50931 बनिन्दर सिंह सिद्ध, ए डी ए	आईसी-50968 जी श्रीकुमार, इन्ट
आईसी-50932 अनुराग देवगन, इन्फैन्ट्री	आईसी-50970 शरद दूरेहा, इन्फैन्ट्री
आईसी-50933 टी सुरेश, सिग्नल्स	आईसी-50971 रूपम अस्थाना, ईएमई
आईसी-50934 अतुल कथुरिया, सिग्नल्स	आईसी-50972 रमन कुमार शर्मा, इंजीनियर्स
आईसी-50935 दिनेश प्रताप सिंह बिसेहन, इन्फैन्ट्री	आईसी-50973 समीर चौधरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-50936 प्रवाल पीटर, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-50974 नवनीत श्रीवास्तवा, इन्फैन्ट्री
आईसी-50937 टी एच जोतिन्दरा सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50975 राम निवास, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50938 अमित रस्तोगी, सिग्नल्स	आईसी-50976 दिनेश ढींगरा, एएससी
आईसी-50939 सन्त राम, इंजीनियर्स	आईसी-50977 जोशी मनीष विजय, इन्फैन्ट्री
आईसी-50940 सुभाष सिन्हा, आर्टी	आईसी-50980 प्रवीण माथुर, ईएमई
आईसी-50941 तन्वीराला श्रीनिवास, ए वी एन	आईसी-50981 जे फ्लोबरसन, इन्फैन्ट्री

आईसी-50982 राजवन्त चटर्जी, इन्फैन्ट्री	आईसी-51021 संदीप शर्मा, इंजीनियर्स
आईसी-50983 दीपक कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-51022 राजीवी श्रीवास्तव, सिग्नल्स
आईसी-50984 पुनी चन्द कौशल, आर्टी	आईसी-51023 तीर्थ सारथी सरकार, इन्फैन्ट्री
आईसी-50985 मनजीत सिंह चीमा, सिग्नल्स	आईसी-51024 विनय बाली, एओसी
आईसी-50986 संजीव कुमार, इंजीनियर्स	आईसी-51028 तेजपाल सिंह, सिग्नल्स
आईसी-50987 दीपक कुमार, आर्टी	आईसी-51029 हितेश सेठी, आर्टी
आईसी-50988 तेज पाल सिंह गुलिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-51030 रोहित गुप्ता, आर्टी
आईसी-50989 संजीव कुमार, एओसी	आईसी-51031 विक्रम शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-50990 राजीव कुमार सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-51032 सतीश शर्मा, ईएमई
आईसी-50991 ओम प्रकाश पान्डे, इन्फैन्ट्री	आईसी-51035 अशोक के कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-50993 जयन्त विनायक वान्नेरे, इंजीनियर्स	आईसी-51036 सुनील कुमार सौल, इन्फैन्ट्री
आईसी-50994 निशित कुमार दत्ता, सिग्नल्स	आईसी-51037 नरेन्द्र सिंह राठौर, एसी
आईसी-50995 पालकावीदू वेंकटेश्वरा राव, एएससी	आईसी-51038 नीलकण्ठ बी दिनकर करमाकर, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50996 बबलू भान यादव, इन्फैन्ट्री	आईसी-51039 धीरज वाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-50997 प्रभु नाथ गिरि, ईएमई	आईसी-51040 बलबीर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50998 रजनीश नंदन सिन्हा, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-51041 नागेश पी पातानकार, इंजीनियर्स
आईसी-50999 भूपिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-51042 आर वेंकटेश, इन्फैन्ट्री
आईसी-51000 देशराज गारगे, इन्फैन्ट्री	आईसी-51043 हर्ष वर्धन, ईन्ट
आईसी-51001 पार्थ सारथी रॉय, ईन्ट	आईसी-51044 सुरेन्द्र पाल, ईएमई
आईसी-51002 राजेश यादव, एएससी	आईसी-51046 रविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-51003 सी किरण कुमार रेड्डी, एएससी	आईसी-51047 कार्तिकेय सिंह, सिग्नल्स
आईसी-51005 प्रमोद कुमार, ईएमई	आईसी-51048 ओइनाम सुनील चन्द्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-51006 दिगोर्जिजाई खारोइल पातरा, आर्टी	आईसी-51049 राजीव कुन्डू, एडीए
आईसी-51007 अरि दमन शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-51050 संजय खनदारिया, ईएमई
आईसी-51008 अचिन्त्या कुमार नन्दी, इन्फैन्ट्री	आईसी-51051 राम करन, एसी
आईसी-51009 राहुल सिन्हा, एसी	आईसी-51052 उपेन्द्र पाण्डे, एसी
आईसी-51010 रविन्दा सिंह राठौर, एसी	आईसी-51054 रवि बिष्ट, ईन्ट
आईसी-51011 रजत कुमार, आर्टी	आईसी-51055 अनिल उपाध्याय, इन्फैन्ट्री
आईसी-51012 दिनेश प्रताप सिंह, ईएमई	आईसी-51056 विवेक सरपाल, आर्टी
आईसी-51014 मनीष आर राय, एसी	आईसी-51057 जाधव विक्रम लखुजिराव, आर्टी
आईसी-51015 हरप्रीत सिंह जायसवाल, आर्टी	आईसी-51058 अलोक सिन्हा, आर्टी
आईसी-51016 शैलेश कुमार, एडीए	आईसी-51060 खासनिस रवि अरुण, इन्फैन्ट्री
आईसी-51017 प्रेम कुमार बूरा, इन्फैन्ट्री	आईसी-51061 बसन्त कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-51019 संजीव राणा, एओसी	आईसी-51062 गुरपाल सिंह धौना, इन्फैन्ट्री
आईसी-51020 नायक कृष्णाराज गोविन्दन कुट्टी, आर्टी	आईसी-51064 दिनेश चन्द्र सिंह मायाल, ईन्ट

आईसी-51065 अनिल कुमार यादव, आर्टी	आईसी-51107 तिवारी धीरेन्द्र शंकर दयाली, इंजीनियर्स
आईसी-51066 दानवीर सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-51108 रवि कपिल, ईएमई
आईसी-51067 कृष्ण कुमार सिंह कोइराह, इन्फैन्ट्री	आईसी-51109 अजय मलिक, आईसी
आईसी-51069 हेमन्त कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-51110 पाताली कृष्णा प्रसाद, ईएमई
आईसी-51070 राकेश कुमार श्रीवास्तव, एओसी	आईसी-51112 बालाचन्द्रन जी, इंजीनियर्स
आईसी-51071 जयन्त कुमार घोष, एएससी	आईसी-51113 प्रेम लाल टी डी, आईसी
आईसी-51072 अभिजीत सरकार, इंजीनियर्स	आईसी-46570 राजीव खतरी, एसी
आईसी-51073 राजीव कुमार धवन, सिग्नल्स	आईसी-46571 राहुल दुग्गल, इन्फैन्ट्री
आईसी-51074 मुकुल आर कुलकर्णी, इन्फैन्ट्री	आईसी-46572 प्राणदीप सिंह ग्रेवाल, एसी
आईसी-51075 राजेश ठाकुर, इन्फैन्ट्री	आईसी-46573 युद्धवीर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-51078 अजय ठाकुर, इंजीनियर्स	आईसी-46574 एस पी यादव, इंजीनियर्स
आईसी-51079 रानाडे शैलेश हेमकन्त, सिग्नल्स	आईसी-46575 शिव अवतार शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-51081 इन्दर सिंह राठौर, ईएमई	आईसी-46576 पृथ्वीराज सिंह शेखावत, सिग्नल्स
आईसी-51082 चन्द्रराना निलेश मेहन्दाभाई, इंजीनियर्स	आईसी-46577 दलजीत सिंह ओबराय, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-51083 सवजीत सिंह सोईन, सिग्नल्स	आईसी-46578 हरबिन्दर सिंह गिल, इन्फैन्ट्री
आईसी-51084 प्रताप कुमार मोहन्ती, इंजीनियर्स	आईसी-46579 संजीव जरीयाल, आर्टी
आईसी-51085 एच जयापाल, ईएमई	आईसी-46581 आर अरमुगम, ईएमई
आईसी-51086 पंकज मित्तल, इंजीनियर्स	आईसी-46582 अरुण नयागम, एओसी
आईसी-51087 मनजिन्दर सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-46583 संजीव डोगरा, एएससी
आईसी-51088 विनीत त्यागी, सिग्नल्स	आईसी-46584 लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, ई एम ई
आईसी-51089 सन्दीप चौधरी, ईएमई	आईसी-46585 तरुण विज, एडीए
आईसी-51090 संजय सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-46586 मनोज वी यू, इन्फैन्ट्री
आईसी-51091 जसकरण सिंह बजाज, इंजीनियर्स	आईसी-46587 रमेश चन्द्रा, सिग्नल्स
आईसी-51092 अदहीर माथुर, इंजीनियर्स	आईसी-46588 हिरदेश कुमार चौधरी, एएससी
आईसी-51093 निर्मल कुमार बैराठी, इंजीनियर्स	आईसी-46590 अजय धवन, सिग्नल्स
आईसी-51094 सन्दीप सिंह बाजवा, ईएमई	आईसी-46591 राजेन्द्र कुमार रामराव जाधव, सिग्नल्स
आईसी-51095 अजय कुमार शर्मा, एएससी	आईसी-46592 केयूर वैष्णव, एएससी
आईसी-51096 मनदिगा विद्यासागर, इंजीनियर्स	आईसी-46593 शमशेर सिंह सिहाग, इन्फैन्ट्री
आईसी-51097 अरविन्द डी, ईएमई	आईसी-46594 रजयकांत दीक्षित, इन्फैन्ट्री
आईसी-51098 चौदी प्रताप सिंह, ईएमई	आईसी-46595 सुरेन्द्र सिंह चहल, ईट
आईसी-51099 नरेन्द्र पाल अरोरा, इंजीनियर्स	आईसी-46597 विकास डिमरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-51100 गुरचरण सिंह, ईएमई	आईसी-46598 संजीव कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-51102 इरशाद ए खान, ईएमई	आईसी-46599 सुरेश कुमार अग्निहोत्री, इन्फैन्ट्री
आईसी-51105 कशुकुरेथी सुधाकर, इंजीनियर्स	आईसी-46601 एस सिंह, एओसी
आईसी-51106 रविन्दर सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-46602 घनश्याम सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-46603 परवीर डोन्जेयाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46604 भलेन्दर सिंह बरार, एओसी  
 आईसी-46605 पार्थासारथी घोष दस्तीदार, एएससी  
 आईसी-46606 त्रिपेन्द्र कुमार शर्मा, एएससी  
 आईसी-46607 सुधीर गोविल, एएससी  
 आईसी-46608 अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46609 सुन्दरेशन रंगानाथन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46610 जसवीर सिंह बिक, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46611 गुरबिन्दरपाल सिंह साहनी, ईएमई  
 आईसी-46612 वी एस गणेश कुमार, आर्टी  
 आईसी-46613 अनिल कुमार वर्मा, एएससी  
 आईसी-46614 अनिल डिल्लों, ईएमई  
 आईसी-46615 संजीव रस्तोगी, एएससी  
 आईसी-46616 धीरेन्द्र नाथ राय, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46617 रंजीत सिंह डिल्लों, ईएमई  
 आईसी-46618 जतीन्द्र वालिया, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46619 राहुल श्रीवास्तव, आर्टी  
 आईसी-46621 स्टीफन के जे, एएससी  
 आईसी-46622 मेहताब सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46623 एस श्रीनिवासन बालाजी, एओसी  
 आईसी-46624 मंजीत सिंह मोरवा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46625 सुरेश शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46627 रोहित जोहर, एसी  
 आईसी-46628 प्रदीप कुमार चौहान, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46629 परमजीत आर्या, एएससी  
 आईसी-46630 राजीव भुंयू, एएससी  
 आईसी-46631 अभिनंदन, आर्टी  
 आईसी-46632 भूपिन्द्र सिंह ग्रेवाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46634 जयेन्द्र सिंह रावत, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46635 शील जोशी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46637 अजय सिंह, एएससी  
 आईसी-46638 टी श्रीनिवासा राव, ईएमई  
 आईसी-46639 सज्जय कुमार खत्री, सिग्नल्स  
 आईसी-46640 दीपक बगई, सिग्नल्स  
 आईसी-46641 सुरोजीत सिन्हा, ईएमई

आईसी-46642 टी के राजेश, ईएमई  
 आईसी-46643 सुधीर सिंह रावत, एएससी  
 आईसी-46644 डेविड मोहंती, एओसी  
 आईसी-46645 एस के दूबे, ईएमई  
 आईसी-46646 राजीव रंजन वर्मा, ईएमई  
 आईसी-46647 अभिजीत मुखर्जी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46648 पार्थासारथी बासु, सिग्नल्स  
 आईसी-46650 एस गोपीनाथ, ईएमई  
 आईसी-46651 एच एस धालीवाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46652 ऋषि देव, सिग्नल्स  
 आईसी-46653 रजनीश सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46654 राजगोपाल, सिग्नल्स  
 आईसी-46655 अमन मेहता, एएससी  
 आईसी-46656 तरुण आकाश मोहल्ला, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46657 ब्रिजेन्द्र कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46658 प्रवीन कुमार, इंजीनियर्स  
 आईसी-46659 परेश कुमार, एओसी  
 आईसी-46660 ग्रेआल्ड विकटर, एएससी  
 आईसी-46661 के आर सतीश कुमार, एएससी  
 आईसी-46662 तजीन्द्र सिंह भगताना, इंजीनियर्स  
 आईसी-46663 संदीप कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46665 राजेश टंडन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46666 राजेश कुमार, सिग्नल्स  
 आईसी-46668 युधिष्ठिर मोजा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46669 जितेन्द्र शर्मा, एसी  
 आईसी-46670 दिनेश कुमार यादव, आर्टी  
 आईसी-46671 संजय घोष, एडीए  
 आईसी-46672 वीरेन्द्र सिंह परमार, इंजीनियर्स  
 आईसी-46677 नरेन्द्र सिंह शक्तावत, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46678 नरेन्द्र कुमार तेवतिया, एसी  
 आईसी-46679 भानु प्रताप सिंह, एसी  
 आईसी-46680 गौरव भाटिया, एसी  
 आईसी-46681 अनूप सिंह गिल, आर्टी  
 आईसी-46683 सबयागची कोले, एडीए  
 आईसी-46685 सी खासी, इन्फैन्ट्री

आईसी-46686 रतिश अग्रवाल, एएससी  
 आईसी-46687 संजय कुमार सिंग, ईएमई  
 आईसी-46688 भूपेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46689 विक्रम सिंह थापा, आर्टी  
 आईसी-46691 संजीव शिनोय, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46693 अतुल बाली, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46694 राज सिंह बिश्नोई, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46695 आर के निखिल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46696 भरत जोशी, एसी  
 आईसी-46697 जहल तंत्रा, एएससी  
 आईसी-46698 वी गनपती, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46699 राजेन्द्र कुमार शर्मा, आर्टी  
 आईसी-46700 एस सोंध, सिग्नल्स  
 आईसी-46701 वी हरीहरन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46702 संजय राजैन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46704 गोतम सेगन, आर्टी  
 आईसी-46705 उदय कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46706 अचलेश शंकर, आर्टी  
 आईसी-46707 हितेन्द्र कुमार, ईएमई  
 आईसी-46708 भूपेन्द्र रेखी, एडीए  
 आईसी-46709 अमित शर्मा, आर्टी  
 आईसी-46710 शरत कुमार झा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46711 रविन्द्र सिंह, एएससी  
 आईसी-46712 परमिन्दर सिंह, आर्टी  
 आईसी-46713 आर सोनी, एडीए  
 आईसी-46714 अजय कुमार झा, एएससी  
 आईसी-46715 विनय जिबु, एओसी  
 आईसी-46717 सुमित दुग्गल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46718 मनोज कौशिक, जैग  
 आईसी-46719 ललित यादव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46720 प्रदीप सांगवान, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46721 अमन पाल सिंह, ईएमई  
 आईसी-46722 बस्वराज गुर्जैगई, एएससी  
 आईसी-46723 हरबीर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46724 राओजन कुमार लाम्बा, इन्फैन्ट्री

आईसी-46725 के आर सिवारमन, एएससी  
 आईसी-46726 जी श्रीनिवास, आर्टी  
 आईसी-46727 वरधीस अब्राहम, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46728 श्री कुमार, इंट  
 आईसी-46729 हिम्मत सिंह औलख, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46731 विवेक जसवाल, आर्टी  
 आईसी-46732 नीरज मुंशी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46733 बी राजसकर, आर्टी  
 आईसी-46735 धीरेन्द्र कुमार सिंह, एएससी  
 आईसी-46737 रामसे पाल सबू, एडीए  
 आईसी-46738 रमींदर सिंह वरीच, एएससी  
 आईसी-46739 नीरज गौड़, एओसी  
 आईसी-46740 रोमेन्द्र नाथ स्कोट, एओसी  
 आईसी-46741 हरकीरत सिंह ढिल्लॉन, आर्टी  
 आईसी-46742 आनंद सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46743 लहदेन भूटीया, इंट  
 आईसी-46744 विनोद गुप्ता, आर्टी  
 आईसी-46745 संदीप त्यागी, एडीए  
 आईसी-46746 एस एस संधू, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46747 राम कुमार सेन, ए ओ सी  
 आईसी-46748 सचिन त्यागी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46749 बीरेन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46750 अनील साहनी, ए ओ सी  
 आईसी-46751 राजा दत्ता, आर्टी  
 आईसी-46752 किशोर सिंह, ए एस सी  
 आईसी-46753 अनूप कुमार, इंट  
 आईसी-46755 मर्नमिन्दर निजहर, आर्टी  
 आईसी-46756 संदीप त्रीपाठी, ए डी ए  
 आईसी-46758 कवर दिग्विजय सिंह, ए सी  
 आईसी-46759 अजीत वी सी, आर्टी  
 आईसी-46760 जगदीप सिंह, आर्टी  
 आईसी-46761 दीपक शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46762 एच पी सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46763 पुरषोत्तम सिंह भिन्डर, ए एस सी  
 आईसी-46764 अमन यादव, आर्टी

आईसी-46765 प्रताप सिंह राठोर, ए एस सी	आईसी-46805 मनीश कुमार शर्मा, आर्टी
आईसी-46767 विक्रम सूद, ई एम ई	आईसी-46806 पंकज शर्मा, आर्टी
आईसी-46768 समरेना प्रताप, इन्फैन्ट्री	आईसी-46807 सिद्धार्थ तोमर, ए ओ सी
आईसी-46769 अजीत अशोक देशपांडे, ए ओ सी	आईसी-46808 अजय एस कटीयार, आर्टी
आईसी-46770 नवदीप सिंह मुल्तानी, आर्टी	आईसी-46809 शशांक रंजन, इन्फैन्ट्री
आईसी-46771 कौर्त्तीमान गोतम मोहंती, इन्फैन्ट्री	आईसी-46810 दीनीस दिआज, आर्टी
आईसी-46772 मधु के, इन्फैन्ट्री	आईसी-46811 विनोद सिंग राना, ए ओ सी
आईसी-46773 मनोज जी, आर्टी	आईसी-46813 आलोक शंकर, ए एस सी
आईसी-46774 मनीश प्रसाद, आर्टी	आईसी-46814 दिनेश शर्मा, आर्टी
आईसी-46775 दत्तजीत सिंह चान्ना, ए एस सी	आईसी-46815 सुबीर चन्द छिब्वर, ए सी
आईसी-46776 संजय मनी प्रधान, इन्फैन्ट्री	आईसी-46818 शरद निगम, ई एम ई
आईसी-46777 हनुदास अमरेन्द्र अरविंद, आर्टी	आईसी-46819 गुरविंदर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-46778 एस रवीन्द्रन, ए एस सी	आईसी-46820 इन्दरजीत सिंह, सिग्नल्स
आईसी-46779 शामसूल सिद्दिक, आर्टी	आईसी-46821 राज कुमार कपील, आर्टी
आईसी-46780 पंकज प्रीत सिंह, आर्टी	आईसी-46823 दियोतले दुश्यंत मानिक, ए एस सी
आईसी-46781 प्रिओजीत रे, ए एस सी	आईसी-46825 साकेत सक्सेना, इन्फैन्ट्री
आईसी-46782 मनी पांडे ई एम ई	आईसी-46826 नरेश, ए एस सी
आईसी-46783 मोहीन्द्र प्रताप सिंह, आर्टी	आईसी-46827 तपस राजन बेरा, ए ओ सी
आईसी-46784 सुधीर गुप्ता, ए एस सी	आईसी-46828 सौरभ मिश्रा, ए एस सी
आईसी-46785 संजय धल, आर्टी	आईसी-46829 बैनर्जी संजय गौर, इंजीनियर्स
आईसी-46786 रघुवेन्द्र प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-46830 भास्कर चन्द्र पांडे, ई एम ई
आईसी-46787 मोहम्मद सलीम गदेद, ए डी ए	आईसी-46832 अमर रामदासनी, इन्फैन्ट्री
आईसी-46790 डी एन शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-46833 कामत राजीव सुरेश, आर्टी
आईसी-46791 कर्णवीर सिंह धेसी, आर्टी	आईसी-46834 वी श्री निवास, ए सी
आईसी-46792 संदीप विनायक, ए ओ सी	आईसी-46835 राम साईनी, इन्फैन्ट्री
आईसी-46793 आशीम राय, इन्फैन्ट्री	आईसी-46836 अनुप महाजन मैक, इन्फैन्ट्री
आईसी-46794 रवि राज तिमोथी, इन्फैन्ट्री	आईसी-46837 जहीरूल इस्लाम रोशीद, ईट
आईसी-46795 जगदीप सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-46839 अजय शर्मा, आर्टी
आईसी-46796 आशीश भटनागर, ए ओ सी	आईसी-46840 हितीश चन्द्र भटनागर, जैग
आईसी-46797 अरूण पुषकरना, ए एस सी	आईसी-46842 अमीत भार्गवा, ए डी ए
आईसी-46798 राजेन्द्र कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-46843 तुहीन कुमार पाल, आर्टी
आईसी-46799 रसनील सिंग चहल, इन्फैन्ट्री	आईसी-46844 राजेन्द्र कुमार गुप्ता, आर्टी
आईसी-46800 सुनील यादव, आर्टी	आईसी-46845 रविन्द्र सिंह मेहता, आर्टी
आईसी-46801 लव मोहन जोशी, इन्फैन्ट्री	आईसी-49417 प्रवीन छबडा, ए सी
आईसी-46803 उमंग निगम, ए एस सी	आईसी-49418 संजीव सिंह सलारिया, ए सी

आईसी-49419 सुशील प्रधान, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-49462 विजय कुमार, आर्टी
आईसी-49420 विकास सामयाल, ई एम ई	आईसी-49463 दीप बहादुर राना, इन्फैन्ट्री
आईसी-49421 मोहित बधवा, ए सी	आईसी-49466 मुनीश गुप्ता, एएससी
आईसी-49422 सूर्य भानु राय, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-49467 अमीत ढींगरा, इंजीनियर्स
आईसी-49423 मोहम्मद खालिद जाकी, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-49468 संजीव तुशीर, इन्फैन्ट्री
आईसी-49424 दिव्य गौरव मिश्रा, ए सी	आईसी-49469 प्रशांत श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
आईसी-49426 आशीश शाह, ए सी	आईसी-49470 अजय शर्मा, सिग्नल्स
आईसी-49427 मनोज कुमार केशवर, इंजीनियर्स	आईसी-49471 मनीश कुमार, एडीए
आईसी-49428 मनीश अरोडा, एडीए	आईसी-49472 सतीश धईया, इन्फैन्ट्री
आईसी-49429 निलेश दहिया, सिग्नल्स	आईसी-49473 राजन शरावत, इन्फैन्ट्री
आईसी-49430 दिनेश कुमार सिंग, इन्फैन्ट्री	आईसी-49474 राकेश कुमार चौधरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-49431 राजीव रत्तन कोटवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-49475 नीरज कुमार सोनी, इन्फैन्ट्री
आईसी-49432 नितिन कुमार सिंग, आर्टी	आईसी-49476 अनुराग विज, आर्टी
आईसी-49433 ज्वावंत शिवाजी पाटील, आर्टी	आईसी-49478 आशीश रमेश सरसीकर, एएससी
आईसी-49435 किशन सिंह मेहरा, इन्फैन्ट्री	आईसी-49479 हरविंदर सिंह बन्दरा, सिग्नल्स
आईसी-49436 राहुल तिवारी, इंजीनियर्स	आईसी-49480 रोहित चौधरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-49437 अजय चांद पुरीया, इन्फैन्ट्री	आईसी-49482 विवेक त्यागी, इन्फैन्ट्री
आईसी-49438 गोपाल मोहन अतारी, एओसी	आईसी-49483 दीप भगत, इन्फैन्ट्री
आईसी-49439 कमल धवन, ईएमई	आईसी-49484 भारत भूषण, ईएमई
आईसी-49440 विजय यशवत चन्द्रचूड़, एबीएन	आईसी-49487 जसदीप सिंह, ईएमई
आईसी-49441 अजय तिवारी, एएससी	आईसी-49488 राजीव शर्मा, एसी
आईसी-49443 विशाल शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-49490 हरमीत सिंह सिद्धू, इंजीनियर्स
आईसी-49444 विजय सिंह, एओसी	आईसी-49491 चन्द्रशेखर, एओसी
आईसी-49446 हरी कृपाल सिंह बाय, आर्टी	आईसी-49492 रवि राधाकृष्णन, इन्फैन्ट्री
आईसी-49448 विजय किशोर प्रशाद शर्मा, आर्टी	आईसी-49493 जसपाल सिंह, आर्टी
आईसी-49449 इन्द्रजीत सिंह पंजरथ, एडीए	आईसी-49495 राजवीर सिंह, एएससी
आईसी-49450 संजीव कुमार दूबे, इंजीनियर्स	आईसी-49496 प्रीत पाल सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-49451 दीपांकर साहा, इन्फैन्ट्री	आईसी-49497 शेख फहीमुद्दीन मोहियुद्दीन, इन्फैन्ट्री
आईसी-49452 निर्भय कुमार, एएससी	आईसी-49498 बिमल मोंगा, आर्टी
आईसी-49453 धर्मवीर बलबीर सिंह कुश्वाहा, एओसी	आईसी-49499 जय सिंह बंसला, इन्फैन्ट्री
आईसी-49454 अनील गुप्ता, ईएमई	आईसी-49500 अभीजीत स पैनधारकर, इन्फैन्ट्री
आईसी-49458 सिद्धार्थ चावला, आर्टी	आईसी-49501 पंकज साहनी, आर्टी
आईसी-49459 संजीव रंजन शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-49502 जसदीप सिंह बिंदरा, एएससी
आईसी-49460 विक्रम देशपांडे, इंजीनियर्स	आईसी-49503 वी शन्मुगवेलन, इन्फैन्ट्री
आईसी-49461 शमशेर सिंह विजराणीया, एडीए	आईसी-49504 सिद्धार्थ शंकरनाथ, इन्फैन्ट्री

आईसी-49505 पवित्र मोहन बाली, इन्फैन्ट्री	आईसी-49545 मनप्रीत सिंह बैस, इन्फैन्ट्री
आईसी-49507 सुधीशु सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-49546 संदीप यादव, इंजीनियर्स
आईसी-49508 मोहन विश्वनाथ भलसिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-49547 बी बी राजा, सिग्नल्स
आईसी-49509 लतीफ अहमद, एओसी	आईसी-49548 मंदीप सुखांडा, एसी
आईसी-49510 हितेश भल्ला, इन्फैन्ट्री	आईसी-49549 उमेश चन्द्र सिंह, आर्टी
आईसी-49511 अमिताभ राय, इन्फैन्ट्री	आईसी-49551 विनित मिश्र, इन्फैन्ट्री
आईसी-49512 अजुन मित्रा, आर्टी	आईसी-49552 सतीश विश्वनाथन, एएससी
आईसी-49513 जयप्रकाश यादव, इन्फैन्ट्री	आईसी-49553 एस रामालिंगम, आर्टी
आईसी-49514 अजय कुमार अरोड़ा, सिग्नल्स	आईसी-49555 शरद रस्तोगी, एसी
आईसी-49516 राजेन्द्र कुमार स्वैन, एएससी	आईसी-49556 नलीन मोहन, एएससी
आईसी-49518 दीपक छिब्रर, इंजीनियर्स	आईसी-49557 सी एस थिगागराज, इन्ट
आईसी-49519 पंकज कुमार पांडे, आर्टी	आईसी-49558 शमशेर सिंह विर्क, इन्फैन्ट्री
आईसी-49520 जे अनंदन, एसी	आईसी-49559 अमित माथुर, इन्फैन्ट्री
आईसी-49521 सुरेन्द्र कुमार जामवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-49560 विवेक गुप्ता, ईएमई
आईसी-49522 अरुण कांत ऋषि, एडीए	आईसी-49561 विकास वर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-49523 मनीश अवस्थी, इन्फैन्ट्री	आईसी-49562 विवेक पाठक, सिग्नल्स
आईसी-49524 सुगंध शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-49563 विक्रम तानाजी चव्वाण, आर्टी
आईसी-49525 राजेश श्रीवास्तव, आर्टी	आईसी-49564 सैकत राय, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-49527 योगेश कौरा, सिग्नल्स	आईसी-49565 विशाल भूटानी, आर्टी
आईसी-49528 यशपाल सिंह नेगी, एओसी	आईसी-49566 विक्रान्त माधव धूमने, आर्टी
आईसी-49529 तर्जुन सिंह दलाल, एएससी	आईसी-49567 सुन्दीप कालरा, आर्टी
आईसी-49530 सुदीपतो राय, इंजीनियर्स	आईसी-49568 दीप नारायण बागची, आर्टी
आईसी-49531 सूरज प्रकाश महाजन, ईएमई	आईसी-49569 यशपाल सिंह, एएससी
आईसी-49533 मस्तान सिंह, आर्टी	आईसी-49571 राहुल पुनीत श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
आईसी-49534 गोपी कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-49573 नितिन खरे, इन्फैन्ट्री
आईसी-49535 संजीवा, इन्फैन्ट्री	आईसी-49574 विनोद कुमार तिवारी, ईएमई
आईसी-49536 सरल अग्रवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-49575 नवीन महरोत्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-49537 विवेक कुमार शर्मा, ईएमई	आईसी-49576 संजय राना, इन्फैन्ट्री
आईसी-49538 मनीश धरीयाकांत काची, इन्ट	आईसी-49577 अरुण कुमार, एओसी
आईसी-49539 जसपाल सिंह विर्क, इन्फैन्ट्री	आईसी-49578 दीपक मनोहर थोगे, आर्टी
आईसी-49540 शशी भूषण, एओसी	आईसी-49579 श्रृंगार पुरे शैलेश चिंतामनी, इन्फैन्ट्री
आईसी-49541 अजुन सेगन, इन्फैन्ट्री	आईसी-49580 मुरलीधरन, इंजीनियर्स
आईसी-49542 अमित राव, एडीए	आईसी-49581 अनिल गुरुंग, इन्फैन्ट्री
आईसी-49543 शैलेश शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-49582 रितु सूद, इन्फैन्ट्री
आईसी-49544 रोहित नौटियाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-49583 मोनीष शर्मा, एएससी



आईसी-49584 प्रनब कान्ती रे, एएससी	आईसी-49622 राज सिंह, एएससी
आईसी-49585 सतेन्द्र नेगी, इंजीनियर्स	आईसी-49623 अनिल कुमार, इंजीनियर्स
आईसी-49586 अनादी डोंडीयाल, एओसी	आईसी-49624 लीवलीन नौट, इन्फैन्ट्री
आईसी-49588 मोहिन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-49625 सत्यरूप, इन्फैन्ट्री
आईसी-49589 सरबजीत सिंह, ईएमई	आईसी-49626 विजय जोतवानी, इंजीनियर्स
आईसी-49590 जसजीत धुम्मन, सिग्नल्स	आईसी-49627 सलीम बादीयुजम्मन शेख, आर्टी
आईसी-49591 रूपेश मेहता, आर्टी	आईसी-49628 राज कुमार शर्मा, सिग्नल्स
आईसी-49592 सिन्हा अजय कुमार विश्वनाथ, आर्टी	आईसी-49629 सुरेन्द्र सिंह यादव, इन्फैन्ट्री
आईसी-49593 चुन बहादुर के सी, एओसी	आईसी-49630 विनय सिंह यादव, इन्फैन्ट्री
आईसी-49594 पटवर्धन सग्न विनय कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-49631 सुखदेव सिंह, आर्टी
आईसी-49597 मनु गुरुंग, इन्फैन्ट्री	आईसी-49632 सूरज सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-49598 मनभरण राम, सिग्नल्स	आईसी-49633 संदीप मल्लाकर, आर्टी
आईसी-49599 जगमोहन सिंह बरार, इन्फैन्ट्री	आईसी-49634 रंजीत चाक, इन्फैन्ट्री
आईसी-49600 संदीप सूद, ईएमई	आईसी-49635 कमल किशोर, इन्फैन्ट्री
आईसी-49601 चन्देवर प्रशांत मोलीराम, आर्टी	आईसी-49636 चरंजीव मंजू, इन्फैन्ट्री
आईसी-49602 हरपीत सिंह संधू, इन्फैन्ट्री	आईसी-49637 प्रदीप कुमार झा, इन्फैन्ट्री
आईसी-49603 एस हबीब रहुमन, इंजीनियर्स	आईसी-49638 संजीव गजराज, इन्फैन्ट्री
आईसी-49604 सिरिन्द्र सिंह, आर्टी	आईसी-49639 मनोज कुमार सिंह, आर्टी
आईसी-49605 सलभ सोनल, इन्फैन्ट्री	आईसी-49640 संदीप चन्दोरकर, इन्फैन्ट्री
आईसी-49606 ओम प्रकाश चौधरी, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-49641 कुमार शान्तानु, एएससी
आईसी-49607 देवरात चिकारा, आर्टी	आईसी-49642 भगा राम, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-49609 भरत सिंह, आर्टी	आईसी-49643 भीमवेंकट दुर्गा प्रसाद, इंजीनियर्स
आईसी-49610 संदीप चेतरी, इन्फैन्ट्री	आईसी-49644 अनिल सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री
आईसी-49611 बलराज शर्मा, एसी	आईसी-49645 राजेश कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-49612 हेम सिंह नागर, एओसी	आईसी-49646 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-49614 बीरेन्द्र मोहन, ईएमई	आईसी-49647 बलबीर सिंह कबसूरी, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-49615 करकेर तुशार विलास, इन्फैन्ट्री	आईसी-49648 वेनुगोपाल मेनन, आर्टी
आईसी-49616 बेन्जामीन दविद अदिउपा, सिग्नल्स	आईसी-49649 जसबीर सिंह चीमा, इन्फैन्ट्री
आईसी-49617 रमेश चन्द राठौर, एएससी	आईसी-49650 गम्भीर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-49618 मकरंद काशीनाथ राओ देशमुख, आर्टी	आईसी-49651 हरप्रीत सिंह, आर्टी
आईसी-49620 अभय राय, इन्फैन्ट्री	आईसी-49652 तपन चक्रवर्ती, एओसी
आईसी-49621 आदित्य गुरतू, एसी	आईसी-49653 राजेश मेनन, आर्टी

आईसी-49654 सत्यवीर शौरत, आर्टी	आईसी-49691 जे एन प्रवीन डी चूना, आर्टी
आईसी-49655 चेंकमार्था थामस मैथ्यू, इन्फैन्ट्री	आईसी-49692 धमेन्द्र शुक्ला, एओसी
आईसी-49656 शुभोजीत लहरी, इन्फैन्ट्री	आईसी-49693 अजय सिंह यादव, एओसी
आईसी-49658 गगन राना, एओसी	आईसी-49695 अतुल डिमरी, एओसी
आईसी-49659 बिमलेन्दू मोहपात्रा, आर्टी	आईसी-49696 रनबीर सिंह सलारिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-49660 एम आर के राजेश पानीकर, इन्फैन्ट्री	आईसी-49697 बी एन वेनुगोला, सिग्नल्स
आईसी-49661 जाधव सतीश शांताराम, इंजीनियर्स	आईसी-49699 तुशार अरुण देशमुख, आर्टी
आईसी-49662 संजीव कुमार चौहान, इन्फैन्ट्री	आईसी-49700 राजेश तिवारी, एएससी
आईसी-49663 राजेन्द्र गौडा पाटिल, ईएमई	आईसी-49701 अशोक कुमार, ईएमई
आईसी-49664 गोरान्दा सितंध पूयम, इन्फैन्ट्री	आईसी-49702 करण सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-49665 पृथ्वी पाल सिंह चौहान, एएससी	आईसी-49703 महेन्द्र सिंह कांग, इन्फैन्ट्री
आईसी-49666 प्रभाकर जोशी, सिग्नल्स	आईसी-49704 समीर कंवर, सिग्नल्स
आईसी-49667 प्रवीनसिंह सांगवान, इन्फैन्ट्री	आईसी-49705 रोहित भल्ला, इन्फैन्ट्री
आईसी-49668 विजय सिंह, एडीए	आईसी-49706 अतुल कुमार पाण्डे, इन्फैन्ट्री
आईसी-49669 सुमीतमाथुर, सिग्नल्स	आईसी-49708 देव कुमार, एओसी
आईसी-49670 राजू बहल, एसी	आईसी-49709 सुरेन्द्र पाल सिंह सग्गु, इन्फैन्ट्री
आईसी-49671 विवेक शील, आर्टी	आईसी-49710 योगेन्द्र सिंह पाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-49673 हडगेकर अनिल कुमार शेषराओ, इंजीनियर्स	आईसी-49711 अजय कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-49675 श्रु सिंह नेगी, एएससी	आईसी-49712 सी जैनी पाल, आर्टी
आईसी-49676 रूचीनसौधानी, एसी	आईसी-49713 अनिल भौसले, इन्फैन्ट्री
आईसी-49677 दयाल सिंह दलाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-49714 रमन गुलाटी, आर्टी
आईसी-49678 विरेन्द्र कुमार वर्मा, आर्टी	आईसी-49715 नदेला राजेन्द्र प्रसाद, इन्फैन्ट्री
आईसी-49679 हरप्रीत सिंह आहलूवालिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-49717 बी अनिल कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-49680 विकास लखरा, इन्फैन्ट्री	आईसी-49718 रामलाल चौधरी, आर्टी
आईसी-49681 जतिन्द्र सिंह, आर्टी	आईसी-49719 दिनेश कुमार भाटिया, सिग्नल्स
आईसी-49682 हुक्कमसिंह, इंजीनियर्स	आईसी-49720 देबदितिया दीपेश लहरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-49683 कुलदीप सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-49721 मनन मुकुल, इन्फैन्ट्री
आईसी-49684 विक्रम मैने, इन्फैन्ट्री	आईसी-49724 धमेश यादव, इन्फैन्ट्री
आईसी-49685 संजय दिलवारीया, एएससी	आईसी-49725 इरफान अहमद खान, ईएमई
आईसी-49686 अरुण कुमार नटराजन, आर्टी	आईसी-49726 नवरत्न सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-49688 कमल किशोर, आर्टी	आईसी-49728 विनय कुमार, सिग्नल्स
आईसी-49689 जीमुथुकुमार, इंजीनियर्स	आईसी-49729 महेन्द्र कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-49690 बाबू राम सल्गोत्रा, एओसी	आईसी-49730 संदीप सोनी, इंजीनियर्स
	आईसी-49731 शिवेन्द्र शुक्ला, इन्फैन्ट्री
	आईसी-49732 संजीव कुमार सालवान, मैक इन्फैन्ट्री

आईसी-49733 धरी पार्थी मोहन रेड्डी, आर्टी  
 आईसी-49734 इन्द्रजीत घौशाल, आर्टी  
 आईसी-49735 अजय धवन, एएससी  
 आईसी-49737 लाल चन्द, एएससी  
 आईसी-49738 आलोक दत्त, एसी  
 आईसी-49740 मोहीत कौशल, आर्टी  
 आईसी-49741 बलदेव राज, एएससी  
 आईसी-49742 संजय गुसाई, ईएमई  
 आईसी-49743 श्री रंग अशोक खरे, आर्टी  
 आईसी-49745 चन्दन नाथ गोस्वामी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49746 पुश्कर सलुजा, एसी  
 आईसी-49747 पंकज कुमार सिंह, आर्टी  
 आईसी-49748 भूपेन्द्र सिंह, आर्टी  
 आईसी-49749 जसमीत सिंह डोडी, आर्टी  
 आईसी-49750 रोहीत यादव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49751 दिनेश अधिकारी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49753 राकेश यादव, एओसी  
 आईसी-49755 एम आनंद, आर्टी  
 आईसी-49756 प्रशांता कुमार दास, एएससी  
 आईसी-49757 यू वी उलगानाथन, इंजीनियर्स  
 आईसी-49760 पंकज भोला, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49761 जय प्रकाश, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49762 राज रत्तन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49763 मनीन्दर सिंह सिद्धु, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49764 राजेश कुमार शर्मा, सिग्नल्स  
 आईसी-49769 विनोद भास्कर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49770 तरेश खन्ना, इंजीनियर्स  
 आईसी-49771 अशोक कुमार तिवारी, आर्टी  
 आईसी-49772 मोनाश बक्शी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49773 अनुभव शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49774 अपारजीत सिंह नकई, एएससी  
 आईसी-49776 संजय बक्शी, आर्टी  
 आईसी-49777 विक्रम चन्दर, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49778 रघवीर सिंह चीमा, आर्टी  
 आईसी-49779 पार्था प्रतीम भट्टाचार्या जी, आर्टी

आईसी-49780 सत्ताम सिंह, इंजीनियर्स  
 आईसी-49781 राजीव गुप्ता, ईएमई  
 आईसी-49782 ब्रिजेश पांडे, आर्टी  
 आईसी-49784 मयंक पास बोला, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49785 प्रमदीप सिंह, आर्टी  
 आईसी-49786 कपील देव, एएससी  
 आईसी-49787 भोभाष चन्द्रा, आर्टी  
 आईसी-49789 संतोष कुमार जी, इंजीनियर्स  
 आईसी-49790 सतेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49791 अनील चौधरी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49792 सीमीत कुमार, एओसी  
 आईसी-49793 रजत, सिग्नल्स  
 आईसी-49794 कुलदीप पाठक, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49795 राजीव बग्गा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49800 देवजीत बैनर्जी, इंट  
 आईसी-49801 विवेक शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49802 याम बहादुर भापा, एसी  
 आईसी-49803 मन बहादुर बोहरा, एओसी  
 आईसी-49805 कुरीचेती सिवा राम, इंजीनियर्स  
 आईसी-49806 रमेश कुमार श्रीवास्तवा, सिग्नल्स  
 आईसी-49807 राजीव ओहरी, सिग्नल्स  
 आईसी-49808 रजीत सुन्दरम, सिग्नल्स  
 आईसी-49809 कुरीयाकोसे के टी, ईएमई  
 आईसी-49810 संजय मधुकर अदसर, इंजीनियर्स  
 आईसी-49811 लक्ष्मन् प्रमोद, ईएमई  
 आईसी-49812 मृत्युञ्जय नौटियाल, सिग्नल्स  
 आईसी-49813 विजय कुमार ठाकुर, सिग्नल्स  
 आईसी-49815 क्लेमेंट स्टीफन, इंजीनियर्स  
 आईसी-49816 विश्वनाथ परांजये, ईएमई  
 आईसी-49817 दिनेश कुमार त्यागी, इंजीनियर्स  
 आईसी-49818 विक्रम सांगी, ईएमई  
 आईसी-49819 सुशील शर्मा, एमएफ  
 आईसी-49820 इन्दीवर शर्मा, ईएमई  
 आईसी-49822 दिनेश दीक्षित, इंजीनियर्स  
 आईसी-49823 शैलेन्द्र कुमार शर्मा, इंजीनियर्स

आईसी-49824 वीरेन्द्र सिंह चौधरी, ईएमई	आईसी-49865 अमरीक सिंह, सिग्नल्स
आईसी-49825 हरप्रीत सिंह मान, इंजीनियर्स	आईसी-49866 गोरथी एन वी आर एस हरनाथ, ईएमई
आईसी-49826 प्रवीन प्राशर, इंजीनियर्स	आईसी-49867 रंजीत सिंह मनराल, इंजीनियर्स
आईसी-49827 अरूण कुमार, ईएमई	आईसी-49868 अजय दुआ, एसी
आईसी-49828 अनील कुमार झा, आईसी	आईसी-49869 रवि प्रीतम सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-49830 मनमोहन सिंह दिओल, इंजीनियर्स	आईसी-49870 चरंजीत सिंह मान, एसी
आईसी-49831 पुष्प हंस शर्मा, इंजीनियर्स	आईसी-49871 राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन्फैन्ट्री
आईसी-49832 जैकब अब्राहम, इंजीनियर्स	आईसी-49872 पवन एस यादव, सिग्नल्स
आईसी-49834 किशन यादव, आईसी	आईसी-49873 देशराज रहर, एओसी
आईसी-49835 वी रमेश, इंजीनियर्स	आईसी-49874 वी अनबरासु, इंजीनियर्स
आईसी-49836 जसपाल सिंह, सिग्नल्स	आईसी-49875 एम एन सज्जन, इन्फैन्ट्री
आईसी-49837 बुधिन्द्रा लखवर, इंजीनियर्स	आईसी-49877 शैलेश कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-49838 चुगखम जीयराज सिंह, आईसी	आईसी-49878 आर सुन्दरम, इन्फैन्ट्री
आईसी-49839 सीता राम गोड़, आईसी	आईसी-49879 गुरप्रीत सिंह चौधरी, एडीए
आईसी-49840 धोरपडे बाउसाहेबराव, आईसी	आईसी-49880 संदीप बहल, एओसी
आईसी-49841 अनुराग शर्मा, ईएमई	आईसी-49882 अजय ककड़, ईएमई
आईसी-49842 चंदन वत्स, इंजीनियर्स	आईसी-49883 रमीत मेहता, आर्टी
आईसी-49844 जितेन्द्र कुमार, इंजीनियर्स	आईसी-49884 सुमेश सेठ, इन्फैन्ट्री
आईसी-49846 शिशिर कुमार घोष, सिग्नल्स	आईसी-49885 चैल्य लिमाय, इन्फैन्ट्री
आईसी-49848 वसीक अहमद खान, ईएमई	आईसी-49886 परीमल पंत, इन्फैन्ट्री
आईसी-49849 कोढगली गैबरोल ए कमल देव, सिग्नल्स	आईसी-49887 विक्रम गुलाटी, इंजीनियर्स
आईसी-49850 अंगार रघुवेन्द्रा राव, ईएमई	आईसी-49888 शैलेन्द्र सिंह सोम, इन्फैन्ट्री
आईसी-49851 अशोकन जी, इंजीनियर्स	आईसी-49889 इक्बाल सिंह समथाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-49852 रवीचन्द्र डी, सिग्नल्स	आईसी-49890 सुमन नेगी, इन्फैन्ट्री
आईसी-49853 डी बालाजी दयाल, ईएमई	आईसी-49892 संदीप चौधरी, इन्फैन्ट्री
आईसी-49854 प्रवीन बतरा, सिग्नल्स	आईसी-49893 दिनेश कुमार तिवारी, सिग्नल्स
आईसी-49855 श्री हरषा ए एन, ईएमई	आईसी-49895 एस मुरुगेसन, इन्फैन्ट्री
आईसी-49856 डी एन श्री निवास, ईएमई	आईसी-49898 अनिल चन्देल, इन्फैन्ट्री
आईसी-49858 सतीश कुमार सिंगला, आईसी	आईसी-49899 राज कपूर मोर, आर्टी
आईसी-49859 सतीश के, ईएमई	आईसी-49900 गुरुदत्त शेखदर, एएससी
आईसी-49860 सुनील दत्त, इंजीनियर्स	आईसी-49902 जितेन्द्र सिंह यादव, आर्टी
आईसी-49861 बोपान्ना एस वी एस सुधाकर, इंजीनियर्स	आईसी-49903 राजीव गुप्ता, एडीए
आईसी-49862 राजेश कुमार पोखरीयाल, आईसी	आईसी-49904 राजीव खुल्लर, इन्फैन्ट्री
आईसी-49863 रधीर खतरी, सिग्नल्स	आईसी-49905 लखविन्दर सिंह लिडर, इन्फैन्ट्री
आईसी-49864 एस ए वर्धन, आईसी	आईसी-49906 सुमीत शाही, सिग्नल्स

आईसी-49907 आनंद पैटरिक धन्वजंयन, आर्टी  
 आईसी-49908 विशाल अग्रवाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49909 दीपज्योत सिंह बजाज, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49910 सुनील कुमार, इंजीनियर्स  
 आईसी-49911 प्रसन्ना किशोर मिश्रा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49912 सत्यवर्त पगये, आर्टी  
 आईसी-49913 अर्जुन सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49914 सुमित मोंगा, सिग्नल्स  
 आईसी-49915 मधुकर सिंह चौहान, ईएमई  
 आईसी-49916 विकास दीवान, एसी  
 आईसी-49917 भूपेन्द्र सिंह पुन्दरी, आर्टी  
 आईसी-49918 नगेन्द्रा सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49919 हरप्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49920 निधिश भटनागर, सिग्नल्स  
 आईसी-49921 समीर शर्मा, आर्टी  
 आईसी-49922 मुकुल दोभाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49923 केतन भट्ट, ईएमई  
 आईसी-49924 सुमीर सिंह डडवाल, एएससी  
 आईसी-49925 अमीत सिंह सोहल, इंजीनियर्स  
 आईसी-49926 विजय कुमार पुरोहित, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49928 जयेश कन्यालाल अध्वर्यु, इंजीनियर्स  
 आईसी-49929 धनुष भजन पाठक, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49930 नवीन कुमार वडेरा, एओसी  
 आईसी-49931 तेजेन्द्र जीत सिंह, एएससी  
 आईसी-49932 प्रदीप सिंह बिष्ट, सिग्नल्स  
 आईसी-49933 सतीश कुमार गुप्ता, एएससी  
 आईसी-49934 हरदीप सिंह चव्हाण, एओसी  
 आईसी-49935 अजय सिंह जामवाल, आर्टी  
 आईसी-49936 पी वी आर सुब्रमन्यम, इंजीनियर्स  
 आईसी-49937 त्रिपेन्द्र सिंह साईन, एसी  
 आईसी-49938 अनुप सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49940 सतीश कुमार सिंह, एएससी  
 आईसी-49941 अजय कुमार सिन्हा, आर्टी  
 आईसी-49942 नवदीप सिंह खिच्चर, ईएमई  
 आईसी-49944 प्रिन्स दुग्गल, मैक इन्फैन्ट्री

आईसी-49945 अजय दलाल, ईएमई  
 आईसी-49946 जैकब जी, पीडीपारा, इंजीनियर्स  
 आईसी-49947 विनय मोहन काला, सिग्नल्स  
 आईसी-49949 देवाशीष चौधरी, आर्टी  
 आईसी-49950 पंकज यादव, इंजीनियर्स  
 आईसी-49951 रामानुज सिंह, आर्टी  
 आईसी-49952 गुमादी श्री निवास, आर्टी  
 आईसी-49953 अमनदीप सिंह ग्रेवाल, एएससी  
 आईसी-49954 करण सिंह धईया, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49955 विवेक लाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49956 संजीव कुमार सिंह, एओसी  
 आईसी-49957 विनय कुमार नागयाल, एसी  
 आईसी-49958 नागेश कुमार राना, सिग्नल्स  
 आईसी-49959 पंकज पचनंदा, एओसी  
 आईसी-49960 गुरप्रीत सिंह, एडीए  
 आईसी-49961 गयेन्द्र त्रिवेदी, आर्टी  
 आईसी-49962 मन प्रकाश, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49963 रविन्द्र सिंह, ईएमई  
 आईसी-49964 राजेश कसवान, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49965 दीपक अहूजा, आर्टी  
 आईसी-49966 शिवेन्द्र सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49967 अजीत सिंह वालिया, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49968 संजय कुमार, सिग्नल्स  
 आईसी-49969 कमत अशवीन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49970 सुरेश पाल सिंह, एडीए  
 आईसी-49971 जी वक्शालम, ईएमई  
 आईसी-49972 रनबीर सिंह पठनिया, एसी  
 आईसी-49974 प्रवीन वाई डभोलकर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49975 विजेन्द्र सिंह दहिया, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49976 सिमर प्रीत सिंह चीमा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-49977 नीरज चौहान, इंजीनियर्स  
 आईसी-49978 डेरीयल परेरा, इंजीनियर्स  
 आईसी-49980 अशक कुमार दलाल, एसी  
 आईसी-49981 दीपेन्द्र रावत, आर्टी  
 आईसी-49982 रायजादा नीरव कुमार कृष्ण सिंह, आर्टी

आईसी-49983 ए रामकृष्ण, सिग्नल्स	आईसी-50022 प्रकाश बी बीरदर, आर्टी
आईसी-49985 संदीप शर्मा, एएससी	आईसी-50023 प्रसन्ना कुमार, एएससी
आईसी-49986 अनुप कुमार अरोड़ा, आर्टी	आईसी-50024 रवि रेड्डी, इंजीनियर्स
आईसी-49987 दीपेन्द्र सिंह, आर्टी	आईसी-50025 विनय गुप्ता, ईएमई
आईसी-49990 राजेश कुमार, आर्टी	आईसी-50026 दीपक कुमार सिंह, सिग्नल्स
आईसी-49991 जितेन्द्र सिंह बंगर, इन्फैन्ट्री	आईसी-50027 अमर सिंह खंगरोट, इन्फैन्ट्री
आईसी-49992 जौहेर ईवन सलमा यज्जदानी, आर्टी	आईसी-50028 प्रमोद पाठक, इन्फैन्ट्री
आईसी-49993 विनय सुधाकर पंचपौर, ईन्ट	आईसी-50029 पियूष सेठ, आर्टी
आईसी-49995 अरविन्द कुमार, ईएमई	आईसी-50031 रोहीतश कुमार, एएससी
आईसी-49996 कुलदीप सिंह, एएससी	आईसी-50032 सतेन्द्र कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-49997 गुदे वेंकट सुब्बा राव, एएससी	आईसी-50033 रोहित कटारा, एसी
आईसी-49998 नवनीत जरयाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-50034 विनोद कुमार नाम्बियार, इन्फैन्ट्री
आईसी-49999 राकेश भनवाला, आर्टी	आईसी-50036 विनय कुमार पुंदीर, आर्टी
आईसी-50000 राजीव कुमार, एओसी	आईसी-50037 संकेत पांडे, इन्फैन्ट्री
आईसी-50001 राजन अय, इन्फैन्ट्री	आईसी-50038 नलीन चौहान, ईएमई
आईसी-50002 समीर लाम्बा, एएससी	आईसी-50041 जितेन्द्र सिंह, एएससी
आईसी-50003 पार्था प्रतीम बारीक, ईन्ट	आईसी-50042 रघबीर सिंह, आर्टी
आईसी-50004 मोहन पाल सिंह, आर्टी	आईसी-50043 राजेन्द्र सिंह धैला, आर्टी
आईसी-50005 डी विनोद, इंजीनियर्स	आईसी-50044 अम्बरीश तिवारी, इन्फैन्ट्री
आईसी-50006 राजेश कुमार अहलावत, इन्फैन्ट्री	आईसी-50045 नगेन्द्र एस पी बिष्ट, इन्फैन्ट्री
आईसी-50007 विक्रम भूषण, ईएमई	आईसी-50046 प्रेम राज आर, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50008 संजय प्रकाश सिन्हा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50047 उमेश वर्मा, एसी
आईसी-50009 सरताज डिल्लन, इन्फैन्ट्री	आईसी-50048 डब्ल्यू जोय कुमार सिंह, एओसी
आईसी-50010 सुविन बालाकृष्णन, इन्फैन्ट्री	आईसी-50050 हेमन्त कपूर, इंजीनियर्स
आईसी-50011 विजय कोटीयाल, सिग्नल्स	आईसी-50051 शिबाजी दास, इन्फैन्ट्री
आईसी-50012 जयदीप लाम्बा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50052 अजय कुमार रायना, आर्टी
आईसी-50013 जय प्रकाश कौशिक, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-50053 नीरज खुराना, एओसी
आईसी-50014 वधगिरीश गुलाब, इंजीनियर्स	आईसी-50054 संजीव आनंद, इन्फैन्ट्री
आईसी-50015 अजय आहुजा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50055 मयंक चौबे, एओसी
आईसी-50016 बलबीर सिंह सिवाच, इन्फैन्ट्री	आईसी-50056 वीरेन्द्र सामंत, एडीए
आईसी-50017 विकास पुरी, ईएमई	आईसी-50057 रमन दीप सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-50018 मनीश कुमार, आर्टी	आईसी-50058 शैलेन्द्र कुमार मेहरा, इन्फैन्ट्री
आईसी-50019 एन श्रीनिवासन, ईन्ट	आईसी-50059 योगेश कुमार आहुजा, इंजीनियर्स
आईसी-50020 पिजुष मुखोपाध्याय, एओसी	आईसी-50060 राजीव चावला, इन्फैन्ट्री
आईसी-50021 नाना पनेनी सतीश कुमार, आर्टी	आईसी-50061 संजय छाबरा, एसी

आईसी-50062 गने नोएल डिसूजा, सिग्नल्स	आईसी-50099 इन्दरदीप सिंह भल्ला, इन्फैन्ट्री
आईसी-50063 दत्तात्रेय जयसिंगे इगंवले, एसी	आईसी-50100 राजिन्द्र मेहता, आर्टी
आईसी-50064 शानतानु मुखर्जी, इंजीनियर्स	आईसी-50101 रविन्दर सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-50065 नवीन गोपाल, ईएमई	आईसी-50102 कृष्ण मुरारी सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50066 देवेन्द्र कृष्णा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50103 पवन तिवारी, सिग्नल्स
आईसी-50067 राजीव कुमार दिक्षित, इन्फैन्ट्री	आईसी-50104 दिनेश सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री
आईसी-50068 अभित कुमार, ईएमई	आईसी-50105 शिवेन्द्र सिंह, ईन्ट
आईसी-50069 अनिल ठाकुर, आर्टी	आईसी-50106 नीरज पुनेथा, इन्फैन्ट्री
आईसी-50070 कुमार वैकट कामेशवर प्रकाश, इन्फैन्ट्री	आईसी-50107 गुरजीत सिंह बच्चल, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50071 अशोक दहिया, एएससी	आईसी-50108 राकेश कुमार, इंजीनियर्स
आईसी-50072 गरीकापती वैकट अरुदरा, आर्टी	आईसी-50109 अमित कोहली, इंजीनियर्स
आईसी-50074 गुरजीत सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50111 प्रतीम कुमार हेम्बराम, इन्फैन्ट्री
आईसी-50075 गयानेन्द्र सिंह झा, एएससी	आईसी-50113 जगदीश सिंह कंडवाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-50076 करमिन्दर सिंह धुम्मन, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-50114 जी रूशी केसवन, ईन्ट
आईसी-50077 आर श्रीराम, इंजीनियर्स	आईसी-50115 संजय कुमार राय, एडीए
आईसी-50078 विनीत सहगल, आर्टी	आईसी-50116 नील कमल, एएससी
आईसी-50079 अनुप कुमार कादयान, इन्फैन्ट्री	आईसी-50117 पुष्पीन्द्र सिंह, आर्टी
आईसी-50080 यशपाल सिंह अहलावत, इन्फैन्ट्री	आईसी-50118 एल चन्द्रशेखर नायडू, एएससी
आईसी-50082 ओम प्रकाश राय, इन्फैन्ट्री	आईसी-50120 अनिरुद्ध मधुकर शेडे, आर्टी
आईसी-50083 सुजीत जैन, आर्टी	आईसी-50121 संदीप नाटू, ईएमई
आईसी-50084 मनीश कुमार कोचर, सिग्नल्स	आईसी-50122 भावे मनीश आनंद, आर्टी
आईसी-50085 मनीश बाम्भा, आर्टी	आईसी-50124 कमल सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50086 सुनील अरोड़ा, ईएमई	आईसी-50125 रोहन आनंद, इन्फैन्ट्री
आईसी-50087 पी पी टी थिओले, इंजीनियर्स	आईसी-50126 कोलकर श्रीकांत अप्पासाहेब, एसी
आईसी-50088 शैलेश कुमार सिंह, आर्टी	आईसी-50127 अजीत सिंह सम्बयाल, सिग्नल्स
आईसी-50089 अरविन्द सिंह बेदी, इन्फैन्ट्री	आईसी-50128 राहदीप सिंह धीर, ईएमई
आईसी-50090 गौतम महाजन, सिग्नल्स	आईसी-50129 सर्मथ नागर, एसी
आईसी-50091 मूलराज सिंह सरमल, एओसी	आईसी-50130 बाली अनिल जगल किशोर, सिग्नल्स
आईसी-50092 हरीन्दर पाल सिंह अहलावत, एओसी	आईसी-50131 सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-50093 गुरप्रीत सिंह, आर्टी	आईसी-50132 सत्येन्द्र सिंह यादव, ईएमई
आईसी-50094 राजेन्द्र सिंह कोहली, ईएमई	आईसी-50133 रतन समादीर, एएससी
आईसी-50095 राहुल बतरा, ईएमई	आईसी-50134 इन्द्रनिल चक्रवर्ती, आर्टी
आईसी-50096 पंकज शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50135 ब्रुस जिल्ली, इंजीनियर्स
आईसी-50097 दीप कुमार राना, एओसी	आईसी-50136 निकेत सुदा, इंजीनियर्स
आईसी-50098 मुपानेनी तिरुपथी स्वामी, एएससी	आईसी-50137 नारायणा रेड्डी, इन्फैन्ट्री

आईसी-50138 पोटलूरी विश्वेश्वर राव सीतारमईया, इन्फैन्ट्री	आईसी-50178 ललित कुमार दियोलाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-50139 संजीव हजारिका, इन्फैन्ट्री	आईसी-50179 पुनीत श्रीवास्तवा, आर्टी
आईसी-50140 मोहन रवि राव, आर्टी	आईसी-50180 डुडी राज जी सी, इन्ट
आईसी-50143 आशीश कुमार सुब्बा, इन्फैन्ट्री	आईसी-50181 ए आर रामकृष्णन, आर्टी
आईसी-50144 मलापती रवि कुमार, एएससी	आईसी-50182 भरत चिबुर, एओसी
आईसी-50145 राजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50183 जी कार्तिक, आर्टी
आईसी-50146 राकेश अशोक पेदराम, इंजीनियर्स	आईसी-50184 अरविंद शाही, इन्फैन्ट्री
आईसी-50147 अश्वरूढ़ एस, सिग्नल्स	आईसी-50185 नीरज नेहता, ईएमई
आईसी-50148 संदीप सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-50186 कुलदीप सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50149 राजेन्द्र कुमार, आर्टी	आईसी-50187 एस शेखर, आर्टी
आईसी-50150 अमित सहगल, इन्फैन्ट्री	आईसी-50188 राजेश गांधी, ईएमई
आईसी-50151 विजय गुप्ता, सिग्नल्स	आईसी-50189 राजेश्वर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50152 प्रेम सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री	आईसी-50190 वरुण सहगल, एसी
आईसी-50153 राजीव तुली, सिग्नल्स	आईसी-50191 साहनी राजन, इंजीनियर्स
आईसी-50154 संदीप खजुरिया, एसी	आईसी-50192 रेगी फिलीपीस, एओसी
आईसी-50155 दलबीर सिंह चेतरी, एएससी	आईसी-50193 मोहिन्दर लाल धामी, एसी
आईसी-50157 त्रिभुवन सिंह धामी, इंजीनियर्स	आईसी-50194 भूपेन्द्र सिंह बखुनी, इंजीनियर्स
आईसी-50159 सुधीर दूबे, इंजीनियर्स	आईसी-50195 अनिल ध्यानी, एएससी
आईसी-50160 विकास सिंह बरार, इन्फैन्ट्री	आईसी-50196 समीर कश्यप, सिग्नल्स
आईसी-50161 महावीर सिंह रावत, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-50197 विक्रान्त सिंह, आर्टी
आईसी-50162 के एन सुरेश कुमार, ईएमई	आईसी-50198 सी ए भीमा राव, इन्फैन्ट्री
आईसी-50163 मरदा वेंकटा गनपती, इन्फैन्ट्री	आईसी-50199 जगमोहन सिंह, एएससी
आईसी-50164 नरैन्दु चक्रवर्ती, इंजीनियर्स	आईसी-50201 अजय सिंह, एसी
आईसी-50165 स्वदीप सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री	आईसी-50202 सुखदीप सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50166 नरेन्द्र सिंह बहचल, ईएमई	आईसी-50203 सुरेन्द्र सिंह बहदुरिया, इन्फैन्ट्री
आईसी-50167 नितेश जगीद, इन्फैन्ट्री	आईसी-50204 कृष्णा दीप सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50169 महेश्वर सिंह गुरुंग, इन्फैन्ट्री	आईसी-50205 सुदीप्ता पाल, आर्टी
आईसी-50170 विधान चन्द्र शरन, एओसी	आईसी-50206 जसविंदर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50171 सुभाषीष चक्रवर्ती, आर्टी	आईसी-50208 के वीराबदीरन, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50172 अनुराग सक्सेना, सिग्नल्स	आईसी-50209 आशुतोष शर्मा, सिग्नल्स
आईसी-50173 पराग पांडे, एओसी	आईसी-50210 के गनेश, इन्फैन्ट्री
आईसी-50174 सज्जन जैन, इन्फैन्ट्री	आईसी-50211 संजय मक्कर, एसी
आईसी-50175 राकेश बुधानी, इन्फैन्ट्री	आईसी-50212 निपुन वोहरा, एओसी
आईसी-50176 एस वी शरनापा, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-50213 इन्द्रपाल सिंह चहल, इन्फैन्ट्री
आईसी-50177 हरेंद्र पाल सिंह भाट्टी, आर्टी	आईसी-50214 अंकुर, इंजीनियर्स



आईसी-50215 रितविक लहिरी, आर्टी	आईसी-50254 सतीश रामानंद, सिग्नल्स
आईसी-50216 मनीन्द्र सिंह, आर्टी	आईसी-50255 हीरा लाल, ईएमई
आईसी-50217 विनोद कुमार कौल, इन्फैन्ट्री	आईसी-50256 जितेन्द्र पाल सिंह, इंजीनियर्स
आईसी-50218 त्रिभुवन सिंह भंडारी, इन्फैन्ट्री	आईसी-50257 डिकुना सुमेर ईवान, एडीए
आईसी-50219 उदय वर्मा, एससी	आईसी-50258 सुधीर एम आर, इंजीनियर्स
आईसी-50220 वेनु कृष्णा अन्नापांतुला, एडीए	आईसी-50259 टी वी कमाराऊदीन, ईएमई
आईसी-50221 नीरज राना, सिग्नल्स	आईसी-50261 प्रनय कुमार, इंजीनियर्स
आईसी-50222 अईयापा के सी, एसी	आईसी-50262 गणेश चन्द्र मोहंता, आईसी
आईसी-50223 सी के मैथ्यू, ईएमई	आईसी-50263 सुदेश कुमार, ईएमई
आईसी-50224 संदीप कुमार, आर्टी	आईसी-50264 टेरी थामस, सिग्नल्स
आईसी-50225 आलोक चन्द्रा, ईएमई	आईसी-50265 राजगुरु प्रशांत शाम राव, सिग्नल्स
आईसी-50226 सिंह अजय कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-50266 मुकुल सिसोदिया, इंजीनियर्स
आईसी-50227 कुलदीप सिंह त्यागी, आर्टी	आईसी-50267 मलिकारजुन, ईएमई
आईसी-50229 देबाशीश नाग, इन्फैन्ट्री	आईसी-50268 राम किशोर बी, ईएमई
आईसी-50230 प्रमुख कुमार, इंजीनियर्स	आईसी-50269 रोहित मित्तल, एमएफ
आईसी-50231 भूपेन्द्र पाल सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-50270 बेलधूरती वासदेव राव, ईएमई
आईसी-50232 सचिन बतरा, आर्टी	आईसी-50271 संजय प्रधान, इंजीनियर्स
आईसी-50233 मूल चन्द, एससी	आईसी-44473 रवि मुरुगन, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50235 रेपु दमन सिंह राना, ईएमई	आईसी-44474 आर आर रैना, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50236 मनीश राय, सिग्नल्स	आईसी-44475 आकाशदीप, ए सी
आईसी-50237 विजय शर्मा, इंजीनियर्स	आईसी-44476 एल सी दहिया, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50238 राजेश बक्शी, इन्फैन्ट्री	आईसी-44477 विजय सिंह, ए सी
आईसी-50239 मनीष सहगल, इन्फैन्ट्री	आईसी-44478 अरविन्दर सिंह, ए सी
आईसी-50241 सुरेश शर्मा, आर्टी	आईसी-44479 डी के सहरावत, ए ओ सी
आईसी-50242 देवनीत सिंह लूम्बा, इंजीनियर्स	आईसी-44481 के पी एस राना, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-50243 संजय कौशल, ईएमई	आईसी-44482 एम एन वासुदेवा, इंजीनियर्स
आईसी-50244 चेतन बी एन, सिग्नल्स	आईसी-44483 योगेश विरले, इन्फैन्ट्री
आईसी-50246 योगेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स	आईसी-44484 सुनील शर्मा, इंजीनियर्स
आईसी-50247 साई अरूळ, सिग्नल्स	आईसी-44486 सुधीर नागपाल, ए वी ए
आईसी-50248 विवेक मेहता, सिग्नल्स	आईसी-44488 जी एस दवेडा, आर्टी
आईसी-50249 एस गोपी कृष्णा, सिग्नल्स	आईसी-44489 विनेश राना, ए ओ सी
आईसी-50250 वी सुधाकर, इंजीनियर्स	आईसी-44490 मनोज कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-50251 रोपू सूदन, इंजीनियर्स	आईसी-44491 जसवीर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-50252 बीजू शांताराम, ईएमई	आईसी-44492 ए ए जाकी, इन्फैन्ट्री
आईसी-50253 सुनील गदरू, ईएमई	आईसी-44493 एन ए विनोद, ए वी एन

आईसी-44495 एन एस रावत, ए ओ सी  
 आईसी-44496 मनोज यादव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44497 मनधारा शिन्दे, ए एस सी  
 आईसी-44498 राम चन्द्र तिवारी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44499 डी सी डी कोस्टा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44500 विजय पाल सिंह, इन्जीनियर्स  
 आईसी-44501 ए के वर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44502 यू एस सेनगुप्ता, ई एम ई  
 आईसी-44503 कमल कुमार चांद, आर्टी  
 आईसी-44504 गुरवीरपाल सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44505 संजय बोस, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44506 आर एस ददवाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44507 विनय हान्डा, आर्टी  
 आईसी-44508 ए आर शर्मा, ए ओ सी  
 आईसी-44509 एस शर्मा, सिग्नल्स  
 आईसी-44510 राजीव सेठी, आर्टी  
 आईसी-44511 विपुल सेगन, सिग्नल्स  
 आईसी-44512 एम के चौधरी, आर्टी  
 आईसी-44513 रमेश बालान, सिग्नल्स  
 आईसी-44514 के के सिंह, ए एस सी  
 आईसी-44515 वी श्रीहरि, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44516 सुखजिन्दर सिंह, ए एस सी  
 आईसी-44517 अनुपम शर्मा, आर्टी  
 आईसी-44518 ए ए शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44519 जी एस नागर, ए डी ए  
 आईसी-44520 एम के शर्मा, ए एस सी  
 आईसी-44521 बाबु फ्रान्सिस, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44522 एस एस मिश्रा, ए ओ सी  
 आईसी-44523 शामवीर सिंह, आर्टी  
 आईसी-44524 विक्रम आदित्य, आर्टी  
 आईसी-44525 एस डोगरा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44526 अजय सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44527 अशोक सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44528 दिलबाग सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44529 माइकल जेम्स, ए सी  
 आईसी-44530 नवनीत छावड़ा, इन्फैन्ट्री

आईसी-44531 एस के शर्मा, आर्टी  
 आईसी-44532 संजीव हल्दिया, ए एस सी  
 आईसी-44533 आर पीटर्स, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44534 दीपक महाजन, सिग्नल्स  
 आईसी-44535 आर विजय वैनकटेश, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44537 राजीव लाल, आर्टी  
 आईसी-44538 आर नायर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44540 आर खान, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44542 एल एम कन्डपाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44543 ए एस घुम्मन, आर्टी  
 आईसी-44544 शिराज वर्मा, ए सी  
 आईसी-44545 ए सेनगुप्ता, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44546 एस के सेंगर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44547 आर के सचदेवा, इन्जीनियर्स  
 आईसी-44548 अनिल भार्गवा, सिग्नल्स  
 आईसी-44551 एस के वर्मा, आर्टी  
 आईसी-44553 ए के शुक्ला, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44555 एन एस वेंस, इन्जीनियर्स  
 आईसी-44556 मनोज गुप्ता, आर्टी  
 आईसी-44557 सी ए मिनवल्ला, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44558 एस वी डाम्ले, इन्जीनियर्स  
 आईसी-44559 सन्दीप मलिक, ए सी  
 आईसी-44560 अमरिक सिंह, सिग्नल्स  
 आईसी-44561 राजेश कुमार, ई एम ई  
 आईसी-44563 वुवेश कुमार एस, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44564 वाई पी खन्डूरी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44565 वी के सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44566 एम डी वावगिराव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44567 विवेक पाठक, इन्जीनियर्स  
 आईसी-44568 आई विस्वेसवरन, सिग्नल्स  
 आईसी-44569 पी गुप्ता, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44570 एन एस खरोड़, आर्टी  
 आईसी-44571 पी पी एस वाधवा, इन्जीनियर्स  
 आईसी-44572 एस ठाकरन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44573 एस के झा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44574 एस भदौरिया, इन्फैन्ट्री

आईसी-44575 यू एस त्रिवेदी, आर्टी  
 आईसी-44576 नवजोत सिंह, सिगनल्स  
 आईसी-44577 के एस पित्रे, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44578 जगभान सिंह, ई एम ई  
 आईसी-44579 रावविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44580 सुनील खुराना, ए सी  
 आईसी-44581 परमेश्वरन ए, आर्टी  
 आईसी-44583 श्री कृष्णा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44584 हेम शंकर, इन्जीनियर्स  
 आईसी-44585 करन दिक्षित, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44586 सुखवीर एस जी, ए ओ सी  
 आईसी-44587 अमित लूम्बा, ए सी  
 आईसी-44588 रोहित दलाल, आर्टी  
 आईसी-44589 अरूण कुमार, ए एस सी  
 आईसी-44590 एम पाण्डे, आर्टी  
 आईसी-44591 डी के त्यागी, ए एस सी  
 आईसी-44592 अमरजीत झा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44594 एस के ओवरॉय, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44595 विरेन्द्र कुमार, ए एस सी  
 आईसी-44596 पी पुरी, इन्जीनियर्स  
 आईसी-44597 विनोद कुमार, आर्टी  
 आईसी-44598 आर के भाटिया, इन्ट  
 आईसी-44599 अरूण शर्मा, आर्टी  
 आईसी-44600 श्रीनिवास राघवन, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44601 एम आर शिन्दे, सिगनल्स  
 आईसी-44602 एस वी सिंह, आर्टी  
 आईसी-44603 वी कश्यप, ए सी  
 आईसी-44604 अनिल नौटियल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44605 वी के रतन पाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44606 ए हान्डा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44607 एस के डे, आर्टी  
 आईसी-44608 कुलदीप सैगल, ए ओ सी  
 आईसी-44610 अनिल ठाकुर, आर्टी  
 आईसी-44611 आर पी सिंह, आर्टी  
 आईसी-44612 ए भारद्वाज, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44613 राजवीर, इन्फैन्ट्री

आईसी-44614 एस पी सिन्हा, आर्टी  
 आईसी-44615 जगजीत सिंह, ए ओ सी  
 आईसी-44616 दीपक रामपाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44617 राकेश देसवाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44618 हरिश कुकरेजा, आर्टी  
 आईसी-44619 परमजीत सिंह गोथरा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44621 हरेन्दर राना, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44622 एम ए खान, ए सी  
 आईसी-44623 पी श्रीराम, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44624 अनुराग दत्ता, ए एस सी  
 आईसी-44625 आर एस दधवाल, आर्टी  
 आईसी-44626 एन के गोयल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44627 पी के शर्मा, ए ओ सी  
 आईसी-44628 आर खोसला, इन्जीनियर्स  
 आईसी-44630 जगदीश लाल, ए एस सी  
 आईसी-44631 कुशिक बनर्जी, आर्टी  
 आईसी-44632 मौहम्मद नायर एम एम, इन्जीनियर्स  
 आईसी-44633 राजेश खुराना, इन्जीनियर्स  
 आईसी-44634 एस सी शर्मा, आर्टी  
 आईसी-44635 आर एस भदौरिया, आर्टी  
 आईसी-44636 रोहित कपिला, ए ओ सी  
 आईसी-44637 वीरेन्द्र लूथरा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44638 अमित पाण्डे, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44639 एस पी सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44640 विमल कुमार शर्मा, ए एस सी  
 आईसी-44641 विजय कुमार राय, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44642 जगदीश चन्द, आर्टी  
 आईसी-44643 एस के शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44644 ए वी एस घोटरा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44645 एस के दीक्षित, ए सी  
 आईसी-44646 जंग बहादुर सिंह, आर्टी  
 आईसी-44647 राजेश महाजन, इन्जीनियर्स  
 आईसी-44648 जी सी गौड़, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44649 तरून तिवारी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44650 सन्दीप राव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44651 सी एस प्रभाकर, मैक इन्फैन्ट्री

आईसी-44652 वरिन्द्र शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-44691 एम के मोदगिल, इन्जीनियर्स
आईसी-44653 ए के कौशिक, सिग्नल्स	आईसी-44692 एम एस दावरा, आर्टी
आईसी-44654 डी एस शिशोदिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-44693 जे एस कंवर, इन्फैन्ट्री
आईसी-44655 सन्जय कुमार धर, इन्ट	आईसी-44694 अशोक चौधरी, ए एस सी
आईसी-44656 माले कुमार, आर्टी	आईसी-44695 ए पी त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री
आईसी-44657 आर भट्टिया, आर्टी	आईसी-44696 अनिल कुमार, आर्टी
आईसी-44658 एस एस अहलावत, ए एस सी	आईसी-44697 एस पी पत्याल, ए ओ सी
आईसी-44659 ए के वासुदेवन, सिग्नल्स	आईसी-44698 एम के यादव, ए एस सी
आईसी-44661 जीतसुन्दर गुलाठी, आर्टी	आईसी-44701 मनोज कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-44662 पंकज कुमार, इन्फैन्ट्री	आईसी-44702 रेतुराज नरुल्ला, आर्टी
आईसी-44663 अजित सिंह, ए ओ सी	आईसी-44703 थोमस कुरुविल्ला, इन्फैन्ट्री
आईसी-44664 वाई एस राना, इन्फैन्ट्री	आईसी-44704 वाई एस गिल, इन्फैन्ट्री
आईसी-44665 नवीन चन्द्र जोशी, ए सी	आईसी-44707 हरिन्द्र सिंह, ई एम ई
आईसी-44667 ए के तिवारी, ए सी	आईसी-44708 राजीव शर्मा, आर्टी
आईसी-44668 एस के प्रसाद, आर्टी	आईसी-44709 पियूष शर्मा, आर्टी
आईसी-44669 एन के शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-44710 मनोज ठाकुर, इन्फैन्ट्री
आईसी-44670 बी शर्मा, आर्टी	आईसी-44711 दीपक वर्मा, ए ओ सी
आईसी-44672 डी एस नवराज, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-44712 एस के बक्शी, ए एस सी
आईसी-44673 ए के शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-44713 ए एस दिल्लन, ए सी
आईसी-44674 दिलबाग सिंह, ए ओ सी	आईसी-44714 एस जौहरी, इन्जीनियर्स
आईसी-44675 संजय गुप्ता, इन्फैन्ट्री	आईसी-44715 नरिन्द्र वहल, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-44676 दिलीप कुमार एस, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-44716 जे वी सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-44677 वी एम पाठक, आर्टी	आईसी-44717 मनजित सिंह, आर्टी
आईसी-44678 जे पी एस उप्पल, इन्फैन्ट्री	आईसी-44718 वैनकट रेड्डी, ए ओ सी
आईसी-44679 सत्यवीर सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-44719 कामेश कुमार, सिग्नल्स
आईसी-44680 दीपक शर्मा, इन्जीनियर्स	आईसी-44720 ओ पी मिसरा, आर्टी
आईसी-44681 समीर अनुकुल, इन्फैन्ट्री	आईसी-44721 जे ए मीर, इन्फैन्ट्री
आईसी-44682 सिद्धार्थ, इन्फैन्ट्री	आईसी-44722 वी एस वाली, इन्फैन्ट्री
आईसी-44683 अतुल यादव, इन्फैन्ट्री	आईसी-44723 वनवारी लाल, ए सी
आईसी-44684 एस के सिंह, सिग्नल्स	आईसी-44724 डी सिंघल, आर्टी
आईसी-44685 योगेन्द्र कुमार, सिग्नल्स	आईसी-44726 एस एस जामवाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-44686 अवधेश सिंह, इन्जीनियर्स	आईसी-44727 संजीव यादव, आर्टी
आईसी-44687 के एस गनेसम, इन्जीनियर्स	आईसी-44728 हमन्त तिवारी, इन्फैन्ट्री
आईसी-44688 डी एस यादव, सिग्नल्स	आईसी-44729 पी एस सहरावत, इन्फैन्ट्री
आईसी-44689 भारद्वाज जे एस, इन्फैन्ट्री	आईसी-44730 जे एस कांग, इन्फैन्ट्री
आईसी-44690 दीपक जोशी, इन्फैन्ट्री	आईसी-44731 सुशील वाली, इन्फैन्ट्री

आईसी-44734 एम के शर्मा, ए एस सी	आईसी-44772 इन्द्रवीर सिंह, ए एस सी
आईसी-44735 ओम प्रकाश, आर्टी	आईसी-44773 दीपक चोपड़ा, एसी
आईसी-44736 संजय मैनी, ए सी	आईसी-44774 श्रीकान्त पॉल, आर्टी
आईसी-44737 विनय कुमार चौहान, आर्टी	आईसी-44776 पी सी पाठक, इन्फैन्ट्री
आईसी-44738 जोशी जोसफ, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-44777 आर एस शंकर, इन्फैन्ट्री
आईसी-44739 अश्वनी कुमार, आर्टी	आईसी-44778 मुकाश रंगरा, आर्टी
आईसी-44740 रूपम रूद्रा, आर्टी	आईसी-44779 संजीव सिन्हा, इन्फैन्ट्री
आईसी-44741 ए के महरोत्रा, इन्फैन्ट्री	आईसी-44780 सुरजीत सिंह, ए ओ सी
आईसी-44742 एस के सिंह, आर्टी	आईसी-44781 अतुल मधोक, एसी
आईसी-44743 राजिन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-44782 आर के वर्मा, आर्टी
आईसी-44744 सतीश मलिक, इन्फैन्ट्री	आईसी-44784 क्यू ए सिद्दिकी, आर्टी
आईसी-44745 वी एस खातना, सिग्नल्स	आईसी-44785 टी आनन्द, सिग्नल्स
आईसी-44746 एस एस सन्धू, आर्टी	आईसी-44786 राजीव कुमार गोसाई, ए ओ सी
आईसी-44748 संजय कपूर, इन्जीनियर्स	आईसी-44787 मयान जॉर्ज, इंट
आईसी-44749 राकेश कुमार वास्न, ई एम ई	आईसी-44788 लखविन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-44750 डी के पाठक, इन्फैन्ट्री	आईसी-44789 के के शर्मा, इंट
आईसी-44751 पी एस गुलिया, ए एस सी	आईसी-44790 प्रेम चन्द, इन्जीनियर्स
आईसी-44752 एन एस विष्ट, सिग्नल्स	आईसी-44791 समीर आनन्द, इन्फैन्ट्री
आईसी-44753 एस जे डेविड, इन्फैन्ट्री	आईसी-44793 एस के वोस, आर्टी
आईसी-44754 डी सी रघुनाथ, इन्फैन्ट्री	आईसी-44795 अरूण चोपड़ा, ए ओ सी
आईसी-44755 लोकाेश, इन्जीनियर्स	आईसी-44796 एन बाबू के एस, आर्टी
आईसी-44756 आनन्द श्रीवास्तवा, आर्टी	आईसी-44797 विजय कुमार, ए सी
आईसी-44757 एस त्रिपाठी, आर्टी	आईसी-44798 राजीव कुमार, इन्जीनियर्स
आईसी-44758 एस के गुप्ता, ए ओ सी	आईसी-44799 आर के वर्मा, ए एस सी
आईसी-44759 एम जोगड्ड, इन्फैन्ट्री	आईसी-44800 ए के शुक्ला, आर्टी
आईसी-44760 गिरिश कन्डपाल, ई एम ई	आईसी-44801 एन के माथुर, इन्फैन्ट्री
आईसी-44762 राजीव जोशी, ए एस सी	आईसी-44802 वी एस राव, इन्फैन्ट्री
आईसी-44763 वी सी जुलियन, इन्जीनियर्स	आईसी-44803 वी जयदेवा, इन्फैन्ट्री
आईसी-44764 वी पी एस नरूला, आर्टी	आईसी-44804 एम सिंह रन्धावा, इन्फैन्ट्री
आईसी-44765 यादवेन्द्र सूद, आर्टी	आईसी-44806 संजीव सोनी, इन्फैन्ट्री
आईसी-44766 आर एस डोगरा, इन्फैन्ट्री	आईसी-44807 सूर्या सेन, आर्टी
आईसी-44767 एन एस सन्धू, इन्जीनियर्स	आईसी-44808 संदीप भार्गवा, आर्टी
आईसी-44768 वी के पालीवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-44812 एस एस बजाज, इन्फैन्ट्री
आईसी-44769 जे जे एस गिल, इन्फैन्ट्री	आईसी-44813 अरविन्द शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-44770 पी एस वाजवा, इन्फैन्ट्री	आईसी-44814 सुभाष सहगल, आर्टी
आईसी-44771 डी पी मैथ्यूज, इन्फैन्ट्री	आईसी-44815 भूपेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-44816 बबलू मांडी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44818 के भट्टाचार्य, आर्टी  
 आईसी-44819 राजीव वसनदानी, सिग्नल्स  
 आईसी-44820 सुन्नी के एस, इंजीनियर्स  
 आईसी-44821 जे एस चौहान, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44822 ए के सिंघल, ए सी  
 आईसी-44823 अहमद मलिक, आर्टी  
 आईसी-44824 ए सुन्दर लाल, ए एस सी  
 आईसी-44825 संजय कुमार, इंजीनियर्स  
 आईसी-44826 श्री कुमार के, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44827 विरेन्द्र बिष्ट, आर्टी  
 आईसी-44828 विजय क्रिस्टोफर दत्तात्रा, आर्टी  
 आईसी-44829 कुलदीप सिंह, ए सी  
 आईसी-44831 एस वी जानेरभी, आर्टी  
 आईसी-44832 राजेश गुप्ता, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44833 ए एस परमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44834 वी एस राठोर, आर्टी  
 आईसी-44835 जयदीप सेठी, सिग्नल्स  
 आईसी-44836 सुरेन सुक्थ्या, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44837 एम सी कुठारी, ई एम ई  
 आईसी-44838 पी के शुक्ला, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44839 इशरत नावी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44841 एन एस थापा, ए ओ सी  
 आईसी-44842 संदीप कुमार, ए एस सी  
 आईसी-44843 गोपाल वर्मा, ए ओ सी  
 आईसी-44844 संजय जोहरी, ए ओ सी  
 आईसी-44845 आर पी सिंह, इन्ट  
 आईसी-44846 संजय भारद्वाज, ए सी  
 आईसी-44847 नौशाद आलम, सिग्नल्स  
 आईसी-44848 संजय सिंह कारकी, इंजीनियर्स  
 आईसी-44849 एस के सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44850 एच बी ठाकुर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44851 एस के भारद्वाज, ए एस सी  
 आईसी-44852 एम एन गोपाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44853 उमेन्द्र कुमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-44856 विक्रम जोशी, इंजीनियर्स

आईसी-44859 जी पी मिश्रा, इंजीनियर्स  
 आईसी-44860 राजीव मांगलिक, इंजीनियर्स  
 आईसी-44861 जोस के पी, इंजीनियर्स  
 आईसी-44862 ओम प्रकाश यादव, ई एम ई  
 आईसी-44863 विशना लालचन्दानी, ई एम ई  
 आईसी-44865 रविन्द्रा मेहता, सिग्नल्स  
 आईसी-44866 सुख पाल सिंह, सिग्नल्स  
 आईसी-44867 अतुल थपलियाल, सिग्नल्स  
 आईसी-44868 आर शर्मा, इंजीनियर्स  
 आईसी-44869 राजीव कुमार सिंह, ई एम ई  
 आईसी-44870 डी एम गुप्ता, इंजीनियर्स  
 आईसी-44873 आदर्श भारद्वाज, ई एम ई  
 आईसी-44874 एम एम मजूमदार, इंजीनियर्स  
 आईसी-44875 हरिदास भास्करन, ई एम ई  
 आईसी-44876 कृष्णा किशोर, इंजीनियर्स  
 आईसी-44877 श्रीनिवासन जी, ई एम ई  
 आईसी-44878 रिशि राज सिंह, ए इ सी  
 आईसी-44879 आर एस वी रमन, ई एम ई  
 आईसी-44880 अजय गोरा पी के, ई एम ई  
 आईसी-44881 सुनील एस, ई एम ई  
 आईसी-44882 एस एस कपूर, इंजीनियर्स  
 आईसी-44883 सुन्नी थोमस, ई एम ई  
 आईसी-44885 राजेश जायसवाल, ई एम ई  
 आईसी-44886 राजीव शर्मा, सिग्नल्स  
 आईसी-44887 राजीव अग्रवाल, इंजीनियर्स  
 आईसी-44889 टी के भट्टाचार्या, इंजीनियर्स  
 आईसी-44890 देव्या वी एन, इंजीनियर्स  
 आईसी-44891 शाम सुन्दर एन, ई एम ई  
 आईसी-44892 वी के सिंह, इंजीनियर्स  
 आईसी-44893 एम के सिंघल, इंजीनियर्स  
 आईसी-44895 टेनी वर्गीज, इंजीनियर्स  
 आईसी-44896 एम वासकरन, इंजीनियर्स  
 आईसी-44897 ए के रे, इंजीनियर्स  
 आईसी-44898 ए देशपाण्डे, इंजीनियर्स  
 आईसी-44899 शिव कुमार ए के, इंजीनियर्स  
 आईसी-44900 जी सिंह, इंजीनियर्स

आईसी-44901 संजय शर्मा, इंजीनियर्स  
 आईसी-44902 संजय शर्मा, ई एम ई  
 आईसी-44903 के मधूसूदन राव, ई एम ई  
 आईसी-44904 बादल कुमार पाण्डे, ई एम ई  
 आईसी-44905 सचिन मारवाहा, ई एम ई  
 आईसी-44906 नटराज कुप्पासद, ई एम ई  
 आईसी-44907 आर के सेन, सिग्नल्स  
 आईसी-44908 एम के शर्मा, इंजीनियर्स  
 आईसी-44909 एस एम कुलकर्णी, इंजीनियर्स  
 आईसी-44910 आर वाला सुब्रामनियम, ई एम ई  
 आईसी-44911 राजीव दोभल, सिग्नल्स  
 आईसी-44912 रमेश कुमार पी, ई एम ई  
 आईसी-44913 प्रोभास वोस, ई एम ई  
 आईसी-44914 एन के जैन, इंजीनियर्स  
 आईसी-44915 ए के सिन्हा, इंजीनियर्स  
 आईसी-44916 आर डी एस चौहान, ई एम ई  
 आईसी-44917 विद्या सागर, इंजीनियर्स  
 आईसी-44918 एस के शंख्यान, इंजीनियर्स  
 आईसी-44919 ए वी रमेश, ई एम ई  
 आईसी-44920 एच के रथ, इंजीनियर्स  
 आईसी-44921 एस एल जोशी, ई एम ई  
 आईसी-44922 रमेश पल्लीसटी, सिग्नल्स  
 आईसी-44924 रघवीर सिंह, इंजीनियर्स  
 आईसी-44925 एस पी बालकृष्णा, सिग्नल्स  
 आईसी-44927 एम पी सेन, सिग्नल्स  
 आईसी-44928 डी के अग्रवाल, इंजीनियर्स  
 आईसी-44931 सुरेश के, इंजीनियर्स  
 आईसी-44932 ए के सिंह, इंजीनियर्स  
 आईसी-44933 एस एस पाटिल, इंजीनियर्स  
 आईसी-44934 ए के तिवारी, ए इ सी  
 आईसी-44935 एस के अय्यंगार, इंजीनियर्स  
 आईसी-44936 सी रवन्दा रेड्डी, ए इ सी  
 आईसी-44937 आर सी जोशी, इंजीनियर्स  
 आईसी-44938 वी एस गोकुला, ए ओ सी  
 आईसी-44939 मौहम्मद रफुद्दिन, ई एम ई  
 आईसी-44940 वी प्रमोद कुमार, सिग्नल्स

आईसी-44941 डी डी पाधी, इंजीनियर्स  
 आईसी-44942 दिनेश जैन, इंजीनियर्स  
 आईसी-44944 एम के दधिचि, ई एम ई  
 आईसी-44945 के ए सिद्दिकी, इंजीनियर्स  
 आईसी-44946 जमशेद अखतर, इंजीनियर्स  
 आईसी-44947 नरेश गुप्ता, इंजीनियर्स  
 आईसी-44948 दीपक सिंह, इंजीनियर्स  
 आईसी-44949 बी एस नारायण, ई एम ई  
 आईसी-44950 ए एम रामाचन्द्रा, सिग्नल्स  
 आईसी-44951 जी नायर, इंजीनियर्स  
 आईसी-44952 दिग्विजय शर्मा, ई एम ई  
 आईसी-44954 एस वी चन्द्रन, इंजीनियर्स  
 आईसी-44955 एस वी गोपालन, इंजीनियर्स  
 आईसी-44956 श्रीराम केलान्या, इंजीनियर्स  
 आईसी-44957 जी वाई एस रेड्डी, ई एम ई  
 आईसी-44958 ए के गुप्ता, इंजीनियर्स  
 आईसी-44959 रघु के, एडसी  
 आईसी-44961 शफीक आलम एम डी, इंजीनियर्स  
 आईसी-44962 योगेश जैन, सिग्नल्स  
 आईसी-44963 राजन के थारू, इंजीनियर्स  
 आईसी-44964 टी वी एस राघवा, सिग्नल्स  
 आईसी-44966 एस एस चौधरी, सिग्नल्स  
 आईसी-44967 जी डी जी प्रसाद राजू, इंजीनियर्स  
 आईसी-44968 आर डी सिंघल, इंजीनियर्स  
 आईसी-44970 वेनूधर सिंह, ए इ सी  
 आईसी-44971 राधाकृष्णन एन, ई एम ई  
 आईसी-44972 अनिल कुमार, इंजीनियर्स  
 आईसी-44973 विजय सिंह, ई एम ई  
 आईसी-44974 वी के शर्मा, सिग्नल्स  
 आईसी-44975 राजशेखर एस हिरेमथ, इंजीनियर्स  
 आईसी-44976 टी हेगड़े, ई एम ई  
 आईसी-44977 वाई आर शेखर रेड्डी, इंजीनियर्स  
 आईसी-44978 एस के करोदपति, इंजीनियर्स  
 आईसी-44979 आर वी सुब्रह्मणिया प्रसाद, ए इ सी  
 आईसी-44980 जी एल एन केशव, इंजीनियर्स  
 आईसी-44981 सी डी भरूचा, सिग्नल्स

आईसी-44982 अरूण कुमार, सिग्नल्स	आईसी-45828 अरूण कृष्ण सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-44985 प्रकाश कुमार एम पी, इंजीनियर्स	आईसी-45829 राजीव नागपाल, इन्फैन्ट्री
आईसी-44986 एस खरे, सिग्नल्स	आईसी-45830 सुमेश कुमार गोसाई, इन्ट
आईसी-44987 एस के दत्ता, इंजीनियर्स	आईसी-45831 विनोद कुमार फोगट, इन्फैन्ट्री
आईसी-44988 उपेन्द्र कुमार शर्मा, ए इ सी	आईसी-45832 कंवर प्रदीप सिंह, ए एस सी
आईसी-44989 संजय सिंह, सिग्नल्स	आईसी-45833 हरिन्द्र सिंह यादव, इन्फैन्ट्री
आईसी-44990 पी अर प्रसाद राजू, इंजीनियर्स	आईसी-45834 गुरिन्द्र सिंह ढिल्लन, ए ओ सी
आईसी-45795 विक्रम सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-45835 जसवीर सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-45797 अनिल वेनीवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-45836 गिरिश पराशर, इन्फैन्ट्री
आईसी-45799 एम के तिवारी, ए ओ सी	आईसी-45837 पी एम मुथप्पा, इन्फैन्ट्री
आईसी-45800 प्रदीप लाम्बा, ए सी	आईसी-45838 देवेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-45801 सरन गुरविन्द्र सिंह, ए एस सी	आईसी-45839 संजय कुमार श्रीवास्तवा, आर्टी
आईसी-45802 रमेश सिंह कन्डवाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-45840 एन रघुनाथ, ए सी
आईसी-45803 सुबोध कुमार शाही, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-45841 नरेश पातरिक, ई एम ई
आईसी-45804 विद्या सागर यादव, इंजीनियर्स	आईसी-45842 धर्म वीर सिंह धेसी, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-45805 चन्दू मुकेश राव, इन्फैन्ट्री	आईसी-45843 विजेन्द्र सिंह रालही, सिग्नल्स
आईसी-45807 दिनेश श्रीवास्तवा, इन्फैन्ट्री	आईसी-45844 रवि चौधरी, ए डी ए
आईसी-45808 शैलेन्द्र प्रसाद कुक्रेती, सिग्नल्स	आईसी-45846 विनय पन्त, इन्फैन्ट्री
आईसी-45809 हर्ष दीप शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-45847 ओम प्रकाश ओझा, आर्टी
आईसी-45810 सुनील एन तनडाळे, इन्फैन्ट्री	आईसी-45848 घाटनेकर प्राफोउ गोविन्द, ई एम ई
आईसी-45811 अजय कुमार दूबे, इन्फैन्ट्री	आईसी-45849 संजय पाण्डे, ई एम ई
आईसी-45812 अनिल सहगल, ई एम ई	आईसी-45851 सौम्या प्रिया मुखर्जी, इन्फैन्ट्री
आईसी-45813 सौरभ भारद्वाज, इन्फैन्ट्री	आईसी-45852 अनिल राज सिंह कन्डारी, ए एस सी
आईसी-45814 अनुराग भटनागर, ए डी ए	आईसी-45853 कुलजीव जायसवाल, आर्टी
आईसी-45816 प्रमोद बी ओ, आर्टी	आईसी-45854 वरिन्द्र सिंह गिल, आर्टी
आईसी-45817 नरेश कुमार छिब्बर, इन्फैन्ट्री	आईसी-45855 यग्यापाल नागर, ए सी
आईसी-45818 जोसी ब्रासेफ कुन्जु कुन्जु, इन्फैन्ट्री	आईसी-45857 खेमचन्द्रा पाटिल, ई एम ई
आईसी-45819 क्षितिज श्रीवास्तवा, आर्टी	आईसी-45858 हेजिव गोपीनाथ खन्ना राव, सिग्नल्स
आईसी-45820 शोनिर सिंह साहरन, इन्फैन्ट्री	आईसी-45859 मोहन लाल छत्ता, इन्फैन्ट्री
आईसी-45821 यू एस फुलारी, आर्टी	आईसी-45860 मनमोहन मदान, ए ओ सी
आईसी-45822 भूपिन्द्र जीत सिंह घलौरा, इंजीनियर्स	आईसी-45862 करनदीप सिंह खुराना, इन्फैन्ट्री
आईसी-45823 सुदीप सिंह मादरा, इन्फैन्ट्री	आईसी-45863 विकास राना, इंजीनियर्स
आईसी-45824 रामेश्वर शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-45864 जुगराज सिंह सिधू, आर्टी
आईसी-45825 सुनील शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-45866 अजय सूद, आर्टी
आईसी-45826 दिव्या राज सिंह शक्तावत, इन्फैन्ट्री	आईसी-45867 राहुल शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-45827 मुकल भाटिया, आर्टी	आईसी-45868 ए एन वैनकटेश, ई एम ई



आईसी-45869 टी लक्ष्मणा कुमार, आर्टी  
 आईसी-45870 शामिक दत्ता, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45872 दलजीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45873 विनोद कुमार सी, ए एस सी  
 आईसी-45874 आदित्य शंकर चौधरी, आर्टी  
 आईसी-45875 अमिताभ, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45877 कमल सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45878 संजीव आनन्द, इंजीनियर्स  
 आईसी-45880 विजय कुमार छिकारा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45881 सुखदेव सिंह, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45882 सोमेन्द्र कृष्ण गुप्ता, ए सी  
 आईसी-45883 अरूण शर्मा, जैग  
 आईसी-45884 एम सुरेश रेड्डी, सिग्नल्स  
 आईसी-45885 संजय नागी, एएससी  
 आईसी-45886 सेननाथ गोपीनाथ, ई एम ई  
 आईसी-45888 सी वसिष्ठाराम शर्मा, ई एम ई  
 आईसी-45889 प्रदीप वासुदेव, आर्टी  
 आईसी-45890 दुर्गा दत्त वल्लोनी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45891 रूमेश यादव, आर्टी  
 आईसी-45892 पंकज श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45893 मौहम्मद अहसान सिद्दिकी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45894 अभय वेटेकार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45895 प्रभात के प्रसाद, ई एम ई  
 आईसी-45896 योगेश कुमार भट्टी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45897 सुनील कुमार सिन्हा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45898 अमर पाल सिंह, आर्टी  
 आईसी-45899 फतेन्द्र सिंह भदोरिया, ए ओ सी  
 आईसी-45900 संजय कुमार राजदान, इंजीनियर्स  
 आईसी-45901 राजेश नन्दल, इंजीनियर्स  
 आईसी-45902 सुनील दत्त पाठक, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45909 विजय सिंह रावत, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45910 रजनीश कक्कड़, ए सी  
 आईसी-45911 धर्मेन्द्र सिरौही, ई एम ई  
 आईसी-45912 एम सी जयकृष्णन, ए ओ सी  
 आईसी-45913 सुधीर कश्यप, एम एफ  
 आईसी-45914 कपिल जीत सिंह राठौर, आर्टी

आईसी-45916 रनवीर सिंह सहगल, ई एम ई  
 आईसी-45917 सी पी प्रेमवास, आर्टी  
 आईसी-45918 कुंवर अजय सिंह, ए डी ए  
 आईसी-45919 विजेन्द्र सिंह खोखर, इंजीनियर्स  
 आईसी-45920 संजय काहोल, आर्टी  
 आईसी-45921 गुरविन्दर सिंह सोढी, ए ओ सी  
 आईसी-45922 जयन्त मोहन सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45923 अशोक चन्देल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45924 रविन्द्र गुरुंग, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45925 जितेन्द्र सिंह, सिग्नल्स  
 आईसी-45926 साजो सेवास्टियन, ए एस सी  
 आईसी-45927 अरूण तुकाराम जगदाले, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45928 ओरविन्दो कुमार पाण्डे, आर्टी  
 आईसी-45929 रूपम राय, ए एस सी  
 आईसी-45930 रतन सिंह चौहान, ए डी ए  
 आईसी-45931 भूपेन्द्र पाल सिंह, ए ओ सी  
 आईसी-45932 एस रमेश, ए सी  
 आईसी-45934 प्रवीण चन्द्रा व्यास, ई एम ई  
 आईसी-45935 नीरज महरोत्रा, आर्टी  
 आईसी-45936 हरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45937 धर्मवीर सिंह, ए एस सी  
 आईसी-45939 बी सुरेश कुमार, ए एस सी  
 आईसी-45940 एम सी लवकुमार, ई एम ई  
 आईसी-45941 जिग्मे वांगडे, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45942 संजय आहूजा, ए ओ सी  
 आईसी-45943 यश पाल सिंह राना, आर्टी  
 आईसी-45944 सुरेन्द्र पाल वर्मा, आर्टी  
 आईसी-45945 विनय कृष्णा कान्त श्रीवास्तवा, ए एस सी  
 आईसी-45946 जग पाल सिंह गिल, आर्टी  
 आईसी-45947 हरवीर सिंह, ई एम ई  
 आईसी-45948 दिनेश कुमार सिंह देव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45950 दिनेश शर्मा, ए ओ सी  
 आईसी-45951 प्रेम चन्द चिगिलिपल्ली, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45952 सोनम वांगचुक, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45953 यादराम विंह यादव, आर्टी  
 आईसी-45954 राजेश कुमार चौहान, ए ओ सी

आईसी-45955 सन्दीप एस शालिग्राम, आर्टी  
 आईसी-45956 शील राज तेवतिया, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45957 अरूण कुमार वशिष्ठ, जैग  
 आईसी-45958 जयदीप सिंह, ए सी  
 आईसी-45959 धर्मेन्द्र कुमार पाल, ए एस सी  
 आईसी-45960 संजय यादव, आर्टी  
 आईसी-45961 परेश दवे, ए ओ सी  
 आईसी-45962 राजेश कुमार गिरोनी, आर्टी  
 आईसी-45963 विनीत सेठ, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45965 विचित्रा सिंह गुरूंग, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45967 ज्योति भानू, ए एस सी  
 आईसी-45968 दिवाकर पोटा, सिग्नल्स  
 आईसी-45969 कपिल कुमार नेहरा, आर्टी  
 आईसी-45970 भानू के जॉर्ज, ई एम ई  
 आईसी-45971 दिनेश कुमार सूद, ए ओ सी  
 आईसी-45972 अक्षित कंसल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45973 अमनीदर सिंह वेदी, ए सी  
 आईसी-45974 हर्षद सुरेश नादकरनी, ई एम ई  
 आईसी-45975 राजीव कुमार श्रीवास्तवा, इंजीनियर्स  
 आईसी-45976 विजय पराशर, ई एम ई  
 आईसी-45977 मन्वीत सिंह, जैग  
 आईसी-45978 जे एच सईद, ए ओ सी  
 आईसी-45979 अनिल कुमार शर्मा, इंजीनियर्स  
 आईसी-45980 परमेश चन्द बलवाड़ा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45981 नीरज तिवारी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45982 सुनील कुमार निरवाना, ए एस सी  
 आईसी-45983 ए के वासुदेवन, इंजीनियर्स  
 आईसी-45984 राजीव मेहता, ए एस सी  
 आईसी-45985 नितिन कुमार शर्मा, इंजीनियर्स  
 आईसी-45986 कमल देव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45987 विजय सिंह दलाल, ए एस सी  
 आईसी-45988 शिवेन्द्र कुमार शाही, ए एस सी  
 आईसी-45989 दीपक कुमार चक्रवर्ती, आर्टी  
 आईसी-45990 कंवरजीत सिंह, जैग  
 आईसी-45991 विरिन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45993 सत्येन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री

आईसी-45995 नरसिंगा राव वी वल्लाप्रागदा, इंजीनियर्स  
 आईसी-45996 प्रदीप कुमार शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-45997 गुलशन शर्मा, ए डी ए  
 आईसी-45998 संजय मिश्रा, ए डी ए  
 आईसी-45999 अभय मिश्रा, आर्टी  
 आईसी-46000 हेमन्त कुमार डोगरा, आर्टी  
 आईसी-46001 अनिल देव जायसवाल, जैग  
 आईसी-46002 प्रवीन कुमार, जैग  
 आईसी-46004 संजीव अग्निहोत्री, ए ओ सी  
 आईसी-46005 संदीप शर्मा, ई एम ई  
 आईसी-46006 अलोक मेहरा, आर्टी  
 आईसी-46007 संजीव केसरवानी, ए एस सी  
 आईसी-46008 मुकल राना, आर्टी  
 आईसी-46009 उमेश चन्द्र गुप्ता, जैग  
 आईसी-46010 वैन्कट रमनी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46011 कमल जीत सिंह सन्धू, आर्टी  
 आईसी-46012 कृष्णा मोहन, ए ओ सी  
 आईसी-46014 हरजीत सिंह सैनी, सिग्नल्स  
 आईसी-46015 वी सुरेश नायर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46016 विमल नारंग, आर्टी  
 आईसी-46017 मयंक मुंजाल, आर्टी  
 आईसी-46018 मनोवेन्द्रा चटर्जी, इन्ट  
 आईसी-46019 कुलानंदर देव शर्मा, ए एस सी  
 आईसी-46022 मिलन्द वसन्त प्रभु, ई एम ई  
 आईसी-46023 संजय भार्गवा, ए एस सी  
 आईसी-46024 विवेकानन्द, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-46025 हिमांशु महारिश, आर्टी  
 आईसी-46026 अरूण कटयाल, आर्टी  
 आईसी-46027 चरन प्रीत सिंह वेदी, ए डी ए  
 आईसी-47002 जगजीत सिंह मंगत, ए सी  
 आईसी-47003 दरिन्द्रा शर्मा, ए सी  
 आईसी-47005 चन्द्र विजय सिंह, ए सी  
 आईसी-47006 आर नथावत, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47007 अश्वनी कुमार यादव, ए सी  
 आईसी-47008 मंजीत सिंह विज, ए सी  
 आईसी-47009 आर के उनियाल, इंजीनियर्स

आईसी-47010 अनुराग कुमार, ई एम ई  
 आईसी-47011 विनायक सैनी, इंजीनियर्स  
 आईसी-47012 टी एस मुण्डी, ए सी  
 आईसी-47013 दीपक मेहरा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47014 तपन कुमार दास, ई एम ई  
 आईसी-47017 दीपानकर चौधरी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47018 राजिन्द्र सिंह, आर्टी  
 आईसी-47019 संदीप घई, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47020 डी एस राना, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47021 आर वाई बालकृष्णा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47022 अरविन्द कुमार अवरोल, ए ओ सी  
 आईसी-47023 नवनीत सिंह सरना, आर्टी  
 आईसी-47024 राम गोपाल शुक्ला, आर्टी  
 आईसी-47025 सन्दीप सहगल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47026 विकास ग्रोवर, आर्टी  
 आईसी-47027 अजय कालिया, आर्टी  
 आईसी-47028 राज मोहन, सिग्नल्स  
 आईसी-47030 विक्रम एम दाते, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47031 ए पी एस राजुरा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47032 प्रतीक शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47033 संजय ठाकुर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47034 डी एस रावत, इंजीनियर्स  
 आईसी-47035 प्रवीन पी शिन्दे, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47036 दीपक गर्ग, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47037 वी पी यादव, ए ओ सी  
 आईसी-47038 एस एन तिवारी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47039 सरवन सिंह, ए एस सी  
 आईसी-47040 शमशेर यादव, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47042 जी वी हरि प्रसाद, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47043 विक्रम दीप सिंह, ई एम ई  
 आईसी-47044 संग्राम शाहजी मोहिते, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47045 अशोक कुमार भुयान, आर्टी  
 आईसी-47046 शैलेन्द्र मलिक, ई एम ई  
 आईसी-47047 जय सिंह यादव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47049 जीतेन्द्र शर्मा, सिग्नल्स  
 आईसी-47050 गुरविन्दर सिंह सरना, इन्फैन्ट्री

आईसी-47051 कृष्णा राज, आर्टी  
 आईसी-47052 डी एस यादव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47053 मोहन सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47054 हरदीप सिंह, आर्टी  
 आईसी-47055 आशिष शर्मा, ए डी ए  
 आईसी-47057 मुकेश अग्रवाल, आर्टी  
 आईसी-47058 सतवीर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47059 अजय भाटिया, ई एम ई  
 आईसी-47060 निकाश नन्दन, आर्टी  
 आईसी-47061 विकास शर्मा, ए डी ए  
 आईसी-47062 एलेक्स जैकोन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47063 संजय शर्मा, आर्टी  
 आईसी-47064 मनोज नटराजन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47066 संजय शर्मा, सिग्नल्स  
 आईसी-47067 पी एस सामयाल, सिग्नल्स  
 आईसी-47068 योगेन्द्र कुमार, ए सी  
 आईसी-47069 एस एस खेरा, इंजीनियर्स  
 आईसी-47070 ए एम बापत, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47071 कमल सिंह भदवाल, ए एस सी  
 आईसी-47072 रविन्द्रा प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47073 संजीव त्यागी, ए एस सी  
 आईसी-47075 वी एस के रेड्डी, आर्टी  
 आईसी-47076 राकेश कपूर, ए सी  
 आईसी-47077 वरिन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47079 संजय सेठी, ए ओ सी  
 आईसी-47080 विक्रम जीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47081 एच आर इन्दिर सिंह बरार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47082 दीपिन्द्र सिंह सैनी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47083 राजीव कुमार सिंह, ए ओ सी  
 आईसी-47084 पी एस सांगवान, आर्टी  
 आईसी-47085 शरद काकू, आर्टी  
 आईसी-47086 अवधूत देशपाण्डे, सिग्नल्स  
 आईसी-47087 आर के शर्मा, ए डी ए  
 आईसी-47088 पी जी सुन्नापुरमठ, आर्टी  
 आईसी-47089 सुरेन्द्र सिंह, आर्टी  
 आईसी-47090 दीपक थापा, इन्फैन्ट्री

आईसी-47091 जी आर बी देवानन्दम, ए ओ सी	आईसी-47137 अजित सिंह शेखावत, ए एस सी
आईसी-47092 ओम प्रकाश राना, इन्फैन्ट्री	आईसी-47138 अजय बक्शी, इन्फैन्ट्री
आईसी-47094 संदीप सुधेरा, इन्जीनियर्स	आईसी-47139 पुष्पेन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-47096 एस के विद्यार्थी, इन्जीनियर्स	आईसी-47140 सहज कुमार साह, इन्फैन्ट्री
आईसी-47097 जगरूप सिंह, ए डी ए	आईसी-47141 राज कुमार अत्री, ए ओ सी
आईसी-47098 के ए डीसौजा, ई एम ई	आईसी-47142 रविन्द्र धनखर, ई एम ई
आईसी-47099 राजेश के गायकवाड़, इन्फैन्ट्री	आईसी-47143 जतिन्द्र कुमार गेरा, ए एस सी
आईसी-47101 मनोष गोसांई, ए एस सी	आईसी-47144 सुमित तलवार, आर्टी
आईसी-47104 संजय कुमार करवाल, ई एम ई	आईसी-47145 टी के मुखर्जी, इन्फैन्ट्री
आईसी-47105 यश सक्सेना, इन्फैन्ट्री	आईसी-47146 मंदीप सिंह गिल, आर्टी
आईसी-47106 उमेश चन्द्रा राय, ई एम ई	आईसी-47147 शिरियोश भाटिया, ई एम ई
आईसी-47108 दीपक कोहली, आर्टी	आईसी-47148 अंजन कुमार दत्ता, ए एस सी
आईसी-47109 विनीत भाटिया, सिग्नल्स	आईसी-47149 शुभा मित्रा, ए एस सी
आईसी-47111 महिन्द्र के जोशी, इन्फैन्ट्री	आईसी-47150 पंकज सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-47112 जे एस शेखावत, इन्फैन्ट्री	आईसी-47152 इकवाल सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-47113 नरेन्द्र सिंह यादव, इन्फैन्ट्री	आईसी-47153 रंजीव सन्याल, सिग्नल्स
आईसी-47115 प्रवीर वारिक, इन्फैन्ट्री	आईसी-47154 खाण्डेकर संजीव वी, इन्फैन्ट्री
आईसी-47116 राजेश कुमार दून, सिग्नल्स	आईसी-47155 उमेश चन्द्रा भट्ट, ए ओ सी
आईसी-47118 रवि शाह, इन्फैन्ट्री	आईसी-47156 देविन्द्र पाल सिंह, ईन्ट
आईसी-47119 अनिल कुमार वी के, ए सी	आईसी-47157 जी श्री रामा राव, ए ओ सी
आईसी-47120 भूषण लाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-47158 जया कुमार एस, आर्टी
आईसी-47121 अनमोल सूद, इन्फैन्ट्री	आईसी-47159 जोगिन्द्र कुमार, इन्फैन्ट्री
आईसी-47122 संजय मुखर्जी, सिग्नल्स	आईसी-47160 पी के शर्मा, आर्टी
आईसी-47123 जे एस ढिल्लों, आर्टी	आईसी-47161 कुनाल कश्यप, आर्टी
आईसी-47124 जय शंकर प्रसाद, ई एम ई	आईसी-47163 एस एस दुर्रानी, आर्टी
आईसी-47125 अरविन्द्र पी मुलिमनी, ए डी ए	आईसी-47164 अजय कादियन, इन्फैन्ट्री
आईसी-47126 प्रवीण माथुर, इन्जीनियर्स	आईसी-47165 सकितानन्द झा, ए सी
आईसी-47127 अजय तोमर, ए एस सी	आईसी-47166 संजय शर्मा, इन्जीनियर्स
आईसी-47128 अरूण यादव, इन्फैन्ट्री	आईसी-47167 विजय कुमार शर्मा, सिग्नल्स
आईसी-47129 अनुषम जैन, आर्टी	आईसी-47168 निरूप चन्द्रन, आर्टी
आईसी-47130 दिनिश भंडारी, ए ओ सी	आईसी-47169 राकेश कुमार सैनी, सिग्नल्स
आईसी-47131 दीपक कुन्दा, आर्टी	आईसी-47171 ए पी एस रन्धावा, आर्टी
आईसी-47132 अमित सूद, ई एम ई	आईसी-47172 वी एस ढीगरा, सिग्नल्स
आईसी-47133 अविनाश सिंह बेरार, इन्फैन्ट्री	आईसी-47173 राजीव घोस, आर्टी
आईसी-47135 कमल सिंह रावत, इन्फैन्ट्री	आईसी-47174 निकुंज गोयल, इन्फैन्ट्री
आईसी-47136 संदीप कुमार घोष, ए ओ सी	आईसी-47175 राजेश शर्मा, ए ओ सी

आईसी-47176 एम आर रविन्द्रा नायर, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47177 अलोक वेरी, आर्टी  
 आईसी-47178 सुरेश कुमार यादव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47179 विजय पाल सिंह, ए ओ सी  
 आईसी-47180 धीरज सिंह रघुवंशी, ईन्ट  
 आईसी-47181 संजय प्रसाद गुप्ता, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47182 अनिल कुमार गुलिया, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47183 भूपल सिंह लतवाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47184 पी डी श्रीकान्त, ए सी  
 आईसी-47185 मोहन सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47186 शान्तोनु राय, ई एम ई  
 आईसी-47187 पियूष बिष्ट, ए एस सी  
 आईसी-47188 सुरेन्द्र पाल सिंह एस जी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47189 निरूपम धर, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47190 वैनकट रमन अदुसुमाली, आर्टी  
 आईसी-47191 मृत्युंजय एस यारनाल, ए डी ए  
 आईसी-47192 राकेश कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47193 दिनेश कुमार मल्होत्रा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47194 जोगिन्द्र सिंह तंवर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47195 संजीव दयाल माथुर, ई एम ई  
 आईसी-47196 आर पी एस गिल, आर्टी  
 आईसी-47198 जे ए सहसराबुद्धे, ए डी ए  
 आईसी-47199 अलोक जोशी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47200 दिनेश आर मुदरी, ए एस सी  
 आईसी-47201 हिरेश बर्थवाल, ए सी  
 आईसी-47202 रमा कान्ता वर्मन, आर्टी  
 आईसी-47203 पी एम वृंदावन लाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47204 वैनकटेश एम नायक, ए एस सी  
 आईसी-47206 एन जे एस मान, ए ओ सी  
 आईसी-47207 अनिल नेगी, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47208 राजन महाजन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47209 अजय जोशी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47210 सुनीत मलिक, सिग्नल्स  
 आईसी-47211 टे के थापर, ई एम ई  
 आईसी-47212 रंजीत सिंह मलिक, आर्टी  
 आईसी-47213 अशोक कुमार, इन्जीनियर्स

आईसी-47214 आर श्रीनिवास, आर्टी  
 आईसी-47215 संजय कुमार जैन, ए ओ सी  
 आईसी-47216 हुमायुं मिर्जा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47217 प्रमोद कुमार रावत, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47218 अजय सिंह वेरी, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47220 अमित, ई एम ई  
 आईसी-47222 ए के मुखोपाध्याय, सिग्नल्स  
 आईसी-47223 संजीव चौहान, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47224 परमेश शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47225 विजय पाल सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47226 राहुल सिंह, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47227 प्रमोद कौशिक, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47228 पी के जी सथवारा, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47229 दलविन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47230 भूपिन्द्र सिंह ढिल्लन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47231 मनजीत सिंह, सिग्नल्स  
 आईसी-47232 देवेन्द्र पाल, ई एम ई  
 आईसी-47233 सोमेश्वर सिंह सिमसिनवार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47234 मनमोहन सिंह बाजवा, आर्टी  
 आईसी-47235 के रमेश कुमार, ई एम ई  
 आईसी-47236 हरप्रीत सिंह, आर्टी  
 आईसी-47237 वी के शर्मा, ए एस सी  
 आईसी-47238 एस पी भालेकर, आर्टी  
 आईसी-47239 सुधीर वर्मा, आर्टी  
 आईसी-47242 जोगेन्द्र सिंह लकरा, ए सी  
 आईसी-47243 बेवी सी एम, ए सी  
 आईसी-47244 पी के रूखाईयार, आर्टी  
 आईसी-47245 अजय गौतम, ए ओ सी  
 आईसी-47246 कंवर वीर सिंह, आर्टी  
 आईसी-47247 पीयूष पाण्डेय, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47248 संदेश शर्मा, सिग्नल्स  
 आईसी-47249 मन्नू चोपड़ा, ए ओ सी  
 आईसी-47251 एस वाई जाधव, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47253 गजेन्द्र जोशी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47254 कुलदीप सिंह विधान, आर्टी  
 आईसी-47255 अनुराग चौहान, इन्फैन्ट्री

आईसी-47256 श्रीधर वी कुलकर्णी, ई एम ई  
 आईसी-47257 के जे एस मयाल, आर्टी  
 आईसी-47258 अविनाश रावत, ए ओ सी  
 आईसी-47259 हर्ष वर्धन सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47260 अनुराग अस्थाना, सिग्नल्स  
 आईसी-47261 अमरदीप सिंह औजला, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47262 पी के रे, आर्टी  
 आईसी-47263 राजीव ठाकुर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47264 करनदीप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47265 चौधरी जी एम, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47267 वी सी सिंह, ए डी ए  
 आईसी-47268 वृज राज तिवारी, ए एस सी  
 आईसी-47269 जी एस भट्टी, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47270 शिवनन्दन शर्मा, आर्टी  
 आईसी-47271 हरजिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47272 राजवीर सिंह विक, आर्टी  
 आईसी-47273 अशोक कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47274 भूपिन्द्र सिंह हाण्डा, ए सी  
 आईसी-47275 नवदीप सिंह संधा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47276 विवेक कौल, मैक इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47277 संजीवन सिंह गुलेरिया, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47278 सूर्य पाल सिंह रावत, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47279 हेमन्त कुमार, ई एम ई  
 आईसी-47280 हरमनजीत सिंह चोपड़ा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47281 जसवन्त सिंह, सिग्नल्स  
 आईसी-47282 संदीप नागरथ, ए सी  
 आईसी-47283 जे एस महेन्द्र, सिग्नल्स  
 आईसी-47284 जसवीर सिंह वोपराय, ईन्ट  
 आईसी-47285 कौशिक सिरकार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47286 यशपाल सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47287 विनीत मेहरा, ईन्ट  
 आईसी-47288 सौरभ काला, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47289 गोविन्द सिंह वर्मा, ए एस सी  
 आईसी-47290 डी एस नय्यर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47292 राजीव सेठी, आर्टी  
 आईसी-47293 बलजीत सिंह बाजवा, आर्टी

आईसी-47294 राजीव सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47297 आदित्य भागवत, सिग्नल्स  
 आईसी-47298 रविन्द्रा सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47299 जी जे एस गिल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47300 सुशेवित कामरा, ई एम ई  
 आईसी-47302 नगेन्द्र सिंह ठाकुर, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47303 नरेश सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47304 राम धन सिंह, ए एस सी  
 आईसी-47305 संजय जेठी, ए ओ सी  
 आईसी-47306 एस के पाण्डा, ए सी  
 आईसी-47307 एस रविचन्द्र, ए सी  
 आईसी-47308 रनवीर सिंह यादव, ए एस सी  
 आईसी-47309 जगदीश सिंह, ए ओ सी  
 आईसी-47311 बशीर अहमद, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47312 वरिन्द्र सिंह, ई एम ई  
 आईसी-47314 सुनील कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47316 दीपक रंजन सिन्हा, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47317 आर के पाठक, सिग्नल्स  
 आईसी-47318 संजय कादियन, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47319 बलबीर सिंह बिष्ट, ई एम ई  
 आईसी-47320 यश भटनागर, ए सी  
 आईसी-47321 प्रितपाल सिंह, ए ओ सी  
 आईसी-47322 परमिन्द्रजीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47323 राजीव शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47324 विनोद भादू, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47325 सुनील परमार, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47326 दीपक सिंह, आर्टी  
 आईसी-47327 के टी शेरपा, आर्टी  
 आईसी-47328 आर के जसाईवाल, इन्फैन्ट्री  
 आईसी-47329 आशुतोष आहलूवालिया, आर्टी  
 आईसी-47330 उज्जवल प्रकाश, सिग्नल्स  
 आईसी-47331 रवि वोरा, ए ओ सी  
 आईसी-47332 डी के यादव, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47333 संदीप चौधरी, सिग्नल्स  
 आईसी-47334 हरिश कटोच, ए सी  
 आईसी-47335 अलंकार भारद्वाज, ए एस सी

आईसी-47336 टी थोमस, ए एस सी	आईसी-47377 राहुल चन्द्रा, आर्टी
आईसी-47337 डी एस गोपालदास, आर्टी	आईसी-47378 संजय भूषण, ईन्ट
आईसी-47338 गौतम नन्दी, इन्फैन्ट्री	आईसी-47379 उमेश कुमार पन्त, ई एम ई
आईसी-47339 असीम कुकरेजा, ए सी	आईसी-47380 पुष्कर प्रसाद, इन्जीनियर्स
आईसी-47340 विक्रम हेवले, इन्फैन्ट्री	आईसी-47381 भूपिन्द्र सिंह विर्क, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-47342 एस के शर्मा, सिग्नल्स	आईसी-47382 आर के मारवी, सिग्नल्स
आईसी-47343 विजय विक्रम सिंह वोरा, इन्फैन्ट्री	आईसी-47383 जगनार सिंह, ईन्ट
आईसी-47344 अमरजीत सिंह ओबरोय, आर्टी	आईसी-47384 अरूण मल्होत्रा, ए एस सी
आईसी-47345 ब्रिजेश कुमार धनखर, इन्फैन्ट्री	आईसी-47386 सन्तोष के एम, ए ओ सी
आईसी-47346 जी एम एस बिन्दा, ए वी एन	आईसी-47387 सुरेन्द्र कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री
आईसी-47347 विक्रम उप्पल, ए डी ए	आईसी-47389 अमितावा मुखर्जी, आर्टी
आईसी-47348 अनुराग गुप्ता, ईन्ट	आईसी-47391 जे एस हुन्डल, इन्फैन्ट्री
आईसी-47349 मोहिन्द्र सिंह रावत, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-47392 आनन्द महरोत्रा, इन्फैन्ट्री
आईसी-47350 राजेन्द्र वाना, ए ओ सी	आईसी-47393 संजय लांग्ये, एएससी
आईसी-47351 राजेश त्यागी, इन्फैन्ट्री	आईसी-47394 रंजीत सिंह, एसी
आईसी-47352 सुभेन्दु सुभाष अनजारिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-47395 रोहित सिंघल, इन्फैन्ट्री
आईसी-47353 देवासिस मुखोपाध्याय, इन्जीनियर्स	आईसी-47396 डी के आचार्य, इन्फैन्ट्री
आईसी-47354 जी एस सन्धू, ए ओ सी	आईसी-47397 विनय कुमार गुप्ता, इन्फैन्ट्री
आईसी-47355 जगदीश चन्द्र पाती, इन्जीनियर्स	आईसी-47398 एस एस राठौर, एसी
आईसी-47356 एच पी सिंह, सिग्नल्स	आईसी-47399 शरद मोहन, एसी
आईसी-47357 नवीन राय मग्गो, ई एम ई	आईसी-47400 कुलदीप यादव, ईएमई
आईसी-47359 अरविन्द कालिया, ई एम ई	आईसी-47401 किरन दीप सिंह, ईएमई
आईसी-47360 अजीत कुमार प्रन्या, इन्फैन्ट्री	आईसी-47402 अंशुल भार्गवा, एसी
आईसी-47362 इन्द्र मोहन सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-47403 राकेश भुयानी, आर्टी
आईसी-47363 अनूप सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-47404 विक्रम आहलूवालिया, एएससी
आईसी-47365 संजय श्रीवास्तवा, आर्टी	आईसी-47405 एम किशोर वेलियप्पा, इन्फैन्ट्री
आईसी-47366 मनीष कुमार चक्रावर्ती, ईन्ट	आईसी-47406 अनुज चतुर्वेदी, सिग्नल्स
आईसी-47367 समीर सिंह, आर्टी	आईसी-47407 बीरबल सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-47368 श्री भगवान शर्मा, सिग्नल्स	आईसी-47408 विजय धवन, एओसी
आईसी-47369 रवि प्रकाश, ए ओ सी	आईसी-47409 विवेक कुमार शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-47370 के एस तलवार, इन्फैन्ट्री	आईसी-47410 संजीव ववेजा, इन्फैन्ट्री
आईसी-47371 बलवीर सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-47411 जगजीत सिंह सन्धू, इन्फैन्ट्री
आईसी-47372 राज रिशि शर्मा, आर्टी	आईसी-47412 प्रभाकर सिंह गौतम, आर्टी
आईसी-47374 पी के जैटले, इन्फैन्ट्री	आईसी-47413 अतुल भंडारी, एएससी
आईसी-47375 शंकर सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-47414 कैलाश प्रकाश मलिक, इन्जीनियर्स
आईसी-47376 जोस कुरियन, आर्टी	

आईसी-47415 योगेश चन्द्र लोहूमि, एओसी	आईसी-47457 विशाल राय, एओसी
आईसी-47416 चरनजीत सिंह मंडेर, आर्टी	आईसी-47458 मनजीत सिंह बरार, आर्टी
आईसी-47417 उत्तम कुमार साह, आर्टी	आईसी-47459 अजय धवन, एओसी
आईसी-47418 जीवेल एन्टोनी, एओसी	आईसी-47460 प्रवीण सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-47419 विकास रंजन, आर्टी	आईसी-47461 पुनीत पसरिचा, आर्टी
आईसी-47420 शिव राज सिंह राठोर, इन्फैन्ट्री	आईसी-47462 अरविन्द एस गिल, इन्फैन्ट्री
आईसी-47421 खेम प्रसाद, ईन्ट	आईसी-47463 रजित सिंह बब्बल, आर्टी
आईसी-47423 शवाडे नन्द कुमार जर्नादन, इन्फैन्ट्री	आईसी-47464 विमल कपूर, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-47425 दिनेश सोनी, एओसी	आईसी-47465 संजीव सिंह, इन्फैन्ट्री
आईसी-47426 अनिल कुमार पठानिया, इन्फैन्ट्री	आईसी-47466 कुर्रा श्रीनिवासा राव, इन्फैन्ट्री
आईसी-47428 समीर चतुर्वेदी, इन्फैन्ट्री	आईसी-47467 संजीव चौहान, आर्टी
आईसी-47429 सुशील एस कुलकर्णी, एओसी	आईसी-47468 आर अरुन, आर्टी
आईसी-47430 आशीष मौलिक, एसी	आईसी-47469 दिनकर हितेशी, ईएमई
आईसी-47431 हेमन्त सरोक, इन्फैन्ट्री	आईसी-47471 विवेक झांझी, एएससी
आईसी-47432 विक्रमादित्या गुप्ता, इन्फैन्ट्री	आईसी-47472 अनन्त निरन्जन, ईएमई
आईसी-47433 वी एस शेखावत, आर्टी	आईसी-47474 कुलहीर सिंह राठी,
आईसी-47434 अरुण नारायण माथुर, आर्टी	आईसी-47475 एस वी बालाजी, आर्टी
आईसी-47435 राजेश जगताप, सिग्नल्स	आईसी-47476 रजनीश माथुर, इन्फैन्ट्री
आईसी-47436 गौतम मजूमदार, एसी	आईसी-47477 जूलियस जॉर्ज, इन्जीनियर्स
आईसी-47437 आरके चौधरी, एएससी	आईसी-47478 सुनील थोमस, इन्फैन्ट्री
आईसी-47440 अरुण ज्योति, आर्टी	आईसी-47480 नितिन शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री
आईसी-47441 वी एस चौहान, आर्टी	आईसी-47481 विजय जैन, इन्जीनियर्स
आईसी-47442 रवि कान्त जोशी, ईएमई	आईसी-47482 हरमिन्दर सिंह कहलोन, इन्जीनियर्स
आईसी-47443 दीपक चतुर्वेदी, एएससी	आईसी-47483 जगदीप सिंह आईशर, इन्जीनियर्स
आईसी-47444 धर्म पाल, इन्फैन्ट्री	आईसी-47484 सुखदेव सिंह, ईएमई
आईसी-47445 राजीव गुप्ता, इन्जीनियर्स	आईसी-47485 अतुल बक्शी, इन्जीनियर्स
आईसी-47446 संजय धिलदियाल, एसी	आईसी-47486 पूनाचा एम एम, ईएमई
आईसी-47447 अजय शाह, मैक इन्फैन्ट्री	आईसी-47487 जसप्रीत सिंह बरार, इन्जीनियर्स
आईसी-47448 विजय कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री	आईसी-47489 मनोज कुमार चौहान, इन्जीनियर्स
आईसी-47450 सी पी शर्मा, सिग्नल्स	आईसी-47490 वेद प्रकाश, इन्जीनियर्स
आईसी-47452 अभिजीत मित्रा, सिग्नल्स	आईसी-47491 मनेष के तिममापुर, इन्जीनियर्स
आईसी-47453 एस एस तोमर, आर्टी	आईसी-47492 जिम्मी पी जौन, इन्जीनियर्स
आईसी-47454 हरेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	आईसी-47493 वेमरू आर कुमार, एईसी
आईसी-47455 वाई पी बनवैल, सिग्नल्स	आईसी-47494 टी एस रीन, इन्जीनियर्स
आईसी-47456 ओम प्रकाश चौबे, एएससी	आईसी-47495 अन्तरिक्षा गौतम, इन्जीनियर्स



आईसी-47496 दुखा वन्धू पाने, ईएमई  
 आईसी-47497 यसवेन्द्र सिंह राना, ईएमई  
 आईसी-47499 श्री राम सिंह, ईएमई  
 आईसी-47501 अशोक दिघे, सिग्नल्स  
 आईसी-47502 अश्वनी कुमार, ईएमई  
 आईसी-47503 एन सतीश चन्द्र गोविन्द, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47504 नरेन्द्र प्रताप सिंह, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47505 एस सी खरबन्दा, ईएमई  
 आईसी-47507 अन्तारयामी प्रधान, ईएमई  
 आईसी-47508 प्रवीन कौल, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47509 जसवीर सिंह, ईएमई  
 आईसी-47510 राजेश कुमार गौड़, सिग्नल्स  
 आईसी-47511 राजीव अरोरा, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47513 पी हरि नारायणन, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47514 मनोज कुमार गुप्ता, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47515 प्रवीर देव, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47516 संजय कुमार, ईएमई  
 आईसी-47517 श्रीनिवासुलु सोमान्वी, आईसी  
 आईसी-47518 संदीप कुमार शर्मा, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47519 हरनाथा रेड्डी, ईएमई  
 आईसी-47520 नवीन कुमार झा, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47521 नरेन्द्र सिंह तोमर, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47522 एच सी एस रोटेला, सिग्नल्स  
 आईसी-47523 प्रवीन कुमार गोयल, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47524 आर रामा सुब्रामनियम, ईएमई  
 आईसी-47525 मधु सूदन शर्मा, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47527 मन्था नागराज, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47528 रवि कुमार, आईसी  
 आईसी-47529 हरप्रीत सिंह वालिया, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47530 उमा शंकर वर्मा, सिग्नल्स  
 आईसी-47531 मोहनन के जी, सिग्नल्स  
 आईसी-47532 जी कुमारस्वामी, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47533 जी राजा सेखर, ईएमई  
 आईसी-47534 सुधिन्द्रा इतनाल, ईएमई  
 आईसी-47535 दीपक शरण, इन्जीनियर्स

आईसी-47536 एम के आर वर्मा, ईएमई  
 आईसी-47537 अनिल कुमार गुप्ता, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47538 एस सी वर्मा, सिग्नल्स  
 आईसी-47539 प्रवीन कुमार, ईएमई  
 आईसी-47540 अशोक कुमार विनजोलकार, ईएमई  
 आईसी-47541 सुब्रामनियम पी वी, ईएमई  
 आईसी-47542 टोनमोय राय, आईसी  
 आईसी-47543 महेसवरा एन एच, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47544 जी सुधीर कुमार, ईएमई  
 आईसी-47546 पेद्दिभोतला वैनकटेश्वरलू, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47547 अनन्त किशोर सिंह, ईएमई  
 आईसी-47549 सुभाष सी पी, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47550 डी एन शर्मा, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47551 अतुल कुलश्रेष्ठा, इन्जीनियर्स  
 आईसी-47552 के प्रताप सिंह, ईएमई  
 आईसी-47554 राजासेखरन के बी, ईएमई  
 आईसी-47555 संजय कुमार, इन्जीनियर्स

--16 दिसम्बर 2004--

चन्द्र प्रकाश  
 उप निदेशक  
 एम एस 8 सी

वायु सेना मुख्यालय

सं. 577, दिनांक 3 नवम्बर, 2005--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित निजी सचिव (ग्रुप ख राजपत्रित) को सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव, (ग्रुप क राजपत्रित) वेतनमान 10000-15200 के पद पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई अवधि के लिए या नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, पदोन्नत करते हैं :--

क्रम	नाम	पदोन्नति की अवधि
क.	श्री के एस पिल्लई	04 जनवरी 2005 से 17 जनवरी 2005 तक
ख.	श्री के जकारिया	04 जनवरी 2005 से 17 जनवरी 2005 तक
ग.	श्री भीम सैन	04 जनवरी 2005 से 30 जून 2005 तक
घ.	श्री डी एस सन्धु	04 जनवरी 2005 से 30 जून 2005 तक
च.	श्री रजनी कान्त	04 जनवरी 2005 से 31 दिसम्बर 2005 तक

यह पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई आधार पर की गई है तथा प्रशासनिक कारणों पर बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त पद पर स्थाई पदोन्नति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति को अवधि की वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

शंकर सिंह  
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

-----  
सेना शाखा

सं. 578, दिनांक 9 नवम्बर, 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 27.8.2004 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
सर्जन लेफ्टि के पद पर

रंजन सरकार (एमएस-14364-एक्स) (एमआर-08120-एन) (75801), एएमसी 06.03.2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05.07.2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)।

नारायण एस (एमएस-14184-पी) (एमआर-08124-के), एएमसी 13.12.2000 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05.07.2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)।

बाईकिंग भानु (एमएस-14290-के) (एमआर-08117-एन) (75792), एएमसी 21.01.2002 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 21.07.2001 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 18.09.2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)।

शिल्पा अस्थाना (एमएस-14326-एफ) (एमआर-08121-डब्ल्यू) (75787), एएमसी 21.01.2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25.01.2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)।

सर्जन सब-लेफ्टिनेन्ट के प्रदीप शंकर (एमएस-14144-एन), (एमआर-08107-के) (75743), एएमसी 03.02.2001 (दिनांक 20.03.2001 की इन्टर्नशिप प्रशिक्षण के बाद दिनांक 21.03.2001 से सर्जन लेफ्टिनेन्ट का पद दिया गया।) (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05.07.2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)।

सर्जन सब-लेफ्टिनेन्ट मार्क पर्टीन (एमएस-14146-वाई), (एमआर-08116-एल), एएमसी 11.03.2001 (दिनांक 09.08.2001 इन्टर्नशिप प्रशिक्षण के बाद दिनांक 10.08.2001 से सर्जन लेफ्टिनेन्ट का पद दिया गया।) (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09.03.2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)।

राजेश कुमार  
ब्रिगेडियर  
डिप्टी डीजीएफएमएस (पर्स)

**MINISTRY OF DEFENCE  
(FINANCE DIVISION)**

No. 563, dated 2nd November 2005.—The President is pleased to appoint Smt. Anuradha Mitra, an officer of IP&TA&FS (82), as Additional Financial Adviser & JS in the Finance Division of Ministry of Defence with effect from the forenoon of 3rd October, 2005 to 2nd October, 2010 or until further orders whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri V. Thanabalan Assistant borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Section Officer on ad hoc basis in the Ministry of Defence (Finance Division) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 13th October, 2005 upto 26.12.2005, or till regular officers become available or till further orders whichever is earlier.

D. K. PANDEY  
Director (Fn/E)

**ARMY BRANCH**

No. 564, the 9th November 2005.—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 as amended :—

**REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION**

To be Lt. (On Prob)

Lieut Joy Sen, MR-08187M AMC, 21 February 2005

Lieut Anish Kumar Vishal, MR-08188P, AMC, 21 February 2005

Lieut Suresh Babu Velineni, MR-08189X, AMC, 21 February 2005

Lieut Ritesh Dubey, MR-08190M, AMC, 21 February 2005

Lieut Mohit Kumar Aggarwal, MR-08191P, AMC, 21 February 2005

Lieut Anil Kumar Singh, MR-08192X, AMC, 21 February 2005

Lieut Manoj Kumar Gupta, MR-08193A, AMC, 21 February 2005

Lieut Kumar Rajesh Ranjan, MR-08162A, AMC, 21 February 2005

Lieut Manish Taneja, MR-08163H, AMC, 21 February 2005

Lieut Reema Solanki, MR-08164L, AMC, 21 February 2005

Lieut Vikram Singh, MR-08165N, AMC, 21 February 2005

Lieut Arvind Mishra, MR-08167Y, AMC, 21 February 2005

Lieut Rohit Malhotra, MR-08168F, AMC, 21 February 2005

Lieut Rohit Mehra, MR-08169K, AMC, 21 February 2005

Lieut Chandan Sinha, MR-08170Y, AMC, 21 February 2005

Lieut Sankaranand P, MR-08171F, AMC, 21 February 2005

Lieut Vinod Kumar, MR-08172K, AMC, 21 February 2005

Lieut Chandan Kumar Thakur, MR-08173M, AMC, 21 February 2005

Lieut D V Bhargava, MR-08174P, AMC, 21 February 2005

Lieut Satish Kumar, MR-08175X, AMC, 21 February 2005

Lieut K Lekshmi Priya, MR-08176A, AMC, 21 February 2005

Lieut Amit Pathania, MR-08177H, AMC, 21 February 2005

Lieut Rajeev Ranjan, MR-08178L, AMC, 21 February 2005

Lieut Sudhir Dubey, MR-08179N, AMC, 21 February 2005

Lieut Vadlamani Surya Prakash, MR-08180H, AMC, 21 February 2005

Lieut Abhishek Gupta, MR-08181L, AMC, 21 February 2005

RAJESH KAMRAN  
Brig  
Dy DGAFMS (Pers)

**AIR HEADQUARTERS**

No. 565, the 3rd November 2005.—The President is pleased to appoint the following Personal Assistants in AFHQ Stenographer's Service as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) on temporary basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- for the period as mentioned against each or till persons from Select List become available whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Period	
		From	To
	S/Shri/Smt.		
(a)	G S Sridhar	21 Apr 2005	30 Jun 2005
(b)	G C Pande	30 Jun 2005	30 Jun 2005
(c)	R N Sharma	19 Aug 2005	31 Dec 2005
(d)	S Rajkumar	19 Aug 2005	31 Dec 2005

The promotion shall be subjected to the following conditions :—

- (a) Their appointment are purely on temporary basis and shall be terminated on administrative ground without issuing any prior notice to the effect.
- (b) The officers shall have no claim for regular promotion/appointment on the basis of this promotion granted now nor will their period of such appointment count toward seniority in the grade of PS.

SHANKAR SINGH  
Dy Chief Administrative Officer

REGULAR ARMY  
MILITARY NURSING SERVICE  
(PERMANENT COMMISSION)

No. 566, the 8th November 2005.—The following MNS officers have been granted Permanent Commission with effect from the date(s) mentioned against the each name with seniority for pay and promotion wef 6 Sep 1996 :—

(NS TO NR)

Rank & Name, Pers No., Date of Commission (PC)

Miss Sushma R, NS-20427L, 25th July 2001  
Miss D Sheeba, NS-20431N, 25th July 2001  
Miss Nisha N, NS-20432W, 25th July 2001  
Mrs. Regina V, NS-20433Y, 25th July 2001  
Mrs. Suja V Pillai, NS-20435K, 25th July 2001  
Mrs. Mohini, NS-20437P, 25th July 2001  
Miss Sindhumol, NS-20438X, 25th July 2001  
Miss Bindu PG, NS-20439A, 25th July 2001  
Miss Shyni George, NS-20442A, 25th July 2001  
Miss Seema David, NS-20443H, 25th July 2001  
Miss Smitha Eipe, NS-20444L, 25th July 2001  
Miss Rosa Ligi Thomas, NS-20445N, 25th July 2001  
Mrs. Suma Devi P, NS-20446W, 25th July 2001  
Miss Vanishree J, NS-20447Y, 25th July 2001  
Miss Aswathy I, NS-20449K, 25th July 2001  
Miss Manju George, NS-20450Y, 25th July 2001  
Mrs. Minimol K K, NS-20451F, 25th July 2001  
Miss Sunita Sharma, NS-20453M, 25th July 2001  
Miss Sulekha Helder, NS-20455X, 25th July 2001  
Miss Sreeja S, NS-20456A, 25th July 2001  
Miss Shanti Maya Tamang, NS-20458L, 25th July 2001  
Mrs. Bindu K Pankaj, NS-20459N, 25th July 2001

Mrs. Binu S, NS-20460H, 25th July 2001  
Miss Sreepa TS, NS-20461L, 25th July 2001  
Miss Mini P Chacko, NS-20462N, 25th July 2001  
Miss Jaysree B S, NS-20463W, 25th July 2001  
Miss Nalini G, NS-20464Y, 25th July 2001  
Miss Jubaira A, NS-20465F, 25th July 2001  
Miss Manjusha V K, NS-20466 K, 25th July 2001  
Mrs. Chetha Sharma, NS-20468P, 25th July 2001  
Miss Minimol, NS-20469X, 25th July 2001  
Miss Bindu K P, NS-20470M, 25th July 2001  
Miss Vibha P S, NS-20471P, 25th July 2001  
Miss Sindu Madhavan, NS-20472X, 25th July 2001  
Miss Kavitha S Kumar, NS-20476N, 25th July 2001  
Miss Reeta Swati Kujur, NS-20477W, 25th July 2001  
Miss Shyni P Skariah, NS-20479F, 25th July 2001  
Miss V Suja, NS-20480W, 25th July 2001  
Miss Ganga CB, NS-20483K, 25th July 2001  
Miss Bindu ME, NS-20485P, 25th July 2001  
Miss Umadevi N, NS-20487A, 25th July 2001  
Miss Resmi S Nair, NS-20488H, 25th July 2001  
Miss Sheeja M, NS-20490A, 25th July 2001  
Miss Lalitha Nair, NS-20491H, 25th July 2001  
Miss Rekha R, NS-20492L, 25th July 2001  
Miss Shibi Rajan, NS-20495Y, 25th July 2001  
Mrs. Asha Devi KJ, NS-20496F, 25th July 2001  
Miss Blasi T, NS-20497K, 25th July 2001  
Mrs. Vijaya Lakshmi L, NS-20498M, 25th July 2001  
Miss Indulekha V K, NS-20499P, 25th July 2001  
Miss Sindu NJ, NS-20503M, 25th July 2001  
Miss Cicilia John, NS-20506A, 25th July 2001  
Miss Asha P, NS-20507H, 25th July 2001  
Miss Charleston AS, NS-20508L, 25th July 2001  
Miss Manju KN, NS-20509N, 25th July 2001  
Miss Anita, NR-20510H, 25th July 2001  
Mrs. Bindu Mohan, NR-20512N, 25th July 2001  
Miss Geetha B, NS-20513W, 25th July 2001  
Miss Monika Limbu, NS-20516K, 25th July 2001  
Miss Rani P, NS-20517M, 25th July 2001  
Miss Swapna Sadanandan, NS-20518P, 25th July 2001

Miss Sindhu A, NS-20519X, 25th July 2001  
 Miss Shifa S S, NS-20520M, 25th July 2001  
 Miss Sreedevi P K, NS-20521P, 25th July 2001  
 Miss T V Rema, NS-20522X, 25th July 2001

SMITA DEVRANI  
 Lt Col  
 RPO/DGMS-4  
 for DGMS (Army)

#### NAVAL BRANCH NAVAL HEADQUARTERS

No. 567, dated 3rd November 2005.—The President is pleased to extend the appointment of Shri J S Joshi, Director of AFHQ Civil Service (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001, for a period from 04.04.2005 to 03.10.2005 or till regular incumbents become available or till such time the officer retires, whichever is earlier.

2. This appointment is made purely as stop-gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The President is pleased to extend the appointment of the following Assistants of AFHQ Civil Service as Section Officers (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period from 24.08.2005 to 23.02.2006 or till regular incumbents become available or till such time the officer retires, whichever is earlier :—

Shri N C Sahoo	Shri U S Bhindware
Shri S Banerjee	Shri Het Prakash
Shri D S Shokeen	Shri Roop Chand
Shri Man Singh	Shri B P Singh
Shri Chander Prakash	Shri R K Sahni
Smt Smita Ahuja	Shri D K Prasad
Shri Bhagwan Sahay	Shri T Tonsing
Shri Mam Chand	Shri G C Thapliyal
Shri Narain Singh	Shri S L Chhabra
Shri R P Singh	Shri G S Sehgal
Shri Bhajan Lal	Shri Rameshwar Prasad
Shri D V Arya	Shri Subhash Biswas
Shri V K Das	Smt Promila Rani
Shri N K Ahuja	Smt Meena K Ramani
Shri Maman Chand (Retired)	Shri Neeraj Ranjan
Shri Mohan Lal	Shri Debasis Pradhan

Shri S K Kardam	Shri Uday Kapat
Shri Ved Prakash	Km. Ujjal Kaur
Shri N S Madan	Shri Ravindra Sah
Shri Mahabir Singh	Smt. D Krishnamurthy
Shri Kailash Chand	Smt. Usha Verma
Shri Thakur R N	Shri S P Malhotra
Shri Shiv Kumar	Shri J P Meena
Shri P K Das	Shri K C Thakur
Shri Khushal Chandra	

2. This appointment is made purely as a stop-gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SHANKAR SINGH  
 Dy Chief Administration Officer (A)

#### ARMY BRANCH

No. 568, the 2nd November 2005.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY (ARMOURED CORPS)

To be Nb Ris

Dfr Jaswant Singh (No. 01077412X now JC-241244M), 20 Apr 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Nale Shivaji Sada Shiv (No. 01071125X now JC-241250A), 6 Apr 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Vijay Kumar (No. 01070657L now JC-241279H), 01 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Sham Singh (No. 01079974N now JC-241305Y), 03 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Bhom Singh (No. 01069208K now JC-241312P), 25 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Ramakant (No. 01069587L now JC-241320N), 17 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Ram Dayal Pandit (No. 01067471W now JC-241323F), 21 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Harjwant Singh (No. 01077489A now JC-241332H), 24 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Raghunath Singh (No. 01071973W now JC-241345A), 16 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Subedar Singh (No. 01074804A now JC-241346H), 10 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Y Jadumani Singh (No. 01072800L now JC-241347L), 22 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Patil Rajaram Bapuso (No. 01071668K now JC-241348N), 16 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 22 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Om Pal Singh (No. 01066507X now JC-241349W), 15 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Balbir Singh (No. 01077967Y now JC-241350L), 28 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Vijay Kumar (No. 01070230F now JC-241351N), 24 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Ashrel Bara (No. 01071822X now JC-241352W), 16 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Bijoy Kumar Sarma (No. 01067551N now JC-241354F), 28 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Shinde Hanamant Vithoba (No. 01071318X now JC-241355K), 02 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Shamsher Singh (No. 01080624N now JC-241356M), 30 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Jamma Singh (No. 01074919N now JC-241357P), 05 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 21 May 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Jay Singh Eknath Gholap (No. 01068752Y now JC-241358X), 22 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Suwa Singh (No. 01073018P now JC-241359A), 01 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Jogesh Singh Gayari (No. 01069820N now JC-241360P), 06 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Sidheshwar Yadav (No. 01068958W now JC-241361X), 05 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Upender Prasad Sharma (No. 01069139Y now JC-241362A), 23 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Dasarathi Sahu (No. 01069363L now JC-241363H), 23 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Jorawar Singh (No. 15462074X now JC-241364L), 07 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Rishi Nandan Yadav (No. 01074566Y now JC-241366W), 01 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Jabar Singh (No. 01078030A now JC-241367Y), 21 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Chandra Pal Singh (No. 01075049N now JC-241368F), 21 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Vishva Nath Singh (No. 01068792A now JC-241369K), 07 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Laxman Prasad (No. 01074166M now JC-241370Y), 01 Jul 2005

Dfr Ashok Kumar (No. 01077285N now JC-241373M), 12 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Ram Kumar Singh (No. 01070099P now JC-241374P), 15 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Jetha Ram (No. 01075238X now JC-241375X), 15 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Brijveer Singh Tomar (No. 01075265F now JC-241376A), 15 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Chandra Bhan Singh (No. 01069972P now JC-241377H), 25 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Akshya Kumar Sahoo (No. 01068534A now JC-241378L), 07 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Gulab Shankar Morya (No. 01070641A now JC-241379N), 07 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Ram Saroup (No. 01077597K now JC-241380H), 12 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Bhudev Singh (No. 01071397X now JC-241381L), 09 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Yad Ram (No. 01072307X now JC-241382N), 09 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Rama Kumar Singh (No. 01075054Y now JC-241383W), 25 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 03 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr S Braja Gopal Singha (No. 01071011M now JC-241384Y), 21 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 05 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Khodke Gurunath Babu Rao (No. 01068042F now JC-241385F), 01 Aug 2005

Dfr Shiv Singh (No. 01071033L now JC-241386K), 01 Aug 2005

Dfr Naresh (No. 01075122F now JC-241387M), 02 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 26 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Shendage Tanaji Ananta (No. 01071909Y now JC-241388P), 08 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Ram Prakash (No. 01071812N now JC-241389X), 08 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Surinder Pal (No. 01074923W now JC-241390M), 01 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Bhupinder Singh (No. 01072282W now JC-241392X), 01 Aug 2005

Dfr Om Prakash (No. 01074337N now JC-241394H), 12 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Matadin Yadav (No. 01074757N now JC-241395L), 12 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr Lakhwant Singh (No. 01079160P now JC-241396N), 28 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Dfr K Vasakkotti (No. 01068130X now JC-241398Y),  
10 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Ravinder Kumar (No. 01075642M now JC-241399F),  
08 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Surindra Singh Bhadauria (No. 01069541H now JC-  
241403Y), 16 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Md Shahzahan Ali (No. 01073284N now JC-  
241404F), 18 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Rajpal Singh (No. 01073521M now JC-241405K),  
18 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Intajar Husen Naikwadi (No. 01073579K now JC-  
241407P), 18 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Surender Singh Chandel (No. 01080127K now JC-  
241408X), 17 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2005  
without effect on pay and allowances)

Dfr Vijay Rattan Kumar (No. 01077210W now JC-  
241411X), 08 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2005  
without effect on pay and allowances)

JOSE THOMAS  
Under Secy.

#### REGULAR ARMY ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

No. 569, the 3rd November 2005—The President is  
pleased to make the following promotions :—

To be Subedar : Clk (GD/SD)

Naib Subedar Darpan Singh Karki (JC-642164P), 01 May  
2005

Naib Subedar Ram Chandra Prasad (JC-642167H), 01  
Jun 2005

Naib Subedar Soumendu Biswas (JC-642207Y), 12 Jul  
2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without  
effect on pay and allces)

Naib Subedar S. Prushotham Reddy (JC-642209K), 20  
Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without  
effect on pay and allces)

Naib Subedar Baksish Singh (JC-642210Y), 20 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without  
effect on pay and allces)

Naib Subedar Ramgiri Goswami (JC-642695M), 18 Jul  
2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without  
effect on pay and allces)

Naib Subedar Ajay Bahadur (JC-642259P), 01 Aug 2005

Naib Subedar Sridharan S (JC-642218L), 01 Aug 2005

To be Subedar : Personal Assistant

Naib Subedar Mahender Singh (JC-642624L), 11 Jul  
2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without  
effect on pay and allces)

Naib Subedar Tarsem Raj Sharma (JC-642627Y), 01 Aug  
2005

Naib Subedar Tika Bahadur Mahotra (JC-642628F), 01  
Aug 2005

Naib Subedar Sethu Madhavan TV (JC-642630Y), 01  
Aug 2005

Naib Subedar Sankar Kumar Tiwari (JC-642631F), 01  
Aug 2005

Naib Subedar Antony CA (JC-642632K), 01 Aug 2005

To be Naib Subedar Clk (GD/SD)

Havildar Shrikant (No. 6376418A now JC-663452P), 01  
Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep  
2004 without effect on pay and allces)

Havildar R Surendran Pillai (No. 6377433F now JC-  
663453X), 02 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May  
2005 without effect on pay and allces)

Havildar Romesh Chander (No. 6377016P now JC-  
663454A), 01 Jul 2005

Havildar Chandra Shekhar Pillai (No. 6377082X now  
JC-663455H), 01 Aug 2005

Havildar Kushwaha Chandra Badan Tahar Singh (No.  
6375798X now JC-663456L), 01 Aug 2005

Havildar Kaustubha Nand Joshi (No. 6377562F now JC-  
663457N), 01 Aug 2005



## To be Naib Subedar Personal Assistant

Havildar Dham Singh (No. 6379679Y now JC-663458W),  
01 Aug 2005

Havildar Rattan Singh Bahorthi (No. 6376117W now JC-663459Y), 01 Aug 2005

Havildar Ramesh Chandra (No. 14360328A now JC-663460N), 01 Aug 2005

Havildar Prem Chand (No. 6376741P now JC-663461W),  
01 Aug 2005

## CORPS OF SIGNALS

## To be Nb Subedar (Y of S)

Hav Masoom Ali (No. 15352047L now JC-376051A),  
01 Jan 2005

Hav S Prem Kumar (No. 15354398X now JC-376003A),  
01 Jan 2005

Hav Sukanta Kumar Behera (No. 14257264A now JC-376052H), 01 Jan 2005

Hav Basare Naganath M (No. 15357613K now JC-376005L), 01 Jan 2005

Hav S Velayuthan (No. 14264175K now JC-376006N),  
01 Jan 2005

Hav Ram Het (No. 15359928M now JC-376009F), 01 Jan 2005

Hav Ajit Singh (No. 15367170F now JC-376015P), 30 Jan 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Rajeev Menon E N (No. 15375200H now JC-376053L), 01 Jan 2005

Hav R K Dubey (No. 15376966Y now JC-376054N), 01 Jan 2005

Hav Shambharkar KSR (No. 15360547X now JC-376055W), 15 Jan 2005

Hav Charate Mahavir (No. 15353136W now JC-376056Y), 24 Jan 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Jan 2005 without effect on pay and allowances)

## To be Nb Subedar (F of S)

Hav Rajan Kana Veetil (No. 15367298M now JC-376024W), 01 Jan 2005

Hav Mathew G (No. 15373482N now JC-376027K), 01 Jan 2005

Hav Nand Kishore (No. 15373359P now JC-376028M),  
01 Jan 2005

Hav P Kathir Velu (No. 15382022N now JC-376059M),  
01 Jan 2005

Hav K L Gurjar (No. 15386391H now JC-376060F), 01 Jan 2005

## To be Nb Subedar (OP Ciph)

Hav Kumar M (No. 14237979P now JC-375802K), 05 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Hawa Singh (No. 14253145M now JC-376029P),  
02 May 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Deshmukh Nagorao VR (No. 14253793P now JC-376030K), 01 May 2005

Hav Prabhash Chandra Rai (No. 14238397F now JC-376031M), 01 May 2005

Hav Azad Singh (No. 14251042P now JC-376032P), 06 Jun 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Shri Bhagwan (No. 14254510P now JC-376090Y),  
04 Jul 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Divakar Prasad Maurya (No. 14245673F now JC-376091F), 01 Jul 2005

Hav Chand Bir (No. 14254858K now JC-376093M), 01 Jul 2005

Hav Surendra Singh (No. 14242704L now JC-376094P),  
01 Jul 2005

Hav C S Chaudhury (No. 14255479A now JC-376097H),  
01 Jul 2005

Hav Debashis Chatterjee (No. 14250001Y now JC-376099N), 04 Jul 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Dinesh Singh Rawat (No. 14254735X now JC-376101A), 04 Jul 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Bijay K. Mohapatra (No. 14255692A now JC-376102H), 01 Jul 2005

## To be Naib Subedar (OP Spec)

Hav Ranjit Kumar Nath (No. 14256652L now JC-375857N), 07 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav R S Yadav (No. 14268575A now JC-375923L), 11 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ravinder Singh (No. 14252190N now JC-375931K), 13 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Rajpal (No. 14259144A now JC-375935A), 01 Apr 2005

Hav Sudershan Kumar (No. 14257957X now JC-375942N), 01 Apr 2005

Hav Baldev Kishan (No. 14255597N now JC-375948X), 01 Apr 2005

Hav Sudesh Pal (No. 14255797K now JC-375951X), 1 Apr 2005

Hav Sunder Singh (No. 14256584H now JC-375954L), 01 Apr 2005

Hav Ashitbaran Gachhait (No. 14252944W now JC-376106Y), 01 Jul 2005

Hav Prithvi Singh (No. 14246589N now JC-376107F), 4 Jul 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Hav K B Naidu (No. 14257410F now JC-376108K), 01 Jul 2005

Hav Jagat Parkash (No. 14260406X now JC-376111K), 01 Jul 2005

Hav K S Yadav (No. 14260460L now JC-376112M), 01 Jul 2005

Hav Nagaraja (No. 14260691F now JC-376114X), 01 Jul 2005

Hav R Ravi (No. 14260675K now JC-376115A), 01 Jul 2005

Hav Rajbir (No. 14255986N now JC-376116H), 05 Jul 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Pawar Yeshwant G (No. 14258894M now JC-376117L), 01 Jul 2005

Hav Rajoo Singh (No. 14260013F now JC-376119W), 01 Jul 2005

Hav Prasad G (No. 14255975F now JC-376120L), 01 Jul 2005

To be Naib Subedar (Clk GD)

Hav Gurcharan Singh (No. 14244175H now JC-375811L), 25 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Alois Kujur (No. 14245555N now JC-376034A), 01 May 2005

Hav G S Choahan (No. 14251829K now JC-376050X), 01 May 2005

Hav Baljit Singh (No. 14255288L now JC-376061K), 15 Jun 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Avtar Singh Sandhu (No. 14246354F now JC-376062M), 01 Jun 2005

Hav K P S Yadav (No. 14253825M now JC-376063P), 05 Jul 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Sumenta Kumar Barik (No. 14257335W now JC-376066H), 01 Jun 2005

Hav Satyapal Singh (No. 14256488N now JC-376121N), 01 Jul 2005

Hav Nirmal Sarkar (No. 14256528K now JC-376122W), 01 Jul 2005

Hav Ramjeet (No. 14257824F now JC-376124F), 01 Jul 2005

Hav S C Dash (No. 14257876H now JC-376112K), 07 Jul 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

To be Nb Subedar (SKT)

Hav Bachan Singh (No. 14239748X now JC-375965X), 20 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav C S Tripathi (No. 14247622M now JC-376133H), 01 Jul 2005

Hav Balbir Chand (No. 14246298N now JC-376134L), 01 Jul 2005

Hav Than Singh (No. 14254044L now JC-376135N), 01 Jul 2005

Hav Rabindra Kumar Datta (No. 14246482Y now JC-376136W), 01 Jul 2005

Hav Lakhe Singh (No. 14250219L now JC-376137Y), 01 Jul 2005

Hav S B Tiwari (No. 14253477W now JC-376138F), 01 Jul 2005

To be Naib Subedar (GD)

Hav Balbir Singh (No. 14245457N now JC-375808L),  
01 Jan 2005

Hav S S Umarao (No. 14243646Y now JC-375821P), 09  
Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb  
2005 without effect on pay and allowances)

Hav Sagar Mal (No. 14246124N now JC-375840A), 01  
Feb 2005

Hav Ram Sewak (No. 14247824N now JC-375841H),  
01 Feb 2005

Hav Ram Chandra (No. 14246887K now JC-375842L),  
01 Feb 2005

Hav Ram Babu Kushwaha (No. 14245544F now JC-  
375843N), 01 Feb 2005

Hav Kashmir Singh (No. 14247498W now JC-375844W),  
01 Feb 2005

Hav Krishan Lal (No. 14247668P now JC-375874N), 05  
Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ramchandra Dara (No. 14234637W now JC-  
375875W), 01 Mar 2005

Hav Jaswant Singh (No. 14239797A now JC-375876Y),  
06 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2005 without effect on pay and allowances)

Hav Bishambher Dayal (No. 14240477X now JC-  
375877F), 01 Mar 2005

Hav Bachaspati Sharma (No. 14241352M now JC-  
375878K), 01 Mar 2005

Hav Rajinder Singh (No. 14231993L now JC-375879M),  
07 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2005 without effect on pay and allowances)

Hav Vinod Kumar Sharma (No. 14230686A now JC-  
375880F), 12 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar  
2005 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Subedar (Y of S)

Nb Sub Gian Chand (JC-372200L), 01 Mar 2005

Nb Sub Pawan Kumar (JC-372211X), 01 May 2005

Nb Sub Hawa Singh Jat (JC-372212A), 01 Jun 2005

Nb Sub Vijay Singh (JC-372213H), 01 Jul 2005

Nb Sub S Siva Kumar (JC-372214L), 09 Jul 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satish Kumar Mishra (JC-372215N), 10 Aug  
2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ramesh Chandra Pathak (JC-372216W), 01 Jul  
2005

Nb Sub Suresh Singh Sengar (JC-372217Y), 01 Jul 2005

Nb Sub S S Panwar (JC-372218F), 01 Jul 2005

Nb Sub P Kumar Mishra (JC-372219K), 11 Jul 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mange Ram (JC-372220Y), 01 Jul 2005

Nb Sub Gutte Madhukar M (JC-372221F), 01 Jul 2005

Nb Sub Moinuddin (JC-372222K), 01 Jul 2005

Nb Sub Umed Singh Bhukal (JC-372223M), 01 Jul 2005

Nb Sub Triloki Nath Prasad (JC-372224P), 01 Jul 2005

Nb Sub Vijay Kumar (JC-372225X), 01 Aug 2005

To be Substantive Subedar (F of S)

Nb Sub Kamlesh Kumar Pathak (JC-372172K), 01 Feb  
2005

Nb Sub Raghunathan Pillai (JC-372181L), 01 Mar 2005

Nb Sub Jai Kumar (JC-372188P), 11 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hari Lal (JC-372380Y), 02 Jun 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub G H Chandra Shivappa (JC-372382K), 01 Jun  
2005

Nb Sub Kumaravadivel M (JC-372383M), 01 Jun 2005

Nb Sub P Venkata Samy (JC-372384P), 01 Jun 2005

Nb Sub S Alagupandi (JC-372385X), 01 Jun 2005

Nb Sub Subhash Chand (JC-372386A), 01 Jun 2005

Nb Sub Mahendra Singh (JC-372389N), 01 Jun 2005

Nb Sub Viswanathan V (JC-372390H), 01 Jun 2005

Nb Sub Madan Mohan Pramanik (JC-372392N), 01 Jun  
2005

Nb Sub Suman Jana (JC-372393W), 15 Jul 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005  
without effect on pay and allowances)

Nb Sub Govindan K (JC-372395F), 01 Jun 2005

Nb Sub Sushil Kumar (JC-372396K), 01 Jun 2005

Nb Sub Vijay Kumar (JC-372397M), 01 Jul 2005

Nb Sub Vinod (JC-372398P), 01 Jul 2005  
 Nb Sub Renadevane (JC-372400F), 01 Jul 2005  
 Nb Sub Imaduddin (JC-372401K), 01 Jul 2005  
 Nb Sub Rajendra Chand (JC-372405A), 01 Jul 2005  
 Nb Sub Raj Kumar (JC-372406H), 22 Jul 2005  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Samir Kumar Singha (JC-372407L), 01 Jul 2005  
 Nb Sub Parkash Yadav (JC-372408N), 01 Jul 2005  
 Nb Sub Kanzaria Lakhman G (JC-372404X), 01 Jul 2005  
 Nb Sub Pawan Kumar (JC-371993M), 01 Aug 2005  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 23 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Subedar (OP Ciph)

Nb Sub Bhaskaran Pillai KV (JC-373006H), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Ashok Kumar Dixit (JC-373321Y), 11 Jul 2005  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Manne Chennaiah (JC-373322F), 01 Jul 2005  
 Nb Sub Karam Singh (JC-373329L), 01 Jul 2005  
 Nb Sub Jogendra Singh (JC-373330A), 01 Jul 2005  
 Nb Sub Satbir Singh (JC-373333N), 01 Jul 2005  
 Nb Sub Ishwar Singh (JC-373907P), 07 Jul 2005  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub G C Katoch (JC-373336F), 11 Jul 2005  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Rakesh Kumar (JC-373337K), 04 Jul 2005  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Kartar Singh (JC-373338M), 01 Jul 2005  
 Nb Sub Satya Pal (JC-373340K), 10 Aug 2005  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Giridhar Borua (JC-373456A), 01 Jul 2005  
 Nb Sub Sadanandan M (JC-373909A), 01 Aug 2005  
 Nb Sub Nonu Ram Borah (JC-373458L), 19 Aug 2005  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Potluri V Prasad (JC-373459N), 01 Aug 2005  
 To be Substantive Subedar (OP Spec)  
 Nb Sub Kandhi Lal Kosta (JC-372315Y), 23 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 30 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Niwas Rohila (JC-372879F), 01 Nov 2004  
 Nb Sub Jose George P (JC-372880W), 01 Nov 2004  
 Nb Sub Rajan Kolliyal (JC-372910H), 01 Dec 2004  
 Nb Sub Sukhraj Singh (JC-372911L), 01 Dec 2004  
 Nb Sub Radha Kumar M (JC-372912N), 01 Dec 2004  
 Nb Sub Partap Singh (JC-372913W), 01 Dec 2004  
 Nb Sub Benudhar Behera (JC-372914Y), 01 Dec 2004  
 Nb Sub Sarbajit (JC-372915F), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Bhim Singh (JC-372916K), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Vijaya Kumaran V (JC-372917M), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Ram Janam Ram (JC-372918P), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Rattan Singh (JC-372919X), 01 Jan 2005  
 Nb Sub S Krishna Nath Rama (JC-373048P), 01 Feb 2005  
 Nb Sub R P Mishra (JC-373049X), 01 Feb 2005  
 Nb Sub Madan Mohan (JC-373050M), 01 Feb 2005  
 Nb Sub K S Patial (JC-373051P), 01 Feb 2005  
 Nb Sub Rajeshwar Prasad (JC-373053A), 01 Feb 2005  
 Nb Sub Ram Niwas Daiya (JC-373055L), 01 Mar 2005  
 Nb Sub G K Nair K (JC-373149H), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Mulayam Singh (JC-373150X), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Sant Kumar Singh (JC-373151A), 24 Mar 2005  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Kuldip Singh (JC-373152H), 02 Apr 2005  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Deo Kumar Singh (JC-373167L), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Nirmal Singh (JC-373170L), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Bikar Singh (JC-373171N), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Amar Singh (JC-373201A), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Basalingappa Angadi (JC-373202H), 06 Mar 2005  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)  
 Nb Sub Vijay Kumar (JC-373203L), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Ram Kumar Sarohiya (JC-373204N), 21 Apr 2005  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

- Nb Sub Shivaji Kadam (JC-373205W), 01 Apr 2005
- Nb Sub Prabhat Chawara (JC-373280P), 01 Apr 2005
- Nb Sub Piar Chand (JC-373231X), 01 Apr 2005
- Nb Sub A Xavier (JC-373232A), 01 Apr 2005
- Nb Sub Rabindra Kumar Tiwari (JC-373234L), 01 Apr 2005
- Nb Sub Dharam Pal (JC-373235N), 03 Apr 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Des Raj (JC-373236W), 05 May 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Jarnail Singh (JC-373237Y), 01 Apr 2005
- Nb Sub Trijogi Singh (JC-373238F), 01 Apr 2005
- Nb Sub Ran Singh Punia (JC-373239K), 01 Apr 2005
- Nb Sub Radhey Shyam (JC-373240Y), 01 Apr 2005
- Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-373241F), 01 Apr 2005
- Nb Sub Karen Pal Singh (JC-373341M), 01 Apr 2005
- Nb Sub J S Jaswal (JC-373342P), 01 Apr 2005
- Nb Sub Murali A P (JC-373343X), 01 Apr 2005
- Nb Sub Vijayan P V (JC-373344A), 01 Apr 2005
- Nb Sub Rajan N (JC-373346L), 18 May 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Thangaraju S (JC-373347N), 01 Apr 2005
- Nb Sub D Kuppan (JC-373348W), 01 Apr 2005
- Nb Sub Madane Nmirutti Gulab (JC-373349Y), 01 Apr 2005
- Nb Sub A K Srivastawa (JC-373350N), 01 Apr 2005
- Nb Sub Ramawadh Singh (JC-373351W), 13 Apr 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Pinderjit Singh (JC-373473A), 01 Apr 2005
- Nb Sub Baben Kumar Singh (JC-373474H), 01 Apr 2005
- Nb Sub Rakesh Singh (JC-373475L), 01 Apr 2005
- Nb Sub Roshan Lal (JC-373477W), 01 Apr 2005
- Nb Sub Ram Briksa Yadav (JC-373478Y), 01 Apr 2005
- Nb Sub B C Nair PD (JC-373479F), 01 Apr 2005
- Nb Sub Amar Singh Shakya (JC-373480W), 01 Apr 2005
- Nb Sub Rameshwar Sinha (JC-373481Y), 01 Jun 2005
- Nb Sub Surender Singh (JC-373482F), 03 Jun 2005
- (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Manjit Singh (JC-373483K), 01 Jun 2005
- Nb Sub Sakti Pada Panja (JC-373484M), 01 Jun 2005
- Nb Sub Dharam Pal Singh (JC-373485P), 01 Jun 2005
- Nb Sub Yashodanand Jha (JC-373486X), 06 Jun 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Gopala Krishnan T P (JC-373487A), 24 Jun 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Tarsem Lal (JC-373488H), 01 Jul 2005
- Nb Sub D S Sirohi (JC-373489L), 01 Sep 2005
- To be Substantive Subedar (Cik GD)
- Nb Sub Devender Singh (JC-371267X), 01 Jan 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Baljit Kaushik (JC-371352A), 01 Jan 2005
- Nb Sub Mangat Ram (JC-371353H), 01 Feb 2005
- Nb Sub Amar Singh (JC-371354L), 01 Mar 2005
- Nb Sub Ramesh Kumar (JC-371355N), 01 Mar 2005
- Nb Sub Tileswar Hazam (JC-371358F), 01 Mar 2005
- Nb Sub C H Tandale (JC-371359K), 01 Mar 2005
- Nb Sub Mazlum Khan (JC-371360Y), 01 Apr 2005
- Nb Sub Ravindran S (JC-371361F), 01 Apr 2005
- Nb Sub Kamal Chandra Bora (JC-371362K), 01 Apr 2005
- Nb Sub Vijay Kumar Sharma (JC-371363M), 01 Apr 2005
- Nb Sub Rama Nand (JC-371366A), 01 Apr 2005
- Nb Sub Ashok Kumar Shukla (JC-371367H), 01 Apr 2005
- Nb Sub Sudershan Kumar (JC-371369N), 01 Apr 2005
- Nb Sub S K Sharma (JC-372528M), 01 Apr 2005
- Nb Sub Mohan Singh Bist (JC-371371L), 01 Apr 2005
- Nb Sub Sukh Raj Yadav (JC-371373W), 01 June 2005
- Nb Sub Janardana Pennkkantavita (JC-371622K), 01 June 2005
- Nb Sub Yadav Raghu Sidu (JC-371727N), 11 June 2005  
(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st June 2005 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Ram Subhag Singh (JC-371729Y), 01 June 2005

Nb Sub Asis Kundu (JC-371730N), 01 June 2005

Nb Sub Prem Singh (JC-371731W), 08 Aug 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st July 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Venugopalan V (JC-371733F), 01 July 2005

Nb Sub Mohinder Singh (JC-371734K), 01 July 2005

Nb Sub Shiv Raj Singh (JC-371836A), 30 July 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st July 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub G Madana Mohana (JC-371837H), 01 July 2005

Nb Sub Sultan Singh Cheeta (JC-371838L), 18 July 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st July 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raj Kumar (JC-371839N), 01 July 2005

Nb Sub Tajwar Singh (JC-371907W), 01 July 2005

Nb Sub Ram Barika Yadava (JC-371625X), 16 Aug 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st Aug 2005 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Subedar (S K T)

Nb Sub Bikram Singh (JC-373464Y), 01 Jan 2005

Nb Sub Subhash Chand (JC-373465F), 13 May 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub P K Sahu (JC-373466K), 01 June 2005

Nb Sub P K Bhattacharya (JC-373467M), 01 June 2005

Nb Sub Gian Chand Sharma (JC-373468P), 01 June 2005

Nb Sub Guldeep Singh (JC-373469X), 01 July 2005

Nb Sub Shreedharan Nair R (JC-373470M), 01 July 2005

Nb Sub Jagdish Chand (JC-373471P), 01 Aug 2005

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Dan Singh (JC-373261P), 28 June 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st June 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Prem Singh (JC-373374X), 01 Aug 2004

Nb Sub Tilak Raj (JC-373518P), 01 Oct 2004

Nb Sub S Nath Mohanty (JC-373519X), 01 Oct 2004

Nb Sub MC Shukla Baidya (JC-373521P), 01 Oct 2004

Nb Sub Parashuram Singh (JC-373522X), 01 Oct 2004

Nb Sub Bhanwar Singh (JC-373524H), 01 Oct 2004

Nb Sub Sadhan Chandra Debnath (JC-373525L), 01 Oct 2004

Nb Sub Yashpal Singh (JC-373526N), 01 Oct 2004

Nb Sub Babu J (JC-373527W), 01 Oct 2004

Nb Sub Rabindra Nath Biswas (JC-373528Y), 01 Oct 2004

Nb Sub Patil Pundalik Rama (JC-373529F), 01 Oct 2004

Nb Sub Sukhbir (JC-373530W), 01 Oct 2004

Nb Sub Prahlad Singh (JC-373532F), 01 Oct 2004

Nb Sub N S Bhojaling (JC-373534M), 01 Oct 2004

Nb Sub Harihar Singh (JC-373538H), 01 Oct 2004

Nb Sub Rajender Kumar (JC-373539L), 01 Oct 2004

Nb Sub S M Patil (JC-373540A), 01 Oct 2004

Nb Sub Madan Lal (JC-373541H), 07 Oct 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hari Ram Dubey (JC-373542L), 01 Oct 2004

Nb Sub Ramesh Singh (JC-373543N), 01 Oct 2004

Nb Sub Emmanuel (JC-373544W), 01 Oct 2004

Nb Sub Ashok Kumar K K (JC-373545Y), 01 Oct 2004

Nb Sub Mehar Suryam Neela (JC-373547K), 01 Oct 2004

Nb Sub Sadhon Singh (JC-373548M), 01 Oct 2004

Nb Sub Inder Sain (JC-373549P), 01 Oct 2004

Nb Sub Subhash Singh (JC-373550K), 27 Oct 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rajender Singh (JC-373552P), 01 Nov 2004

Nb Sub Roop Lal Chaudhary (JC-373553X), 01 Nov 2004

Nb Sub Vijay Singh (JC-373554A), 01 Nov 2004

Nb Sub Major Singh (JC-373555H), 01 Nov 2004

Nb Sub Gurdev Singh (JC-373556L), 01 Nov 2004

Nb Sub Appasaheb Holin (JC-373557N), 01 Nov 2004

Nb Sub Virendra Prasad (JC-373558W), 01 Nov 2004

Nb Sub Dharam Pal (JC-373559Y), 18 Nov 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st Nov 2004 without effect on pay and allowances)

M.M. SINGH  
Under Secy.

## MILITARY NURSING SERVICES

## (PERMANENT COMMISSION)

No. 570, dated 8th November 2005—The President is pleased to make the following promotion with effect from the date(s) mentioned against each name :—

(Lt to Capt)

Miss Sushma R (NR-20427L), 06 Sep 2001  
 Miss D Sheeba (NR-20431N), 06 Sep 2001  
 Miss Nisha N (NR-20432W), 06 Sep 2001  
 Mrs Regina V (NR-20433Y), 06 Sep 2001  
 Mrs Suja V Pillai (NR-20435K), 06 Sep 2001  
 Mrs Mohini (NR-20437P), 06 Sep 2001  
 Miss Sindhumol (NR-20438X), 06 Sep 2001  
 Miss Bindu PG (NR-20439A), 06 Sep 2001  
 Miss Shyni George (NR-20442A), 06 Sep 2001  
 Miss Seema David (NR-20443H), 06 Sep 2001  
 Miss Smitha Eipe (NR-20444L), 06 Sep 2001  
 Miss Rosa Ligi Thomas (NR-20445N), 06 Sep 2001  
 Miss Suma Devi P (NR-20446W), 06 Sep 2001  
 Miss Vanishree J (NR-20447Y), 06 Sep 2001  
 Miss Aswathy I (NR-20449K), 06 Sep 2001  
 Miss Manju George (NR-20450Y), 06 Sep 2001  
 Mrs Minimol KK (NR-20451F), 06 Sep 2001  
 Miss Sunita Sharma (NR-20453M), 06 Sep 2001  
 Miss Sulekha Heldar (NR-20455X), 06 Sep 2001  
 Miss Sreeja S (NR-20456A), 06 Sep 2001  
 Miss Shanti Maya Tamang (NR-20458L), 06 Sep 2001  
 Mrs Bindu K Pankaj (NR-20459N), 06 Sep 2001  
 Mrs Binu S (NR-20460H), 06 Sep 2001  
 Miss Sreepa TS (NR-20461L), 06 Sep 2001  
 Miss Mini P Chacko (NR-20462N), 06 Sep 2001  
 Miss Jaysree BS (NR-20463W), 06 Sep 2001  
 Miss Nalini G (NR-20464Y), 06 Sep 2001  
 Miss Jubaira A (NR-20465F), 06 Sep 2001  
 Miss Manjusha VK (NR-20466K), 06 Sep 2001  
 Mrs Chetha Sharma (NR-20468P), 06 Sep 2001  
 Miss Minimol (NR-20469X), 06 Sep 2001  
 Miss Bindu KP (NR-20470M), 06 Sep 2001  
 Miss Vibha PS (NR-20471P), 06 Sep 2001  
 Miss Sindu Madhavan (NR-20472X), 06 Sep 2001

Miss Kavitha S Kumar (NR-20476N), 06 Sep 2001  
 Miss Reeta Swati Kujur (NR-20477W), 06 Sep 2001  
 Miss Shyni P Skariah (NR-20479F), 06 Sep 2001  
 Miss V Suja (NR-20480W), 06 Sep 2001  
 Miss Ganga CB (NR-20483K), 06 Sep 2001  
 Miss Bindu ME (NR-20485P), 06 Sep 2001  
 Miss Umadevi N (NR-20487A), 06 Sep 2001  
 Miss Resmi S Nair (NR-20488H), 06 Sep 2001  
 Miss Sheeja M (NR-20490A), 06 Sep 2001  
 Miss Lalitha Nair (NR-20491H), 06 Sep 2001  
 Miss Rekha R (NR-20492L), 06 Sep 2001  
 Miss Shibi Rajan (NR-20495Y), 06 Sep 2001  
 Miss Asha Devi KJ (NR-20496F), 06 Sep 2001  
 Miss Blassi T (NR-20497K), 06 Sep 2001  
 Miss Vijaya Lakshmi L (NR-20498M), 06 Sep 2001  
 Miss Indulekha VK (NR-20499P), 06 Sep 2001  
 Miss Sindhu NJ (NR-20503M), 06 Sep 2001  
 Miss Cicilia John (NR-20506A), 06 Sep 2001  
 Miss Asha P (NR-20507H), 06 Sep 2001  
 Miss Charleston AS (NR-20508L), 06 Sep 2001  
 Miss Manju KN (NR-20509N), 06 Sep 2001  
 Miss Anita (NR-20510H), 06 Sep 2001  
 Mrs Bindu Mohan (NR-20512N), 06 Sep 2001  
 Miss Geetha B (NR-20513W), 06 Sep 2001  
 Miss Monika Limbu (NR-20516K), 06 Sep 2001  
 Mrs Rani P (NR-20517M), 06 Sep 2001  
 Mrs Swapna Sadanandan (NR-20518P), 06 Sep 2001  
 Miss Sindhu A (NR-20519X), 06 Sep 2001  
 Miss Shifa SS (NR-20520M), 06 Sep 2001  
 Miss Sreedevi PK (NR-20521P), 06 Sep 2001

USHA SIKDAR  
 Maj Gen., Addl. DG MNS

No. 571, dated 9th November 2005—The President is pleased to make the promotion of the under mention AMC officers with effect from the date mentioned against them :—

## (REGULAR ARMY)

## PERMANENT COMMISSION

Surg Lt to be Surg Lt CDR

K Pradeep Shankar (MS-14144N)(MR-08107)

K)(75743T), AMC, 21 Mar 2005

Narayan S (MS-14184P)(MR-08124K), AMC, 13 Dec 2004

RAJESH KAMRAN  
Brig, Dy DGAFMS (Pers)

No. 572, dated 7th November 2005—The President is pleased to make the following promotions :—

#### TERRITORIAL ARMY

#### TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Capt Damanjit Singh Gill (TA-42010), Infant, 04 Feb 2003

Capt BBS Chandra (TA-42125), Infant, 02 May 2004

Capt MK Hussain (TA-42418), Infant, 10 Feb 2003

Capt Ajay Nehra (TA-42458), Infant, 14 Jan 2005

Capt RN Bhattacharjee (TA-42523), Infant, 11 Feb 2003

SK YAGNIK  
Dir. (G)

No. 573, dated 8th November 2005—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Substantive Col (By Sel)

IC-34097 Kanwaljit Singh Mech Inf, 01 Dec 2000

IC-36772 Kashan Rishi Bhatnagar, Guards, 31 Oct 2004

IC-34431 Sunil Kumar Dhawan, AOC, 31 Oct 2004

V-00354 M S Parmar, RVC, 31 Oct 2004

V-00356 T S Sachdeva RVC, 01 Feb 2005 but seniority from 31 Oct 2004 without effect on pay and pension

V-00357 J B Bakshi, RVC, 11 Mar 2005 but seniority from 31 Oct 2004 without effect on pay and pension

IC-38203 Sanjiv Kumar Argal, Engrs, 31 Oct 2004

IC-37032 Jagit Singh Deol, ASC, 31 Oct 2004

IC-37047 Rakesh Bakshi, AC, 31 Oct 2004

IC-37050 G K Mediratta, Arty, 31 Oct 2004

IC-35255 Kanwar Krishan Badam, AAD, 31 Oct 2004

IC-35287 Satyender Singh Dhinsa, Arty, 31 Oct 2004

IC-35306 A K Pardeshi, Arty, 31 Oct 2004

IC-35408 Chavalum Venkata Ramanaiah, AEC, 31 Oct 2004

IC-37232 Yogendra Kumar Mathur, Arty, 31 Oct 2004

IC-35611 Manjit Singh, Arty, 31 Oct 2004

IC-35784 Gurmeet Singh Baidwan, Inf, 31 Oct 2004

IC-37056 Balraj Singh Grewal, AOC, 31 Oct 2004

IC-37316 Pradeep Singh Mehta, AC, 31 Oct 2004

IC-37317 Arthur Roy Samuel, Mech Inf, 31 Oct 2004

IC-37320 Bishmber Dayal, AC, 31 Oct 2004

IC-37323 Rajinish Kumar Rawat, Inf, 31 Oct 2004

IC-37324 Param Pal Singh Bal, ASC, 31 Oct 2004

IC-37328 Jaspal Singh Pama, Inf, 31 Oct 2004

IC-37331 Narinder Vij, Arty, 31 Oct 2004

IC-37332 Mohan Pandurang Patil, Inf, 31 Oct 2004

IC-37335 Rajinder Singh, Inf, 31 Oct 2004

IC-37338 Harbir Singh Brar, Inf, 31 Oct 2004

IC-37342 Om Prakash Abrol, ASC, 31 Oct 2004

IC-37349 Ravi Jairath, AAD, 31 Oct 2004

IC-37354 Deepak Raina, AOC, 31 Oct 2004

IC-37355 Ranbir Singh, Inf, 31 Oct 2004

IC-37369 Ashok Kumar Ganguly, Inf, 31 Oct 2004

IC-37371 Ashok Kumar, ASC, 31 Oct 2004

IC-37373 Om Prakash Yadav, Arty, 31 Oct 2004

IC-37382 Arun Kumar, Sigs, 31 Oct 2004

IC-37384 Nawal Kapoor, Arty, 31 Oct 2004

IC-37386 Deepak Sapra, Inf, 31 Oct 2004

IC-37388 Mahavir Singh Nigania, Arty, 31 Oct 2004

IC-37389 Virinder Singh Garewal, Int, 31 Oct 2004

IC-37391 Ashok Kumar, ASC, 31 Oct 2004

IC-37395 Mahendra Singh Bika, Arty, 31 Oct 2004

IC-37396 Prabhu Singh Rathore, Jag, 31 Oct 2004

IC-37397 Akhil Dixit, Inf, 31 Oct 2004

IC-37404 Gajender Singh, Inf, 31 Oct 2004

IC-37407 Rajeshwar Singh, Inf, 31 Oct 2004

IC-37411 Ranbir Singh Lathwal, Arty, 31 Oct 2004

IC-37420 Vijay Kumar Yadav, Inf, 31 Oct 2004

IC-37379 Raghunandan Singh Raghav, Inf, 31 Oct 2004

IC-37398 Rajan Ravindran, Inf, 31 Oct 2004

IC-37345 Jitender Pal Singh, AOC, 31 Oct 2004

IC-37794 Jitendra Kumar Narang, Engrs, 31 Oct 2004

IC-37795 Vishwambhar Singh, Engrs, 31 Oct 2004

IC-37796 Rajinder Kumar Mohanty, EME, 31 Oct 2004

IC-35999 Madan Path Rajgopal, AOC, 31 Oct 2004

IC-35904 Sarath Chand, Inf, 31 Oct 2004

IC-35907 Ajay Kumar Prasad, Inf, 31 Oct 2004

IC-35908 Ajay Anand, Engrs, 31 Oct 2004



- IC-35909 Ajay Singh Panwar, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35911 Ranjeet Singh, Guards, 31 Oct 2004
- IC-35912 Sampatrao Pandurang Patil, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35913 Modin Mashakh Nadaf, Engrs, 31 Oct 2004
- IC-35915 Rajeev Tiwari, AC, 31 Oct 2004
- IC-35916 Hersha Nagar, Arty, 31 Oct 2004
- IC-35917 Ashok Kumar Singh, AAD, 31 Oct 2004
- IC-35919 Amarjeet Singh, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35921 Pradeep Kumar Dogra, AAD, 31 Oct 2004
- IC-35922 Vijay Bakshi, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35923 Jagbir Singh Cheema, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35924 Rajesh Dua, EME, 31 Oct 2004
- IC-35925 Sanjay Agarwal, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35928 Gopal Krishna Srivastava, Arty, 31 Oct 2004
- IC-35929 Vinod Vashisht, Arty, 31 Oct 2004
- IC-35931 Arun Kumar Sharma, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35932 Rakshit Sukesh, Arty, 31 Oct 2004
- IC-35933 Arun Dhar, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35934 Jyoti Swaroop Singh, AAD, 31 Oct 2004
- IC-35936 Arun Marya, AC, 31 Oct 2004
- IC-35940 Jagdish Kumar, ASC, 31 Oct 2004
- IC-35941 Prakash Narayan Tripathi, AAD, 31 Oct 2004
- IC-35942 Balraj Singh Rathee, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35944 Prem Sagar, Arty, 31 Oct 2004
- IC-35947 Nitin Kumar Misra, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35952 Raman Pichai, Arty, 31 Oct 2004
- IC-35953 Avinash Laxaman Chavan, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35954 Sharad Khattar, EME, 31 Oct 2004
- IC-35955 Amrik Singh, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35956 Ajmer Singh Sangwan, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35960 Kumar Patyal Sharvan, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35962 Lalit Kumar Pandey, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35965 Rajendra Ramrao Nimbhorkar, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35969 Ramesh Chand Katoch, AAD, 31 Oct 2004
- IC-35970 Aiylath Kutteri Jayachandran, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35971 Nil Ratan Mitra, Arty, 31 Oct 2004
- IC-35972 Shiv Dayal Mangawa, A/AVN, 31 Oct 2004
- IC-35974 Sanjay Raghunath Phatak, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35976 Pramod Ramachandra Deshpande, AAD, 31 Oct 2004
- IC-35978 Amarjit Singh, Sigs, 31 Oct 2004
- IC-35979 Jaswinder Singh Suraj, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35982 Satish B Chavan, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35983 Anurag Gupta, Mech Inf, 31 Oct 2004
- IC-35984 Ashish Kumar Ghosh, Arty, 31 Oct 2004
- IC-35986 Bhaskaran Vijay Kumar Nair, AAD, 31 Oct 2004
- IC-35987 Dewan Rabindranath Soni, AC, 31 Oct 2004
- IC-35989 Shiv Pratap Singh Kunwar, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35992 Amarjit Singh Chitchot, Inf, 31 Oct 2004
- IC-35996 Hardit Singh, Arty, 31 Oct 2004
- IC-35998 Harsha Kakar, Arty, 31 Oct 2004
- IC-38001 Kizhakavil Kotiath Arun, Inf, 31 Oct 2004
- IC-38006 Praful Poka, AC, 31 Oct 2004
- IC-38007 Assadullah Khan, Inf, 31 Oct 2004
- IC-38011 Pankaj Kumar Srivastava, Arty, 31 Oct 2004
- IC-38012 Ravinder Singh, ASC, 31 Oct 2004
- IC-38013 Vinod Kumar Pillai, Guards, 31 Oct 2004
- IC-38016 Hemant Kumar Ahluwalia, Inf, 31 Oct 2004
- IC-38018 Venugopal Sunil, Inf, 31 Oct 2004
- IC-38019 Chellam Rama Chandran, AOC, 31 Oct 2004
- IC-38020 Rakesh Chhibber, Inf, 31 Oct 2004
- IC-38024 Laiphrakpam Nishi Kanta Singh, Int, 31 Oct 2004
- IC-38026 Vineet Krishan Tewari, AC, 31 Oct 2004
- IC-38027 Deveshwar Prasad Sinha, Inf, 31 Oct 2004
- IC-38028 Sunil Bhandari, Arty, 31 Oct 2004
- IC-38032 Ashutosh Dattatray Nargolkar, Arty, 31 Oct 2004
- IC-38043 Chandra Shekhar, Inf, 31 Oct 2004
- ✓ IC-38044 Pankaj Sachdeva, Mech Inf, 31 Oct 2004
- IC-38045 Pradeep Saini, A/AVN, 31 Oct 2004
- IC-38046 Satinder Jit Singh, Inf, 31 Oct 2004
- IC-38049 Anil Malik, Inf, 31 Oct 2004
- IC-38060 Bhanu Kumar Pande, Arty, 31 Oct 2004
- IC-38063 Ashok Kumar Nair, Inf, 31 Oct 2004
- IC-38071 Sanjiv Kumar Sharma, AOC, 31 Oct 2004
- IC-38075 Randhir Singh Yadava, Arty, 31 Oct 2004
- IC-38089 M D Esrarul Haque, Inf, 31 Oct 2004
- ✓ IC-38090 Jitendra Singh Manral, Inf, 31 Oct 2004
- IC-38093 Adolf Sebastian Pinto, Inf, 31 Oct 2004
- IC-38096 Ram Gopal Nallinthal, Arty, 31 Oct 2004
- IC-38097 Ajay Kumar Pant, AC, 31 Oct 2004
- IC-38105 Madhu Sudan Kukshal, Inf, 31 Oct 2004
- IC-38108 Jaswinder Singh Sahi, Mech Inf, 31 Oct 2004
- IC-38118 Guru Saday Batabyal, Inf, 31 Oct 2004
- IC-38122 Nireesh Rathore, Inf, 31 Oct 2004

IC-38131 Narendra Kumar Yadav, ASC, 31 Oct 2004	IC-38370 Deepak Malhotra, Inf, 31 Oct 2004
IC-38135 G Subramanian, AAD, 31 Oct 2004	IC-38373 Lalit Mohan Chamola, Inf, 31 Oct 2004
IC-38154 M Srikumar Nair Inf, 31 Oct 2004	IC-38377 Pankaj Sinha, Inf, 31 Oct 2004
IC-38205 Sunny Kurian Keezhoor, AEC, 31 Oct 2004	IC-38381 Ranu Singh Rathore, AOC, 31 Oct 2004
IC-38208 Pradeep Paul, AEC, 31 Oct 2004	IC-38382 Parikshit Kumar Bishnoi, AAD, 31 Oct 2004
IC-38227 Arun Sarin, AEC, 31 Oct 2004	IC-38386 Mam Raj Singh, Inf, 31 Oct 2004
IC-38231 Sunil Chandra, AEC, 31 Oct 2004	IC-38388 Rajesh Tyagi, Engrs, 31 Oct 2004
IC-39848 Bhushan Bibhuti, EME, 31 Oct 2004	IC-38391 Ajay Kumar, Inf, 31 Oct 2004
IC-39854 Umesh Kumar Singh, EME, 31 Oct 2004	IC-38429 Sajjan Singh Shekhawat, Inf, 31 Oct 2004
IC-39853 Raj Kumar Sharma, EME, 31 Oct 2004	IC-38434 Deepesh Bahuguna, Inf, 31 Oct 2004
IC-39798 Sudhar Sud, Engrs, 31 Oct 2004	IC-38435 Dilip Chintamani Koti Bhaskar, Arty, 31 Oct 2004
IC-39799 Dhananjay Vinayak Vidwans, EME, 31 Oct 2004	IC-38437 Ravi Veer Batra, Arty, 31 Oct 2004
IC-39801 K S Ghuman, Engrs, 31 Oct 2004	IC-38439 Samir Bisaria, Inf, 31 Oct 2004
IC-39803 Rajesh Kumar Patyal, Engrs, 31 Oct 2004	IC-38440 Sagar Singh, Inf, 31 Oct 2004
IC-39808 Gurdip Singh, Engrs, 31 Oct 2004	IC-38441 Diwakar Dogra, Inf, 31 Oct 2004
IC-39810 Saurabh Sanyal, Engrs, 31 Oct 2004	IC-38448 Jai Kumar Nair, Arty, 31 Oct 2004
IC-39816 Hardeep Singh Dhanny, Engrs, 31 Oct 2004	IC-38461 Ravi Prakash Srivastava, Inf, 31 Oct 2004
IC-39818 Suresh Sharma, Engrs, 31 Oct 2004	IC-38462 Vimal Kumar, Arty, 31 Oct 2004
IC-39825 Rejendra Kumar, Engrs, 31 Oct 2004	IC-38511 Sachchida Nand Prasad Shahi, Arty, 31 Oct 2004
IC-39826 Trilochan Singh Sidana, Engrs, 31 Oct 2004	IC-38530 Sainani Vinod Thanwerdas, Arty, 31 Oct 2004
IC-39829 Prakash Jha, EME, 31 Oct 2004	IC-38543 Anil Kumar Thapa, Inf, 31 Oct 2004
IC-39838 Prakash Naryana Lakhe, EME, 31 Oct 2004	IC-38265 Dalip Kumar Pradhan, Inf, 31 Oct 2004
IC-39843 Ashok Kumar Bhutani, Engrs, 31 Oct 2004	IC-38266 Surinder Singh, Guards, 31 Oct 2004
IC-39846 Ashish Ranjan Prasad, Sigs, 31 Oct 2004	IC-38268 Rajendra Singh Yadav, Inf, 31 Oct 2004
IC-35943 Shekar Naidu, Arty, 31 Oct 2004	IC-38269 Karan Singh Rathore, AC, 31 Oct 2004
IC-37472 Gurdeep Singh, AOC, 31 Oct 2004	IC-38270 Kulwant Kumar Sharma, AAD, 31 Oct 2004
IC-37476 Bharat Bhushan, Arty, 31 Oct 2004	IC-38271 Vijay Pande, Mech Inf, 31 Oct 2004
IC-37480 Ravi Mohan Mandla, AOC, 31 Oct 2004	IC-38272 Roop Chand Thakur, EME, 31 Oct 2004
IC-37492 Dinakaran Ganapathy, Arty, 31 Oct 2004	IC-38274 Moni Chandi, Engrs, 31 Oct 2004
IC-37463 Suresh Kumar Yadav, Guards, 31 Oct 2004	IC-38277 Harbinder Singh Gill, AC, 31 Oct 2004
IC-37466 Jagat Singh Mehta, Inf, 31 Oct 2004	IC-38280 Indupuru Narayana, Arty, 31 Oct 2004
✓ IC-37473 Sanjeev Sood, Inf, 31 Oct 2004	IC-38281 Sujan Singh, Arty, 31 Oct 2004
IC-37485 Anupinder Singh Jassar, Inf, 31 Oct 2004	IC-38282 Deepak Dhanda, Arty, 31 Oct 2004
IC-37490 Ashwini Kumar Sharma, Inf, 31 Oct 2004	IC-38283 Jatinder Singh Sahi, AC, 31 Oct 2004
IC-37499 Harbinder Singh, Inf, 31 Oct 2004	IC-38285 Shakti Prakash Sharma, AOC, 31 Oct 2004
IC-37505 Vijay Kumar Pathyil, Inf, 31 Oct 2004	IC-38286 Dinesh Kumar Badola, Inf, 31 Oct 2004
IC-37511 Raghu Nathan Nambiar, Arty, 31 Oct 2004	IC-38287 Bal Krishan Yadav, Inf, 31 Oct 2004
IC-37531 Alok Rai Mathur, Arty, 31 Oct 2004	IC-38288 Samarjeet Singh Sehgal, Arty, 31 Oct 2004
IC-38363 Yadvinder Singh Mahiwal, Inf, 31 Oct 2004	

- IC-38289 Sudhir Singh Jakhar, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38293 Onkar Singh Yadav, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38297 Vineet Mohan, AAD, 31 Oct 2004  
 IC-38300 Vivek Pratap Singh, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38304 Man Mohan Singh Bharaj, Engrs, 31 Oct 2004  
 IC-38305 Karun Kumar Sinha, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38306 Sanjeev Khanna, EME, 31 Oct 2004  
 IC-38308 Vijay Kumar Sehgal, Arty, 31 Oct 2004  
 IC-38309 Harminder Singh, Sigs, 31 Oct 2004  
 IC-38311 Satish Kumar Dua, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38312 Bani Singh, AOC, 31 Oct 2004  
 IC-38316 Naresh Chander Badhani, Arty, 31 Oct 2004  
 IC-38317 Sanjiv Mehra, Mech Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38318 Prabhjit Singh Thind, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38322 Jayant R Pendse, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38325 Rajeev Sharma, Mech Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38329 Sunil Chandra Chamoli, Arty, 31 Oct 2004  
 IC-38331 Puneet Tewari, AC, 31 Oct 2004  
 IC-38333 Mukund Mohan Sharma, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38339 Rakesh Kumar Kaushish, Sigs, 31 Oct 2004  
 IC-38340 Sankar Prasad Sarma, Arty, 31 Oct 2004  
 IC-38341 Sangappa Gurappa Balutagi, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38342 R P S Bhadauria, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38344 Narra Ramma Koteswara Rao, Sigs, 31 Oct 2004  
 IC-38347 Palanimuthu Jayaram, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38350 Ashwini Kumar Sharma, AC, 31 Oct 2004  
 IC-38353 Dinesh Kumar Shah, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38357 Rajinder Singh, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38359 Anupam Basu, EME, 31 Oct 2004  
 IC-38361 Rabindranath Chatterjee, Arty, 31 Oct 2004  
 IC-38372 Ramesh Kumar Janghu, Mech Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38397 Naresh Kumar Mehta, AOC, 31 Oct 2004  
 IC-38402 Bhawani Singh, AC, 31 Oct 2004  
 IC-38403 Shokin Chauhan, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38405 Dileep Narain Singh, Arty, 31 Oct 2004  
 IC-38407 Jaideep Singh, AC, 31 Oct 2004  
 IC-38408 Vivek Sehgal, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38413 Deepak Namdeorao Khadse, Arty, 31 Oct 2004  
 IC-38431 Ramesh Kumar Malik, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38473 Jagdish Chand, AOC, 31 Oct 2004  
 IC-38475 Chandra Pal Singh, Arty, 31 Oct 2004  
 IC-38479 Ashok Kumar Choudhary, Arty, 31 Oct 2004  
 IC-38487 Pampapati Doddappa Hallur, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38491 Bal Govinda Pathak, Arty, 31 Oct 2004  
 IC-38494 Anil Khosla, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38496 Kamal Kumar Chouhan, Engrs, 31 Oct 2004  
 IC-38503 Arun Bhatnagar, Arty, 31 Oct 2004  
 IC-38506 Basant Narayan Singh, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38512 Charles Mervyn Rodrigues, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38516 Subhash Vasant Chaudhari, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38528 Kapil Kumar Aggarwal, EME, 31 Oct 2004  
 IC-38558 Sarat Chandra Mishra, Arty, 31 Oct 2004  
 IC-38560 Balindar Singh Chowdhary, AOC, 31 Oct 2004  
 IC-38562 Deepak Saxena, Arty, 31 Oct 2004  
 IC-38580 Ajeet Bajpai, Sigs, 31 Oct 2004  
 IC-38585 Vivek Ananthakrishnan, Inf, 31 Oct 2004  
 IC-38588 Sudhir Chandra Mishra, AOC, 31 Oct 2004  
 IC-38590 Sanjiv Varma, AC, 31 Oct 2004  
 IC-38597 Shur Bir Singh Negi, AEC, 31 Oct 2004  
 IC-38601 John Ellis, AEC, 31 Oct 2004  
 IC-38623 Ajit Singh Rathore, MF, 31 Oct 2004  
 IC-38422 S R Maranabasari, Arty, 31 Oct 2004  
 IC-38303 Gopinath Menon, AAD, 31 Oct 2004  
 IC-40263 K J Thankachan, Sigs, 31 Oct 2004  
 IC-40272 Vishwa Mohan Prasad, EME, 31 Oct 2004  
 IC-40273 Randhir Singh, Engrs, 31 Oct 2004  
 IC-40277 Susant Kumar Mishra, EME, 31 Oct 2004  
 IC-37863 Sunil Vinayak Gaopande, Engrs, 31 Oct 2004
- RVC OFFICERS  
 PERMANENT COMMISSION  
 Majors to be Substantive Lt Col
- V-398 Anil Kumar, RVC, 10 Aug 2004  
 V-400 Dushyant Bali, RVC, 10 Aug 2004  
 V-401 S D Sharma, RVC, 10 Aug 2004  
 V-402 Rajendra Dhumal Vinayak, RVC, 10 Aug 2004  
 V-403 Mohan Rajiv Dang, RVC, 10 Aug 2004  
 V-404 Vivek Chauhan, RVC, 10 Aug 2004  
 V-406 Abhai Singh, RVC, 10 Aug 2004

V-407 P B Deshmukh, RVC, 16 Nov 2004

V-408 C S Ojha, RVC, 16 Nov 2004

V-409 C M Desai, RVC, 16 Nov 2004

V-410 S K Dixit, RVC, 16 Nov 2004

V-411 P K Prusty, RVC, 16 Nov 2004

V-416 Rajan Thapar, RVC, 10 Aug 2004

V-418 D S Grewal, RVC, 10 Aug 2004

V-420 D V Nehra, RVC, 10 Aug 2004

V-422 P K Singh, RVC, 16 Nov 2004

V-424 Arun Sharma, RVC, 16 Nov 2004

V-426 Narendra Singh, RVC, 10 Aug 2004

V-429 S V S Sudhakar, RVC, 16 Nov 2004

Majors to be Substantive Lt Col (By Selection)

IC-38661K S P S Puri, AOC, 16 Dec 2004 but seniority from 31.12.2002

Note : The officer is already in the paid acting rank of Lt Col therefore this will not affect his pay and allowances but only for the purpose of fixing his seniority for the next select rank of Col (By Selection).

Majors to be Substantive Lt Col (Time Scale)

IC-41953 L S Singh, Inf, 9 Jun 2004

IC-03163 Ajit Singh, SL (RO), 20 Jul 2004

IC-45007 S P S Raheja, Inf, 26 Apr 2004

IC-41179 C S Saluuthe, Engrs, 18 Jun 2003

IC-38584 Susheel Chandra, Inf, 14 Jan 2000

Major to be Substantive Lt Col (By Selection)  
Territorial Army (Non-Departmental)

TA-41592 N K Ghai, TA (Non-Deptt), 21 Apr 1996

✓ TA-41743 N K Kotwal, TA (Non-Deptt), 03 Jun 2004

TA-41749 J V Prasad, TA (Non-Deptt), 13 Jun 2001

Lt Col to be Substantive Col (By Selection)  
Territorial Army (Non-Departmental)

TA-42182 S S Sawant, TA (Non-Deptt), 01 Feb 2002

TA-41599 NK V Narayanan, TA (Non-Deptt), 03 Oct 2001

TA-41687 A K Roy, TA (Non-Deptt), 24 Dec 2001

TA-41708 S K Pareek, TA (Non-Deptt), 25 Dec 2003

AJAY GOEL  
Dy Director  
MS-8A

pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers :—

IC-19387, Brig, Jaswal S K, Engrs (GC), 01 May 2003

IC-19561, Brig, H V Bhalla, Inf, 21 May 2003

IC-23032, Brig, Malhotra PS, AOC, 22 May 2003

IC-28332, Brig, Sharma R S, AOC, 01 Dec 2003 with seniority from 01 Jun 2003 without effect on pay and pension.

IC-26838, Brig, Yadav Satyevir, AVSM, Kumaon, 01 Jul 2003

IC-28192, Brig, A K Singh, AVSM, NM, VSM, Engrs, 08 Nov 2003 with seniority from 02 Jul 2003 without effect on pay and pension.

IC-23266, Brig, Gautam Dutt, Engrs, 01 Jan 2004 with seniority from 01 Aug 2003 without effect on pay and pension

IC-23274, Brig, Singh R, VSM, PARA, 02 Aug 2003

IC-23275, Brig, Bapat UKN VSM, Kumaon, 03 Aug 2003

IC-23376, Brig, Ashok Khosla, Sigs, 01 Jan 2004 with seniority from 05 Aug 2003 without effect on pay and pension

IC-23279, Brig, A K Bedsi, Engrs, 20 Jan 2004 with seniority from 01 Sep 2003 without effect on pay and pension.

IC-23288, Brig, RKS Shivrain, AVSM, Inf, 02 Sep 2003

IC-23291, Brig, Mohanty JK, SM, Dogra, 01 Dec 2003 with seniority from 03 Sep 2003 without effect on pay and pension.

IC-23292, Brig, Grewal DS, Mech Inf, 01 Dec 2003 with seniority from 04 Sep 2003 without effect on pay and pension.

IC-23295, Brig, Lidder JS, UYSM, Gren, 01 Dec 2003 with seniority from 05 Sep 2003 without effect on pay and pension.

IC-2302, Brig, Sapru TK, YSM, 4 Gr, 01 Dec 2003 with seniority from 01 Oct 2003 without effect on pay and pension

IC-23303, Brig, Bhandari RPS, 12 AR, 02 Oct 2003

IC-23322, Brig, R K Kakar, YSM, Inf, 03 Oct 2003

IC-23334, Brig, U K Jha, EME, 04 Oct 2003

IC-23353, Brig, B C Dhoundial, Sigs, 05 Oct 2003

IC-23362, Brig, B P S Mander, ASC, 06 Oct 2003

IC-23375, Brig, K P D Samanta, Arty, 07 Oct 2003

IC-23419, Brig, A S Bakshi, Sigs, 05 Mar 2004 with seniority from 08 Oct 2003 without effect on pay and pension

IC-23431, Brig, B D Wadhwa, EME, 01 Dec 2003 with seniority from 09 Oct 2003 without effect on pay and pension

IC-23484, Brig, N B Singh, Inf, 01 Nov 2003

IC-23486, Brig, H S Sehgal, Arty, 02 Nov 2003

IC-28423, Brig, Dhaka SS, SM, AOC, 23 Dec 2003 with seniority from 03 Nov 2003 without effect on pay and pension

IC-28531, Brig, Kaul TK, VSM, Kumaon, 04 Nov 2003

IC-28605, Brig, K S Sivakumar, VSM, Inf, 01 Dec 2003

IC-25751, Brig, N L Pandey, Engrs, 18 Oct 2004 with seniority from 02 Dec 2003 without effect on pay and pension

IC-25757, Brig, B Thambiah, Engrs, 15 Mar 2004 with seniority from 03 Dec 2003 without effect on pay and pension

IC-23665, Brig, A K Nanda, Engrs, 01 Jul 2004 with seniority from 04 Dec 2003 without effect on pay and pension

IC-23678, Brig, A B Sayyad, ML I, 21 Dec 2003

IC-23688, Brig, K K Kohli, VSM, Arty (GC), 01 Jan 2004

IC-23689, Brig, Brar N S, Arty (GC), 02 Jan 2004

IC-32703, Brig, K S Venugopal, EME, 03 Jan 2004

IC-23718, Brig, Malhan R P S, YSM, SM, Para, 04 Jan 2004

IC-23737, Brig, Harwant Krishan, Mech Inf, 11 Apr 2004 with seniority from 05.01.2004 without effect on pay and pension

IC-23744, Brig, Vikram Madan, VSM, Inf, 06 Jan 2004

IC-23756, Brig, R S Gill, AC, AC, 07 Jan 2004

IC-23759, Brig, Om Prakash, Sigs, 26 Aug 2004 with seniority from 08 Jan 2004 without effect on pay and pension

IC-23770, Brig, N S Sapre, Arty, 09 Jan 2004

IC-23777, Brig, A Parmar, Inf, 20 Jan 2004

IC-23799, Brig, V K Jain, Arty, 02 Feb 2004

IC-23801, Brig, A K Lamba, Arty, 03 Feb 2004

IC-23812, Brig, P S Yadav, Inf, 04 Feb 2004

IC-23813, Brig, B J Gupta, VSM, Inf, 01 Mar 2004

IC-23814, Brig, R K Chhabra, 4 GR, 01 Apr 2004

IC-23872, Brig, P P Rajagopal, VSM, Para, 02 Apr 2004

IC-23928, Brig, Rajinder Singh, SM, VSM, Inf, 16 Apr 2004

IC-23978, Brig, Nilendra Kumar, Jag, 01 May 2004

IC-24006, Brig, P C Katoch, UYSM, SC, Para, 02 May 2004

N MARIAPPAN  
Jt Director/MS (X)

KARYALAYA MAHA NIDESHAK SASHAstra SENA

# CHIKITSA SEWA/DG-3D

No. 575, dated 9th November 2005—Consequent to Cadre Restructuring of Family Welfare Doctors and issuance of Promotin Order vide letter No. 35273/ACP/DGAFMS/DG-3D dated 06 April 2005 and 15 July 2005, the following Family Welfare Doctors have been promoted to the grade of Senior Medical Officer in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- w.e.f. the date as shown against their names :—

Sl. No.	Name	Promoted as	Date of Promotion
1.	Dr. (Mrs.) Rita Pramanik	Senior Medical Officer	26.04.2001
2.	Dr. (Mrs.) Ritto Bhalla	Senior Medical Officer	01.09.2005
3.	Dr. (Mrs.) P. Shailendra	Senior Medical Officer	15.07.2005

A N SINHA  
Dy Director/DG-3D

No. 576, dated 8th November 2005—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION Lt Col (TS) to Lt Col

IC-37880 Rajinder Singh Mehta, Inf

IC-40059 S S Bajwa, Inf

IC-41676 Anup Thapa, Inf

IC-41308 Koneru Venkata Raman, Arty

—16 December 2004

## Maj to Lt Col

IC-42871 Raj Vijay Rohlania, Int

IC-48620 Ashim Kumar Nath, AOC

IC-49596 Saju Mathew, ASC

IC-50555 Praveen Deo, ASC

IC-44539 D Arul Barbas Udaya Kumar, Arty

IC-44554 S Chadah, Inf

IC-44810 M M S Rekhi, Inf

IC-44872 K K Mishra, Engrs

IC-45798 V S Sankhyan, Inf

IC-45806 Dalvi Sangram Narendra, Inf

IC-47221 G Mathialagan, Arty

IC-47364 Manish Kapoor, Engrs

IC-47470 P R S Sirohi, AC

IC-46319 Rajeev Puri, Inf

IC-46380 K Venugopal, Inf	IC-46889 Sukhmeet Singh, Arty
IC-48514 Rajdeep Singh Manaise, AC	IC-50333 Manish Sarin, Inf
IC-48527 Shreya Nitin Mehta, Arty	IC-50374 Vivek Mathur, Engrs
IC-48607 Bhattacharya Subhajit, Arty	IC-50465 Vaidya Nitin Vilas, Sigs
IC-48732 Harish Khangarot, Inf	IC-50499 Supreet Singh Gill, Arty
IC-48790 Harbinder Singh Sandhu, Inf	IC-50587 Gurpreet Singh, Inf
IC-48994 Brahma Prakash Sharma, Arty	IC-50656 J S Prakash, Engrs
IC-49047 Suneet Vir Singh, Inf	IC-50664 Harpal Singh, Engrs
IC-49059 Rajneesh Singh, Inf	IC-37377 B S Dhatla, Inf
IC-49115 Bhaskar Singh Bisht, Inf	IC-38354 Rohit A S W, Inf
IC-49180 Tarun Kumar Chopra, Inf	IC-38436 Jotinder Pal, Inf
IC-49274 Alok Chandra, Inf	IC-39397 Ram Babu Paleti, ASC
IC-49310 Sanjay Khanna, Inf	IC-41047 K K Bardhan, Engrs
IC-49383 Vijay Chaudhary, EME	IC-41049 L S Patwal, Sigs
IC-46431 Suresh Adhikari, Engrs, EME	IC-41050 Rajendera Singh, Sigs
IC-46466 Lallan Kumar G Singh, Engrs	IC-41051 C P Mishra, Sigs
IC-42824 P V Vadavadgi, Sigs	IC-41053 J P Sharma, Sigs
IC-43375 Ramchandra Maruti Kamble, Arty	IC-41056 N K Sharma, Engrs
IC-43435 L Padhi, Engrs	IC-41057 R P Shukla, Sigs
IC-43255 Amitav Nath, Inf	IC-41059 Rajvir Singh, EME
IC-45450 Jasbir Gurnam Singh Khokkar, EME	IC-41060 G G Mathews, Sigs
IC-44854 M Maya Mayan Nair, EME	IC-41061 P V Ramakrishna, Engrs
IC-44858 Amik Garg, EME	IC-47747 Roopak Sharma, ASC
IC-48116 Gursatinder Singh Sabharwal, EME	IC-44593 Ramesh Kumar, ASC
IC-48242 Ravi Deep Singh, EME	IC-47753 Sukhminder Pal Singh Parhar, Inf
IC-48392 Mahendra Prasad, EME	IC-44066 K Sanatan, AC
IC-47619 M K Madhu Mohan, EME	IC-44215 Manoj Kumar Sachan, Arty
IC-49619 Gulshan Chawla, EME	IC-45703 Sanjeev Sabharwal, AC
IC-49655 Sanjiv Kumar Sharma, EME	IC-40558 N K Harinarayanan, Inf
IC-49894 Anil Luthra, EME	IC-40960 A K Tyagi, Inf
IC-49989 P J Singh, EME	IC-41531 Binod Kumar Jha, Inf
IC-50376 Birender Singh Rathee, EME	IC-42431 P P Tiwari, Inf
IC-44983 Rajiv Sood, Engrs	IC-39754 Himmat Singh, Mech Inf
IC-48479 Rupinder Jit Singh, Sigs	IC-42382 Sanjeev Prashar, Mech Inf
IC-49388 R Mohan Krishan Nair, Engrs	IC-39602 R M Gaur, Inf
IC-45073 Ravi Shankar M, Arty	IC-42253 T K Sasidharan, Engrs
IC-44220 Jaison K Jose, Inf	IC-37814 Pramod Singh, AOC
IC-45613 G Pramod Kumar, Inf	IC-46847 Jasbir Singh, AC
IC-47004 P S Shekhawat, Inf	IC-46848 Vikram Singh, ASC

IC-46849 Himanshu Rai, AC	IC-46893 N K Bhardwaj, AOC
IC-46850 Sanjay Kumar, EME	IC-46894 Sanjeev Pathania, AC
IC-46851 Atul Pannu, AOC	IC-46895 Rameshwar Gupta, AOC
IC-46852 Jitendra Singh Rawat, AOC	IC-46896 Jeetender Singh, Arty
IC-46854 Hemant Parmar, ASC	IC-46897 Sunil Bhadur Sinha, AC
IC-46855 Satish Kumar Tiwari, ASC	IC-46899 Satish S Kekre, ADA
IC-46856 Manoj Puthan Veettil, Arty	IC-46900 Puneet Naithani, AC
IC-46857 Uday Prakash Singh Minhas, Arty	IC-46901 A K Mishra, AOC
IC-46858 Praphull Singh, Arty	IC-46902 Vikram Singh Pathania, ADA
IC-46859 Adarsh K Butail, Inf	IC-46903 Novjot Kang, Arty
IC-46860 Sandeep Kapur, AC	IC-46904 Hari Prasad, Inf
IC-46862 Bhupinder Singh Shahi, Inf	IC-46906 Manjeet Singh Dhadda, Arty
IC-46863 Dalip Singh Thakur, Inf	IC-46907 Rajdeep Thapa, ASC
IC-46865 Narendra Singh, Inf	IC-46908 Othra Abraham Oonnittan, EME
IC-46866 Kamal Kant Upreti, Arty	IC-46909 V K Yadav, ASC
IC-46867 Robin Chhetri, Inf	IC-46910 Sidharatha Rajguru, Int
IC-46868 Rajeev Bakhshi, Inf	IC-50272 Pawan Dutt, Engrs
IC-46869 Pradeep Kumar, Arty	IC-50273 Sandeep Singh Rawat, AC
IC-46871 Rajesh Sethi, ASC	IC-50274 P Sajan Moideen, ADA
IC-46872 Amar Nath, AOC	IC-50275 Vikram Singh Chauhan, Inf
IC-46873 Baljinder Singh Goraya, ASC	IC-50276 Kuljeet Singh, Inf
IC-46874 Inder Pal Singh Sethi, AOC	IC-50277 Shalabh Gupta, Engrs
IC-46875 Hemant Dube, ASC	IC-50279 Dharm Raj Rai, Inf
IC-46876 Prasana Shrikhande, AOC	IC-50281 G Shankar, Engrs
IC-46877 Zia Masood Anwer, Arty	IC-50282 Amit Khokhran, Arty
IC-46878 Anup Kumar Singh Rana, Arty	IC-50283 Shamsher Singh, Inf
IC-46879 Sanjay Nath Shah Deo, AC	IC-50284 Aditya Vikram Singh Rathee, Inf
IC-46880 Manish Jaitly, AC	IC-50286 Vijay Pal Singh Dahiya, AVN
IC-46881 Ajay Singh Chauhan, Arty	IC-50287 Kulbir Singh Sanewal, AC
IC-46882 Rajnish Mehta, ASC	IC-50288 Sushil Kumar, EME
IC-46883 Rajesh Singh, Arty	IC-50289 Gurjeet Singh Sandhu, Inf
IC-46884 Priya Darshan Bahuguna, AOC	IC-50290 TJ Ajith Kumar, Inf
IC-46885 Arun Bhanot, AC	IC-50291 Pradeep Kumar, Mech Inf
IC-46886 B Venkata Ramana, ASC	IC-50292 Rajesh Singh, Engrs
IC-46887 Ravish Bhardwaj, Arty	IC-50293 Dan Singh Visht, AOC
IC-46888 Jagraj Singh, AC	IC-50294 Vijayavithala K Gudi, Sig
IC-46890 Sudip Mitra, Arty	IC-50295 Ranbir Singh Lamba, Arty
IC-46891 M Sanjay Ravindernath, Inf	IC-50296 Sandeep Sital, Inf
IC-46892 S Goswami, ASC	IC-50297 Puneet Kapoor, EME

IC-50298 Pankaj Fotedar, Sig	IC-50342 M Muruganantham, Arty
IC-50299 Anil Kumar Mor, Inf	IC-50343 Adesh Kaushik, AC
IC-50300 Vinod Kumar Kalra, AOC	IC-50344 Gautam Paintal, ASC
IC-50301 Navdeep Brar, Arty	IC-50345 Mohit Nangia, Engrs
IC-50302 Vikas Kumar, EME	IC-50346 Sanjeev Kumar Gupta, Inf
IC-50303 Maneesh Chugh, Sig	IC-50347 Vijay Kumar Gurung, Inf
IC-50304 Ranjan Malik, Inf	IC-50348 Sunil Chauhan, ADA
IC-50305 Ravi Navet, Engrs	IC-50349 Jose Varghese, EME
IC-50306 Arvind Chauhan, Inf	IC-50350 Harinder Singh Sidhu, Inf
IC-50307 Mohit Mahendroo, ASC	IC-50351 Ajay Feroze Shah, Inf
IC-50308 Amarjot S Mangat, Sig	IC-50352 Karuman Suleman Raja Kumar, Arty
IC-50310 Ajaya Nand Khanduri, EME	IC-50355 Santha Kumaran PA, Inf
IC-50311 Paramjyot Singh Patheja, AVN	IC-50356 Rajesh Krishan, AC
IC-50312 Gurvinder Singh, ADA	IC-50358 Ajay Soni, ADA
IC-50313 Mohit Trivedi, Inf	IC-50359 Anil Kajuria, Sig
IC-50314 Karnail Singh, Arty	IC-50360 Paramvir Singh, AOC
IC-50315 Dependra Manrai, Inf	IC-50361 Vijay Kumar Sharma, EME
IC-50316 Gundam Venkata Sesh Reddy, Arty	IC-50362 Santosh Kumar Jayaswal, Mech Inf
IC-50317 Mahendra Singh Payal, Sig	IC-50363 J Sangu Sakkaram, Engrs
IC-50318 Rajesh Sihag, EME	IC-50364 Naven Rathi, Arty
IC-50319 Shiva Kumar B Sasalatti, Inf	IC-50365 Shailendra Shreedhar Karhade, Sig
IC-50321 Pratap Singh Ranawat, AC	IC-50366 Anil Pathak, Arty
IC-50322 Ram Chandra Yaadav, Int	IC-50367 Thangjam Tikendra Singh, Inf
IC-50323 Govind Singh Tanwar, Inf	IC-50368 Upendra Singh Kandil, Arty
IC-50324 S Sooraj, ASC	IC-50369 Saish Sudhakar Shete, Inf
IC-50325 Raghuvir Singh Bhaskar, ASC	IC-50370 Vinod Kumar Bangarwa, Inf
IC-50326 Saurabh Sinha, AOC	IC-50371 Sajjan Singh Nehra, Inf
IC-50327 Rai Singh Gujar, Inf	IC-50372 Gurdeep Singh Gill, ASC
IC-50328 Amish Chadha, Inf	IC-50373 Sandeep Bhardwaj, ASC
IC-50329 Prabhjot Singh Bhatti, Arty	IC-50375 Arun Kumar Gautam, Inf
IC-50331 Veer Mehta, AOC	IC-50377 P Kalai Mohan, EME
IC-50332 Ranjay George, Mech Inf	IC-50378 PG Suresh Kumar, Arty
IC-50334 Jaspal Singh Madan, EME	IC-50379 Sanjeev Kumar, Inf
IC-50336 Satyamurti, AOC	IC-50380 Neeraj Punjkar, EME
IC-50337 Tarun Agarwal, Arty	IC-50381 Shamsher Singh Kular, Inf
IC-50338 Manoj Marutran Slaskar, Engrs	IC-50382 Santosh Kumar Nair, Inf
IC-50339 Ranjan Keron, AC	IC-50383 Yogesh Sardana, Sig
IC-50340 Voodev Parida, Arty	IC-50384 Shirin Deshpande, Sig
IC-50341 Jagpreet Singh, ASC	IC-50385 D Nandan Pandey, AC



IC-50386 Sanjeev Kumar Dutta, Inf	IC-50427 RK Suresh Kumar, Inf
IC-50387 Narender Singh Negi, AOC	IC-50429 Naresh Kumar, Arty
IC-50388 Jaideep Gopal Surie, AC	IC-50431 Bipin Kumar, Arty
IC-50389 Subodh Kumar, AOC	IC-50433 Rajender Singh, EME
IC-50390 Arun Kumar Sinha, Inf	IC-50434 Prem Singh Sikarwar, ASC
IC-50391 Raju Krishani, ADA	IC-50436 Manoj Ranjan, Engrs
IC-50393 Vikramjit Singh Gill, Arty	IC-50437 Rahul Yadav, Sig
IC-50394 Jayachandran CJ, Engrs	IC-50438 Shiv Dayal Singh Deol, Arty
IC-50395 Pankaj Sati, ASC	IC-50439 Maninder Singh, Engrs
IC-50396 Jitender Pandit, Engrs	IC-50440 Hemanta Panging, Inf
IC-50397 Pritpal Singh Banga, Sig	IC-50441 Pargat Singh, AC
IC-50398 Rajkumar Kisan Paithankar, Arty	IC-50442 J Sanjeev, Int
IC-50399 Kapil Handa, Sig	IC-50444 Darpan Sood, Sig
IC-50400 Narendra Singh Dhakad, EME	IC-50445 Sunil Rana, ASC
IC-50402 Amar Ashok Bapat, Inf	IC-50446 Harbind Parmar, Inf
IC-50403 Atul Mukundrav Salukhe, AC	IC-50447 Sabinder Virdi, Inf
IC-50404 Anirban Datta, Inf	IC-50448 Yashpal Yadav, Inf
IC-50405 Birendra Kumar, Arty	IC-50449 Pravin Shankar Tripathi, ASC
IC-50406 Gagan Deep, Inf	IC-50450 Shantanu Choudhary, Inf
IC-50407 Man Mohan Singh, Inf	IC-50451 Mahendra Singh, Arty
IC-50408 Sanjay Kumar Lakra, EME	IC-50452 Dhananjai Palsokar, Mech Inf
IC-50409 Chetan Dhiman, Inf	IC-50453 Ashim Chaudhari, Engrs
IC-50410 Aditya Kumar Verma, inf	IC-50454 Ashok Yadav, ADA
IC-50411 Virendra Singh Rathore, ADA	IC-50456 Vikas Sharma, Arty
IC-50412 Jaswant Singh, ASC	IC-50457 Chandra Shekhar Sharma, ASC
IC-50413 Suresh Rameshwar Sharma, Arty	IC-50458 Sumit Sur, EME
IC-50414 Anup Alagarajan, EME	IC-50459 Gajendra Singh Rathore, AC
IC-50415 Ajay Batra, Engrs	IC-50460 Jasbir Singh Bath, Arty
IC-50416 Raghunandan Singh Jasrotia, Mech Inf	IC-50461 Harsh Vardhan Dubey, AOC
IC-50417 Amit Sharma, AOC	IC-50462 Gagan Deep Singh, Inf
IC-50418 Satbir Singh Gill, Inf	IC-50464 K Sathiyam Moorthy, AOC
IC-50419 Sunil Kumar Dalal, AC	IC-50466 Naresh Kumar, Arty
IC-50420 Jatindra Damudhar Sahastrabudh, Inf	IC-50467 Vivek Nautiyal, Sig
IC-50421 Ashok Mishra, Inf	IC-50468 Rajeev Kumar, Inf
IC-50422 Ravi Shankar R, EME	IC-50469 Anil Raman, Inf
IC-50423 Ajay Vashist, Arty	IC-50470 Talum Dubi, Inf
IC-50424 Joshi Prasanna Sudhakar, Mech Inf	IC-50471 Meharban Singh Bajwa, AOC
IC-50425 Upendra Singh Raghav, Inf	IC-50472 Nilesh A Salvi, Inf
IC-50426 Rajiv V Vaid, AOC	IC-50474 Amit Mahna, Engrs

IC-50475 Ganesh Bhat, Arty	IC-50519 Arjun Yadav, AC
IC-50476 Amit Bhatnagar, ASC	IC-50520 Rakesh Chand Jaiswal, Int
IC-50477 Kulwant Kataria, Inf	IC-50521 Rai Singh Godara, Mech Inf
IC-50478 Mithilesh Kumar Bhadani, Sig	IC-50522 James Balraj Cornelius, Int
IC-50479 Raje John, Sig	IC-50523 Gyanendra Singh Tewatia, Inf
IC-50481 Ranjeet Singh Mann, ASC	IC-50524 Navin Thapa, Inf
IC-50482 Vaka Bhaskar Reddy, ASC	IC-50525 Sandeep Chhikara, Arty
IC-50483 Bavisetti Sree Nagesh, EME	IC-50526 Prem Kishore P, ASC
IC-50484 Naresh Kumar Yadav, ASC	IC-50527 Ajit P Varghese, Engrs
IC-50485 Dig Vijay Singh Patial, Inf	IC-50528 Rajesh Mehta, Inf
IC-50486 Shardendil Dhar Pandey, ADA	IC-50529 Viju Sundaresh, ADA
IC-50487 Sankar Deo, Arty	IC-50530 Urnesh Kumar Ojha, Inf
IC-50489 Kumar Abhisheak, Engrs	IC-50531 Piyush Mohan, ADA
IC-50490 Jonnalagedda Venkata Bhaskar Venkateswar, EME	IC-50532 Vijay Kumar Tiwari, Sig
IC-50491 Vinod Bajiya, Inf	IC-50533 Shekharanand Mishra, Sig
IC-50492 Navraj Singh Grewal, Inf	IC-50534 Adil Imran, AOC
IC-50494 Arun Hariharan, Engrs	IC-50535 Kulwant Singh, ASC
IC-50495 Rabindra Nath Choudhury, ADA	IC-50536 Partik Saxena, Arty
IC-50496 Ramendra Kumar Bajpai, EME	IC-50537 Arvind Kumar Singh, EME
IC-50498 Sanjeev Sood, Sig	IC-50538 Aniruddha Sen, EME
IC-50500 Manjinder Singh, Inf	IC-50539 Chandra Shakhar Azad, Arty
IC-50501 Pardip Kumar Choudhary, Arty	IC-50540 Sudip Roy, Sig
IC-50502 Ajay Kumar, AOC	IC-50543 Dinesh Sehgal, AOC
IC-50503 Shanthu Rishi, Engrs	IC-50544 Surinder Mahani, AC
IC-50505 Sushil Kumar Singh, Arty	IC-50545 Chinmaya Madhwal, Inf
IC-50506 Sarbjeet Singh Oberai, Mech Inf	IC-50546 PP Ravinder Nath, Sig
IC-50507 Sishupal Singh Panwar, ASC	IC-50547 Kirpal Singh, Arty
IC-50508 Debashish Bose, Sig	IC-50548 Sahayug Subba, Inf
IC-50509 Anurag Jyoti, AC	IC-50550 Rajesh Gajraj, Inf
IC-50510 Akhilesh Kumar Yadav, AC	IC-50551 Subhash Chandra Pradhan, Arty
IC-50511 Joby Joseph, Inf	IC-50552 Seemant Kalra, EME
IC-50512 Anindya Roy Choudhury, AOC	IC-50553 Rakesh Kumar Chahar, EME
IC-50513 Praveen Sharma, Arty	IC-50554 Gurmeet Singh, Sig
IC-50514 Vivekjit Singh, Engrs	IC-50556 Ajit Kumar Borah, Arty
IC-50515 K Narendra Singh, Engrs	IC-50557 KP Rajendra Kumar, Engrs
IC-50516 K Anand Menon, Arty	IC-50558 Anil Kumar Pokhriyal, Engrs
IC-50517 Inder Preet Singh Nanda, Inf	IC-50559 Maninder Ahluwalia, Inf
IC-50518 Dantkale Vivik Ramesh, Inf	IC-50561 Rajiv Sharma, ADA
	IC-50562 Rajan Madan, Inf

IC-50563 Jitendra Beniwal, Inf	IC-50609 Prashant Kamath, Arty
IC-50564 Shoban Singh Danu, Inf	IC-50610 Atul Kumar, Arty
IC-50565 Vinayak Kondiram Yadhav, Inf	IC-50611 Prateek Hamal, AC
IC-50567 Kanojia Rajesh Vipatnkumar, Inf	IC-50612 Raghunath Singh Sekhawat, Inf
IC-50568 Vikas Choudhary, Inf	IC-50613 Satyaendra Verma, Sig
IC-50569 Devendra Kumar Maithani, Engrs	IC-50614 Rakesh Kumar Gautam, ASC
IC-50570 Abhijit Roy, Inf	IC-50615 Jaisheel Kaushal, EME
IC-50571 Amjad Zulfikar, EME	IC-50616 Suneet Shankta, AC
IC-50572 Arun Ganesh Rao Pathade, Arty	IC-50617 Anil Tewatia, Arty
IC-50573 Anil Gorshi, Inf	IC-50618 Arup Das Gupta, EME
IC-50574 Arvinder Singh Bindra, EME	IC-50619 Vinod Divakaran, Inf
IC-50575 Kadam Manish Shashikant, Inf	IC-50622 Maneesh Sharma, Inf
IC-50576 Neeraj Sharma, EME	IC-50623 C K Rajesh, Inf
IC-50579 Praveen B, Engrs	IC-50624 Amardeep Singh, AOC
IC-50580 Domman T Jacob, ADA	IC-50625 Shaik Mahaboob Basha, Inf
IC-50581 Alok Kumar Singh, Arty	IC-50626 Navjot Singh Bhatti, Inf
IC-50582 Sanjay Tripathi, Sig	IC-50627 Anup Deoli, Arty
IC-50583 Charan Singh Baswan, Engrs	IC-50628 Ashish Gupta, Engrs
IC-50584 K Srinivas, Arty	IC-50629 Sanjeev Baveja, Sig
IC-50585 Satish Chari, AC	IC-50630 Narinder Pal Singh Toor, AC
IC-50586 MP Arvind, Sig	IC-50631 Manoj Dutt Sharma, AOC
IC-50588 Kuljinder Singh Ahluwalia, Mech Inf	IC-50632 Gagan Khanna, Engrs
IC-50589 Joseph Antony, ASC	IC-50634 Sanjeev Kumar Marwaha, EME
IC-50590 Manpreet Singh Chaudhry, Inf	IC-50637 Parag Suresh Gupte, Inf
IC-50591 Abhijeet Chandra, Inf	IC-50638 Sujay Ghosh, Engrs
IC-50592 Kamal Kishore Singh, Inf	IC-50640 Amardeep Singh, Engrs
IC-50593 Puneet Datta, Int	IC-50641 Sangeet Budhwar, Sig
IC-50595 Jaswant Singh, Engrs	IC-50642 Rajesh Pankaj, ADA
IC-50596 Sube Singh Thukrana, Inf	IC-50643 Pravin Kumar Bhatt, Inf
IC-50597 Kulvinder Singh Kondal, Inf	IC-50645 Ravinder Singh Dalal, Inf
IC-50598 Chandan Kumar, Inf	IC-50646 Pavan Kumar, Engrs
IC-50599 Sudarshan Singh, Arty	IC-50647 Sanjay Sahai, EME
IC-50600 Sanjeev Srivastava, Sig	IC-50648 Ashok Kumar, Arty
IC-50601 Mohammad Gaffar, Armd	IC-50649 Subhash Dar, Inf
IC-50602 Jitinder Singh Virk, Inf	IC-50650 Dinesh T, AC
IC-50603 Shiv Kumar Sadasivan, Arty	IC-50651 Ajay Kumar, AOC
IC-50605 Atmesh Beniwal, AOC	IC-50652 Rajeev Verma, Arty
IC-50606 Rajeev Dalela, EME	IC-50653 Joshi Padmanabh Shantaran, Int
IC-50607 Kamaljeet Singh Pabla, ADA	IC-50655 Navdeep Chaudhary, Arty

IC-50657 Rajendra Singh, Inf	IC-50700 Man Raj Singh Mann, Inf
IC-50658 Rajesh Kumar Bali, ASC	IC-50701 Manish Gupta, Sig
IC-50659 Arun Kumar Nayak, EME	IC-50702 Puneet Ahuja, Inf
IC-50660 Pritpal Singh, Engrs	IC-50703 Baljinder Singh, EME
IC-50661 Kuldeep Singh, MF	IC-50704 Vivek Kohar, Mech Inf
IC-50662 Ravinder Singh, Engrs	IC-50706 Sudeet Vijai, Arty
IC-50663 Narendra Sheoran, Engrs	IC-50707 Gaurav Dutta, Inf
IC-50665 Vijay Kumar, AEC	IC-50708 Manoj Kumar, ADA
IC-50666 Sanjay Chawla, Engrs	IC-50709 Neelesh Bhanot, Inf
IC-50667 Gurpreet Singh, AEC	IC-50710 Puri Deepak, Sig
IC-50668 Anup Kumar Sahoo, Engrs	IC-50711 Robi Kapoor, Inf
IC-50669 Malay Shankar Pal, EME	IC-50712 Anil Kumar Bali, ASC
IC-50670 Rajkumar Mengi, Engrs	IC-50713 Sudhish Kumar Jaini, Arty
IC-50671 Rathish P V, Engrs	IC-50714 Gaurav Kaushal, Engrs
IC-50672 Nath Nitin Pitamber, AEC	IC-50715 D Seshasai Murty, Inf
IC-50673 Manas Ranjan Biswal, EME	IC-50716 Anupam Shrimali, Inf
IC-50674 Sanjay Kumar Shukla, Engrs	IC-50717 Hartejb Singh Bajaj, Engrs
IC-50675 Pillai Manoj Kumar Achundan, Engrs	IC-50718 Dalbir Singh, AOC
IC-50676 Atul Tandon, Engrs	IC-50720 Tejinder Pal Singh Consel, Inf
IC-50677 Sanjay Kumar Vaidya, EME	IC-50721 A Vellathurai, EME
IC-50678 Ghodake Ravi Shankar Viranth, Engrs	IC-50722 Amaresh Panwar, Sig
IC-50679 Sujjan Mohanty, Engrs	IC-50723 Mohnesh Singh, EME
IC-50680 Anil Dhaka, EME	IC-50725 Atul Bhaduria, Arty
IC-50682 R Putarjunam, AEC	IC-50727 Sher Singh Dagar, Inf
IC-50683 S Kumanan, Engrs	IC-50728 Vijender Singh Malik, AVN
IC-50684 Rahul Tyagi, Sig	IC-50729 Irvinder Singh Gill, Arty
IC-50685 Ramesh Shanmugam G, EME	IC-50730 Mohit Seth, Inf
IC-50686 Rajeev Chauhan, Sig	IC-50731 Sandeep Kumar Singh, Sig
IC-50687 V M Shivadasan, EME	IC-50732 Gaurav Gautam, Inf
IC-50688 Ajai Singhs Chonkar, Engrs	IC-50733 Sushil Chander, AOC
IC-50689 Navin Varma, ADA	IC-50734 Jagvender Poonia, ASC
IC-50690 Sumeet Kabthiyal, Engrs	IC-50735 Anil Kumar Vashisht, AOC
IC-50691 Karan Singh, Inf	IC-50736 Shivinder Dhaliwal, Inf
IC-50692 Mukul Goswami, AC	IC-50737 Ram Dayal Mishra, Sig
IC-50693 Prem Prakash Rajpurohit, AC	IC-50738 Yadhunath Singh, Inf
IC-50694 Deepak Singh Bisht, Inf	IC-50739 Upakar Chander, Mech Inf
IC-50695 Chanan Jeet Singh Dhanoa, AC	IC-50740 B Venkat, EME
IC-50698 Subhasis Das, Sig	IC-50741 Dharmandra Kumar, Arty
IC-50699 Tarunjeet Kumar Ohri, AC	IC-50742 Vaydeesh Mahajan, ADA

IC-50743 Ashwini Nayyar, Inf	IC-50785 Anil John Alfred Pareira, Sigs
IC-50744 Sandeep S Sharda, Inf	IC-50786 Yogi Sheoran, Arty
IC-50745 P Binuraj, Arty	IC-50787 Wankhade Mangesh Babanrao, Arty
IC-50746 Randeep Singh Rana, AOC	IC-50788 Amit Pal, Arty
IC-50747 Narinder Singh, ASC	IC-50789 Pawan Bhardwaj, Inf
IC-50748 Sushanshu Sharma, AOC	IC-50790 Shantanu Kumar Dash, Inf
IC-50749 Sachin Malik, Inf	IC-50791 Siva Thamiahmuthan, Mech Inf
IC-50750 Rajiv Singh Rawat, Inf	IC-50792 Rajinder Singh, Arty
IC-50751 Naresh Chand, Arty	IC-50793 Ashish Dutta, Sigs
IC-50752 Ashok Kumar, ASC	IC-50794 Anupam Singh Randhawa, Inf
IC-50753 Sanjay Kumar Dubey, Inf	IC-50795 Salil Shukla, Inf
IC-50754 Satyanarin, Inf	IC-50796 Baljeet Singh, Inf
IC-50755 Navraj Dhillon, AC	IC-50797 Laxmi Kant Yadav, ASC
IC-50756 Anil Jain, Arty	IC-50798 Bhupesh Hada, Inf
IC-50757 Ajay Kumar Pathak, Engrs	IC-50799 Jagjit Singh, Engrs
IC-50758 Ashwani Kumar Mohanty, Inf	IC-50800 Anil Yadav, Arty
IC-50759 Jeewan D Zende, ASC	IC-50801 Arvind Kumar Sood, Sigs
IC-50760 Ramanuj Goswami, ADA	IC-50802 Amit Chopra, Inf
IC-50761 Praneet Goel, Inf	IC-50803 Shivdev Singh, Engrs
IC-50762 Sobhit Rai, EME	IC-50804 Ajay Kumar Vishkarama, Inf
IC-50763 Sudhir Malik, Inf	IC-50805 Sandeep Madan, AOC
IC-50764 Deepak Sharma, Inf	IC-50807 Ajay Duggal, ASC
IC-50765 Garish Kalia, Inf	IC-50809 Jarrish Paul Jacob, EME
IC-50766 Manoj Kumar Mathur, Inf	IC-50810 Harmeet Sethi, Inf
IC-50768 Aqurba Biswas, AOC	IC-50811 Sanjay Sethi, Inf
IC-50769 Parminder Singh, AC	IC-50812 Vijay Ahlawat, AC
IC-50770 Nakhre Mohit Arvind, Engrs	IC-50813 Kumar Ranjay Singh, EME
IC-50771 Sameer Karol, Inf	IC-50814 Madan Mohan Thakur, AOC
IC-50772 Rajesh Kumar Shivrain, Inf	IC-50815 Devendra Singh, Arty
IC-50773 Gurcharn Singh Bhullar, ASC	IC-50816 Munendra Gupta, Inf
IC-50774 Rvaradha Raja Perumal, Int	IC-50818 Hardyal Singh Chauhan, AC
IC-50775 Jayant Kar, Arty	IC-50819 Ajay Sumant, Engrs
IC-50777 Suvendu Kumar Patnaik, Arty	IC-50820 Sumeet Puri, AC
IC-50778 Jog Niranjana Subhash, Mech Inf	IC-50821 Yohannan KM, Arty
IC-50780 Raj Kumar Mann, EME	IC-50822 B S Sheoran, Inf
IC-50781 Rajesh Sethi, Inf	IC-50823 Bijendra Singh Beniwal, Arty
IC-50782 Surve Prakash Mahadeo, Inf	IC-50824 R K Sharma, EME
IC-50783 Satish Kadvath, ADA	IC-50826 Yogesh Orotra, Sigs
IC-50784 Gurpreet Singh Cheema, Mech Inf	IC-50827 Chodisfti Siva Surya Prakash, Engrs

IC-50828 Banerjee Chanchal Binoy, Engrs	IC-50870 Jasbir Singh, Inf
IC-50829 Arun C G, Inf	IC-50871 Neeraj Abrol, Arty
IC-50831 Sudhir Singh, Inf	IC-50872 Vineet D'Souza, Inf
IC-50832 Rajesh Mahajan, EME	IC-50873 Kamal Jeet Singh, ASC
IC-50833 Sunil Sachan, Arty	IC-50874 Indukuri Krishna, Sigs
IC-50834 Arun Ahuja, Inf	IC-50875 Vijay Singh, EME
IC-50835 S D Youvaraj, Arty	IC-50876 R K Bhardwaj, EME
IC-50836 Neeraj Shukla, Inf	IC-50877 Arvind Kumar Tyagi, Inf
IC-50837 Manish Pande, Arty	IC-50878 Farhad Ahmad Rizvi, Arty
IC-50838 Nirmal Singh Dhaliwal, Inf	IC-50879 Kuldeep Singh, Sigs
IC-50839 Rafiqul Islam Mullick, ASC	IC-50880 Ajoy Mukherjee, Inf
IC-50840 Kamal Raj Yadav, AOC	IC-50881 Naveen, Inf
IC-50841 Harjeet Singh Ghuman, ASC	IC-50882 Pankajakshan Kuppadakkath, Engrs
IC-50842 Amar Singh, Inf	IC-50883 Arun Kumar Bhardwaj, Inf
IC-50843 Manchar Lal, ASC	IC-50884 Ravi Sharma, Inf
IC-50844 Krishan Mohan Rai, JAG	IC-50885 Mukesh Sharma, Engrs
IC-50845 Rahul Mallik, Sigs	IC-50886 Prashant Kumar Mishra, EME
IC-50846 Rajesh Sharma, Inf	IC-50888 Trilikya Mohan Patnaik, Inf
IC-50847 A Sridhar, Arty	IC-50889 Rohit Rajpal, AVN
IC-50848 Maguluri Venkata Ratnam, Inf	IC-50890 Amar Pal Singh, Arty
IC-50849 Prashant Chauhan, Inf	IC-50891 Cletus MA, ASC
IC-50850 Gaurav Rishi, Mech Inf	IC-50892 Vijay Kumar, Int
IC-50851 Ram Niwas, Inf	IC-50893 Joseph George, AOC
IC-50852 Deepak Sachdev, Mech Inf	IC-50894 Umakant Sharma, Inf
IC-50853 Yashwant Singh, Int	IC-50895 Peeyush Khurana, Inf
IC-50854 Dalip Gowda, AC	IC-50896 Agendra Mukul, EME
IC-50855 Sanjay Khanna, ADA	IC-50897 Anil Kuthiyal, Engrs
IC-50856 Anil Kumar Dixit, Engrs	IC-50898 Avtar Singh, Inf
IC-50857 Ashutosh P Adhaw, Arty	IC-50900 Deepak Yadav, EME
IC-50858 Harpreet Singh, EME	IC-50901 Ajay Kumar Rajak, Arty
IC-50860 Anuj Kumar Baweja, AOC	IC-50902 Harpal Singh Heer, Arty
IC-50861 Syed Niamathullah, Sigs	IC-50903 Rajesh Kumar Sahu, Inf
IC-50863 Jubin V Mathew, Inf	IC-50904 Vikrant Sardana, Sigs
IC-50864 Sarvesh Sharma, Inf	IC-50905 K Ranjeev Singh, Inf
IC-50865 Amit Kumar Singh, Inf	IC-50906 Subhash Chandra Pandey, AOC
IC-50866 Phinu Thomas Philip, Engrs	IC-50907 Rakesh Thapliyal, Inf
IC-50867 Sanjog Negi, ADA	IC-50908 Jagvinder Pal Singh Cheema, Mech Inf
IC-50868 Jai Ram Kathiyal, ASC	IC-50909 Srikant Menon, Arty
IC-50869 C Dayalan, Inf	IC-50911 Rajeev Bansal, AC

IC-50912 B Ramesh Rao, ADA	IC-50955 Bhaskar Jyoti Hazarika, Arty
IC-50913 Ramesh Kumar Sangwan, ASC	IC-50956 Ajay Malik, Inf
IC-50914 Manish Saran, Sig	IC-50957 Jaydeep Goswami, Inf
IC-50915 Naveen Kumar Yadav, Inf	IC-50958 Kovid Krishna Bharadwaj, ADA
IC-50916 Prithviraj Singh Bisht, Int	IC-50959 Manoj Gupta, Arty
IC-50917 Mahesh Kumar Chauhan, ASC	IC-50960 Naveen Bansal, Arty
IC-50918 Ashok Kumar, ASC	IC-50961 Amit Kabthiyal, Inf
IC-50920 Rajesh Ranjan, EME	IC-50962 Sanjeev Kumar, Engrs
IC-50922 Virendra Singh Chaudhary, Engrs	IC-50963 Atul Pratap Singh, Inf
IC-50923 Radhakrishnan V P, Arty	IC-50964 Bhanu Pratap Singh Kushwaha, AOC
IC-50924 Jasinder Singh Sodhi, Engrs	IC-50965 Vimal Kumar Pandey, Engrs
IC-50925 Ashish Satyanand Masih, AC	IC-50966 Ramesh Chandra Shukla, Sigs
IC-50926 Bhupinder Singh Ghuman, AOC	IC-50967 Jangbir Singh, Arty
IC-50927 Hardeep Singh, Inf	IC-50968 G Srikumar, Int
IC-50928 S Paul Raj, Arty	IC-50970 Sharad Dureha, Inf
IC-50929 Santosh Kumar, Arty	IC-50971 Rupam Asthana, EME
IC-50930 Shah Rohit V, ADA	IC-50972 Raman Kumar Sharma, Engrs
IC-50931 Baninder Singh Sidhu, ADA	IC-50973 Sameer Choudhary, Inf
IC-50932 Anurag Devgan, Inf	IC-50974 Navneet Srivastava, Inf
IC-50933 T Suresh, Sigs	IC-50975 Ram Niwas, Mech Inf
IC-50934 Atul Kathuria, Sigs	IC-50976 Dinesh Dhingra, ASC
IC-50935 Dinesh Pratap Singh Bishen, Inf	IC-50977 Joshi Maneesh Vijay, Inf
IC-50936 Praval Peter, Mech Inf	IC-50980 Praveen Mathur, EME
IC-50937 T H Jotindra Singh, Inf	IC-50981 J Flowerson, Inf
IC-50938 Amit Rastogi, Sigs	IC-50982 Rajwant Chatterjee, Inf
IC-50939 Sant Ram, Engrs	IC-50983 Deepak Kumar Sharma, Inf
IC-50940 Subhash Sinha, Arty	IC-50984 Puni Chand Kaushal, Arty
IC-50941 Tangirala Srinivas, AVN	IC-50985 Manjit Singh Cheema, Sigs
IC-50942 Suresh Kumar Mishra, EME	IC-50986 Sanjiv Kumar, Engrs
IC-50943 Rajendra Yadav, Inf	IC-50987 Deepak Kumar, Arty
IC-50944 Ranbir Singh, Inf	IC-50988. Tejpal Singh Gulia, Inf
IC-50945 Jayant Kumar Barua, Inf	IC-50989 Sanjeev Kumar, AOC
IC-50946 Sanjeev Kumar, Inf	IC-50990 Rajeev Kumar Singh, Engrs
IC-50948 Gautam Roy, Inf	IC-50991 Om Prakash Pandey, Inf
IC-50949 Vimal Mehta, AOC	IC-50993 Jayant Vinayak Wannere, Engrs
IC-50950 Jasbir Singh Kaberwal, Inf	IC-50994 Nishith Kumar Datta, Sigs
IC-50952 Bhim Pal Singh, Mech Inf	IC-50995 Palakaveedu Venkateshwara Rao, ASC
IC-50953 Anupam Jhanji, Sigs	IC-50996 Babru Bhan Yadav, Inf
IC-50954 Vishal Mathur, Arty	IC-50997 Prabhu Nath Giri, EME

IC-50998 Rajnish Nadan Sinha, Mech Inf	IC-51044 Surender Pal, EME
IC-50999 Bhupinder Singh, Inf	IC-51046 Ravindra Singh, Inf
IC-51000 Desh Raj Gargey, Inf	IC-51047 Kartikey Singh, Sigs
IC-51001 Parhta Sarathi Roy, Int	IC-51048 Oinam Sunil Chandra, Inf
IC-51002 Rajesh Yadav, ASC	IC-51049 Rajeev Kundu, ADA
IC-51003 C Kiran Kumar Reddy, ASC	IC-51050 Sanjay Khandaria, EME
IC-51005 Pramod Kumar, EME	IC-51051 Ram Karan, AC
IC-51006 Digoijayee Kharoel Patra, Arty	IC-51052 Upendra Pandey, AC
IC-51007 A R I Daman Sharma, Inf	IC-51054 Ravi Bisht, Int
IC-51008 Achintya Kumar Nandi, Inf	IC-51055 Anil Upadhyay, Inf
IC-51009 Rahul Sinha, AC	IC-51056 Vivek Sarpal, Arty
IC-51010 Ravindra Singh Rathore, AC	IC-51057 Jadhav Vikram Lakhujirao, Arty
IC-51011 Rajat Kumar, Arty	IC-51058 Alok Sinha, Arty
IC-51012 Dinesh Pratap Singh, EME	IC-51060 Khasnis Ravi Arun, Inf
IC-51014 Manish R Rai, AC	IC-51061 Basant Kumar Singh, Inf
IC-51015 Harpreet Singh Jaiswal, Arty	IC-51062 Gurpal Singh Dhaona, Inf
IC-51016 Shailesh Kumar, ADA	IC-51064 Dinesh Chander Singh Mayal, Int
IC-51017 Prem Kumar Bura, Inf	IC-51065 Anil Kumar Yadav, Arty
IC-51019 Sanjeev Rana, AOC	IC-51066 Danvir Singh, Inf
IC-51020 Nair Krishanaraj Govindan Kutty, Arty	IC-51067 Krishan Kumar Singh Koyrah, Inf
IC-51021 Sandeep Sharma, Engrs	IC-51069 Hamant Kumar, Inf
IC-51022 Rajive Srivastava, Sigs	IC-51070 Rakesh Kumar Shrivastava, AOC
IC-51023 Tirtha Sarathi Sarkar, Inf	IC-51071 Jayant Kumar Ghosh, ASC
IC-51024 Vinay Bali, AOC	IC-51072 Abhijit Sarkar, Engrs
IC-51028 Tejpal Singh, Sigs	IC-51073 Rajeev Kumar Dhawan, Sigs
IC-51029 Hitesh Sethi, Arty	IC-51074 Mukul R Kulkarni, Inf
IC-51030 Rohit Gupta, Arty	IC-51075 Rajesh Thakur, Inf
IC-51031 Vikram Sharma, Inf	IC-51078 Ajay Thakur, Engrs
IC-51032 Satish Sharma, EME	IC-51079 Ranade Shailesh Hemkant, Sigs
IC-51035 Ashok K Kumar, Inf	IC-51081 Inder Singhs Rathore, EME
IC-51036 Sunil Kumar Saul, Inf	IC-51082 Chandrana Nilesh Mahendrabhai, Engrs
IC-51037 Narendra Singh Rathore, AC	IC-51083 Savjit Singh Soin, Sigs
IC-51038 Nilkant B Dinkar Karmakar, Mech Inf	IC-51084 Pratap Kumar Mohanty, Engrs
IC-51039 Dhiraj Wal, Inf	IC-51085 H Jaypal, EME
IC-51040 Balbir Singh, Inf	IC-51086 Pankaj Mittal, Engrs
IC-51041 Nagesh P Patankar, Engrs	IC-51087 Manjinder Singh, Engrs
IC-51042 R Venkatesh, Inf	IC-51088 Vineet Tyagi, Sigs
IC-51043 Harsh Vardhan, Int	IC-51089 Sandeep Chaudhary, EME



IC-51090 Sanjay Singh, Engrs	IC-46591 Rajendra Kumar Ramrao Jadhav, Sigs
IC-51091 Jaskaran Singh Bajaj, Engrs	IC-46592 Keyur Vaishnav, ASC
IC-51092 Adhir Mathur, Engrs	IC-46593 Shamsher Singh Sihag, Inf
IC-51093 Nimral Kumar Bairathi, Engrs	IC-46594 Ajay Kant Dixit, Inf
IC-51094 Sandeep Singh Bajwa, EME	IC-46595 Surender Singh Chahal, Int
IC-51095 Ajay Kumar Sharma, ASC	IC-46597 Vikas Dimri, Inf
IC-51096 Mandiga Vidyasagar, Engrs	IC-46598 Sanjeev Kumar, Inf
IC-51097 Arvind D, EME	IC-46599 Suresh Kumar Agnihotri, Inf
IC-51098 Chandi Pratap Singh, EME	IC-46601 S Singh, AOC
IC-51099 Narendra Pal Arora, Engrs	IC-46602 Ghanshyam Singh, Inf
IC-51100 Gurcharan Singh, EME	IC-46603 Pravir Dhaundiya, Inf
IC-51102 Irshad A Khan, EME	IC-46604 Bhalinder Singh Brar, AOC
IC-51105 Kasukurthi Sudhakar, Engrs	IC-46605 Parthasarathi Ghosh Dastidar, ASC
IC-51106 Ravidndra Singh, Engrs	IC-46606 Nripendra Kumar Sharma, ASC
IC-51107 Tiwari Dharendra Shankar Dayali, Engrs	IC-46607 Sudhir Govil, ASC
IC-51108 Ravi Kapil, EME	IC-46608 Amit Sharma, Inf
IC-51109 Ajay Malik, AEC	IC-46609 Sundaresan Renganathan, Inf
IC-51110 Patali Krishna Prasad, EME	IC-46610 Jasbir Singh Virk, Inf
IC-51112 Balachandran G, Engrs	IC-46611 Gurvinder Pal Singh Sahni, EME
IC-51113 Prem Lal TD, AEC	IC-46612 V S Ganesh Kumar, Arty
IC-46570 Rajiv Khatri, AC	IC-46613 Anil Kumar Verma, ASC
IC-46571 Rahul Duggal, Inf	IC-46614 Anil Dhillon, EME
IC-46572 Parandeep Singh Grewal, AC	IC-46615 Sanjeev Rastogi, ASC
IC-46573 Yudhvir Singh, Inf	IC-46616 Dharendra Nath Rai, Inf
IC-46574 S P Yadav, Engrs	IC-46617 Ranjit Singh Dhillon, EME
IC-46575 Shiv Avtar Sharma, Inf	IC-46618 Jatinder Walia, Mech Inf
IC-46576 Prithvi Raj Singh Shaktawat, Sigs	IC-46619 Rahul Shrivastava, Arty
IC-46577 Daljit Singh Oberoi, Mech Inf	IC-46621 Stephan K J, ASC
IC-46578 Harbinder Singh Gill, Inf	IC-46622 Mehtab Singh, Inf
IC-46579 Sanjeev Jarial, Arty	IC-46623 S Srinivasan Balaji, AOC
IC-46581 R Armugam, EME	IC-46624 Manjeet Singh Mokha, Inf
IC-46582 Aroon Nayagam, AOC	IC-46625 Suresh Sharma, Inf
IC-46583 Sanjeev Dogra, ASC	IC-46627 Rohit Johar, AC
IC-46584 Lokendra Singh Bisht, EME	IC-46628 Pardeep Kumar Chauhan, Inf
IC-46585 Tarun Vig, ADA	IC-46629 Paramjit Arya, ASC
IC-46586 Manoj V. U., Inf	IC-46630 Rajib Bhuyan, ASC
IC-46587 Ramesh Chandra, Sigs	IC-46631 Abhinandan, Arty
IC-46588 Hirdesh Kumar Chaudhry, ASC	IC-46632 Bhupinder Singh Grewal, Inf
IC-46590 Ajay Dhawan, Sigs	IC-46634 Jayendra Singh Rawat, Inf

IC-46635 Shiel Joshi, Inf	IC-46683 Sbyagachi Kolay, ADA
IC-46637 Ajay Singh, ASC	IC-46685 C Shasi, Inf
IC-46638 T Srinivasa Rao, EME	IC-46686 Ritish Agarwal, ASC
IC-46639 Sajay Kumar Khatri, Sigs	IC-46687 Sanjay Kumar Singh, EME
IC-46640 Deepak Bagai, Sigs	IC-46688 Bhupender Singh, Inf
IC-46641 Surojit Sinha, EME	IC-46689 Vikram Singh Thapa, Arty
IC-46642 TK Rajesh, EME	IC-46691 Sanjeev Shenoy, Inf
IC-46643 Sudhir Singh Rawat, ASC	IC-46693 Atul Bali, Inf
IC-46644 David Mohanty, AOC	IC-46694 Raj Singh Bishnoi, Inf
IC-46645 SK Dubey, EME	IC-46695 RK Nikhil, Inf
IC-46646 Rajeev Ranjan Verma, EME	IC-46696 Bharat Joshi, AC
IC-46647 Abhijit Mukherjee, Inf	IC-46697 Zahi Tantra, ASC
IC-46648 Partha Sarthi Basu, Sigs	IC-46698 V Ganapathy, Inf
IC-46650 S Gopinath, EME	IC-46699 Rajendra Kumar Sharma, Arty
IC-46651 HS Dhaliwal, Inf	IC-46700 S Sondh, Sigs
IC-46652 Rishi Dev, Sigs	IC-46701 V Hariharan, Inf
IC-46653 Rajnish Singh, Inf	IC-46702 Sanjay Rajain, Inf
IC-46654 Raj Gopal, Sigs	IC-46704 Gautam Sevan, Arty
IC-46655 Aman Mehta, ASC	IC-46705 Uday Kumar, Inf
IC-46656 Tarun Akash Mohlah, Inf	IC-46706 Achalesh Shanker, Arty
IC-46657 Brijendra Kumar, Inf	IC-46707 Hitender Kumar, EME
IC-46658 Parveen Kumar, Engrs	IC-46708 Bhupendra Rekhi, ADA
IC-46659 Paresk Kumar, AOC	IC-46709 Amit Sharma, Arty
IC-46660 Gerralo Victor, ASC	IC-46710 Sharat Kumar Jha, Inf
IC-46661 KR Satish Kumar, ASC	IC-46711 Ravinder Singh, ASC
IC-46662 Tejinder Singh Bhaghtana, Engrs	IC-46712 Parminder Singh, Arty
IC-46663 Sandeep Kumar Sharma, Inf	IC-46713 R Soni, ADA
IC-46665 Rajesh Tandon, Inf	IC-46714 Ajay Kumar Jha, ASC
IC-46666 Rajesh Kumar, Sigs	IC-46715 Vinay Zibbu, AOC
IC-46668 Yudisthir Moza, Inf	IC-46717 Sumit Duggal, Inf
IC-46669 Jitendra Sharma, AC	IC-46718 Manoj Kaushik, JAG
IC-46670 Dinesh Kumar Yadav, Arty	IC-46719 Lalit Yadav, Inf
IC-46671 Sanjay Ghosh, ADA	IC-46720 Pradeep Sangwan, Inf
IC-46672 Varinder Singh Parmar, Engrs	IC-46721 Aman Pal Singh, EME
IC-46677 Narendra Singh Shaktawat, Inf	IC-46722 Basavraj Gunjegai, ASC
IC-46678 Narendra Kumar Tevatia, AC	IC-46723 Harbir Singh, Inf
IC-46679 Bharu Partap Singh, AC	IC-46724 Raojan Kumar Lamba, Inf
IC-46680 Gaurav Bhatia, AC	IC-46725 KR Sivaraman, ASC
IC-46681 Anoop Sigh Gill, Arty	IC-46726 G Srinivas, Arty

IC-46727 Varghese Abraham, Inf	IC-46772 Madhu K, Inf
IC-46728 Shri Kumar, Int	IC-46773 Manoj G Arty
IC-46729 Himmat Singh Aulakh, Inf	IC-46774 Manish Prasad, Arty
IC-46731 Vivek Jaswal, Arty	IC-46775 Daljit Singh Chanana, ASC
IC-46732 Neeraj Munshi, Inf	IC-46776 Sanjay Mani Pradhan, Inf
IC-46733 B Rajasekar, Arty	IC-46777 Hardas Amarendra Arvind, Arty
IC-46735 Dhirender Kumar Singh, ASC	IC-46778 M Ravindran, ASC
IC-46737 Ramsay Paul Sabu, ADA	IC-46779 Shamsul Siddiqui, Arty
IC-46738 Raminder Singh Warich, ASC	IC-46780 Pankaj Preet Singh, Arty
IC-46739 Neeraj Gaur, AOC	IC-46781 Priojit Ray, ASC
IC-46740 Romendra Nath Scott, AOC	IC-46782 Mani Pande, EME
IC-46741 Harkirat Singh Dhillon, Arty	IC-46783 Mohinder Pratap Singh, Arty
IC-46742 Anand Singh, Inf	IC-46784 Sudhir Gupta, ASC
IC-46743 Lhaden Bhutia, Int	IC-46785 Sanjay Dhall, Arty
IC-46744 Vinod Gupta, Arty	IC-46786 Raghuendra Pratap Singh, Inf
IC-46745 Sandeep Tyagi, ADA	IC-46787 Mohammed Saleem Gaded, ADA
IC-46746 SS Sandhu, Inf	IC-46790 DN Sharma, Inf
IC-46747 Ram Kumar Sain, AOC	IC-46791 Karamveer Singh Dhesi, Arty
IC-46748 Sachin Tyagi, Inf	IC-46792 Sandeep Vinayak, AOC
IC-46749 Brinder Pal Singh, Inf	IC-46793 Ashim P Rai, Inf
IC-46750 Anil Sahni, AOC	IC-46794 Ravi Raj Timothy, Inf
IC-46751 Raja Dutta, Arty	IC-46795 Jagdeep Singh, Inf
IC-46752 Kishore Singh, ASC	IC-46796 Ashish Bhatnagar, AOC
IC-46753 Anoop Kumar, Int	IC-46797 Arun Pushkarna, ASC
IC-46755 Manminder Nijher, Arty	IC-46798 Rajendra Kumar, Inf
IC-46756 Sandip Tripathi, ADA	IC-46799 Rusnil Singh Chahal, Inf
IC-46758 Kanwar Digvijay Singh, AC	IC-46800 Sunil Yadav, Arty
IC-46759 Ajith VC, Arty	IC-46801 Lav Mohan Joshi, Inf
IC-46760 Jagdeep Singh, Arty	IC-46803 Umang Nigam, ASC
IC-46761 Deepak Sharma, Inf	IC-46805 Manish Kumar Sharma, Arty
IC-46762 HP Singh, Inf	IC-46806 Pankaj Sharma, Arty
IC-46763 Parshotam Singh Bhinder, ASC	IC-46807 Siddharth Tomar, AOC
IC-46764 Aman Yadav, Arty	IC-46808 Ajay S katiyar, Arty
IC-46765 Pratap Singh Rathore, ASC	IC-46809 Shashank Ranjan, Inf
IC-46767 Vikram Sood, EME	IC-46810 Deenis Diaz, Arty
IC-46768 Samarenra Pratap, Inf	IC-46811 Vinod Singh Rana, AOC
IC-46769 Ajeet Ashok Deshpande, AOC	IC-46813 Alok Shankar, ASC
IC-46770 Navdeep Singh Multani, Arty	IC-46814 Dinesh Sharma, Arty
IC-46771 Kirtiman Gautam Mohanty, Inf	IC-46815 Subir Chand Chhibber, AC

IC-46818 Sharad Nigam, EME	IC-49436 Rahul Tewari, Engrs
IC-46819 Gurvinder Singh, Inf	IC-49437 Ajay Chandpuria, Inf
IC-46820 Inderjit Singh, Sigs	IC-49438 Gopal Mohan Atri, AOC
IC-46821 Raj Kumar Kapil, Arty	IC-49439 Kamal Dhawan, EME
IC-46823 Deotale Dushyant Manik, ASC	IC-49440 Vijay Yashwant Chandrachud, AVN
IC-46825 Saket Saxena, Inf	IC-49441 Ajay Tewari, ASC
IC-46826 Naresh, ASC	IC-49443 Vishal Sharma, Inf
IC-46827 Tapas Rajan Bera, AOC	IC-49444 Vijay Singh, AOC
IC-46828 Saurabh Misra, ASC	IC-49446 Hari Kirpal Singh Bath, Arty
IC-46829 Banerjee Sanjoy Gour, Engrs	IC-49448 Vijay Kisore Prasad Sharma, Arty
IC-46830 Bhaskar Chandra Pandey, EME	IC-49449 Inderjit Singh Panjra, ADA
IC-46832 Amar Ramdasni, Inf	IC-49450 Sanjeev Kumar Dubey, Engrs
IC-46833 Kamat Rajeev Suresh, Arty	IC-49451 Dipankar Saha, Inf
IC-46834 V Srinivas, AC	IC-49452 Nirbhay Kumar, ASC
IC-46835 M Saini, Inf	IC-49453 Dharambir Balbir Singh Kushwaha, AOC
IC-46836 Anoop P Mahajan, Mech Inf	IC-49454 Anil Gupta, EME
IC-46837 Zehurul Islam Roshid, Int	IC-49458 Siddharth Chawla, Arty
IC-46839 Ajay Sharma, Arty	IC-49459 Sanjiv Ranjan Sharma, Inf
IC-46840 Hitish Chandra Bhatnagar, JAG	IC-49460 Vikram Deshpande, Engrs
IC-46842 Amit Bhargava, ADA	IC-49461 Shamsher Singh Bijarania, ADA
IC-46843 Tuhin Kumar Paul, Arty	IC-49462 Vijay Kumar, Arty
IC-46844 Rajendra Kumar Gupta, Arty	IC-49463 Deep Bahadur Rana, Inf
IC-46845 Ravinder Singh Mehta, Arty	IC-49466 Munish Gupta, ASC
IC-49417 Praveen Chhabra, AC	IC-49467 Amit Dhingra, Engrs
IC-49418 Sanjiv Singh Slaria, AC	IC-49468 Sanjeev Tushir, Inf
IC-49419 Sushil Pradhan, Mech Inf	IC-49469 Prashant Srivastava, Inf
IC-49420 Vikas Samyal, EME	IC-49470 Ajoy Sharma, Sigs
IC-49421 Mohit Wadhwa, AC	IC-49471 Manish Kumar, ADA
IC-49422 Surya Bhanu Rai, Mech Inf	IC-49472 Satish Dahiya, Inf
IC-49423 Mohammed Khalid Zaki, Mech Inf	IC-49473 Rajan Sharawat, Inf
IC-49424 Divya Gaurav Misra, AC	IC-49474 Rakesh Kumar Chaudhary, Inf
IC-49426 Ashish Shah, AC	IC-49475 Neeraj Kumar Soni, Inf
IC-49427 Manoj Kumar Keshwar, Engrs	IC-49476 Anurag Vij, Arty
IC-49428 Manish Arora, ADA	IC-49478 Ashish Ramesh Sirsika, ASC
IC-49429 Nilesh Dahiya, Sig	IC-49479 Harbinder Singh Vandra, Sigs
IC-49430 Dinesh Kumar Singh, Inf	IC-49480 Rohit Choudhary, Inf
IC-49431 Rajeev Rattan Kotwal, Inf	IC-49482 Vivek Tyagi, Inf
IC-49432 Nitin Kumar Singh, Arty	IC-49483 Deep Bhagat, Inf
IC-49433 Jyawan Shivaji Patil, Arty	IC-49484 Bharat Bhushan, EME
IC-49435 Kishan Singh Mehra, Inf	

IC-49487 Jasdeep Singh, EME	IC-49533 Mastan Singh, Arty
IC-49488 Rajiv Sharma, AC	IC-49534 Gopi Kumar, Inf
IC-49490 Harmeet Singh Sidhu, Engrs	IC-49535 Sanjiva, Inf
IC-49491 Chandra Shekhar, AOC	IC-49536 Sarat Agrawal, Inf
IC-49492 Ravi Radhakrishnan, Inf	IC-49537 Vivek Kumar Sharma, EME
IC-49493 Jaspal Singh, Arty	IC-49538 Manish Dhairyakant Kachhy, Int
IC-49495 Rajvir Singh, ASC	IC-49539 Jaspal Singh Virk, Inf
IC-49496 Preet Pal Singh, Inf	IC-49540 Shashi Bhushan, AOC
IC-49497 Shaikh Fahimuddin Mohiuddin, Inf	IC-49541 Arjun Segan, Inf
IC-49498 Bimal Monga, Arty	IC-49542 Amit Rao, ADA
IC-49499 Jai Singh Bainsla, Inf	IC-49543 Shailesh Sharma, Inf
IC-49500 Abhijit S Pendharkar, Inf	IC-49544 Rohit Nautiyal, Inf
IC-49501 Pankaj Sahni, Arty	IC-49545 Manpreet Singh Bains, Inf
IC-49502 Jasdeep Singh Bindra, ASC	IC-49546 Sandeep Yadav, Engrs
IC-49503 V Shanmugavelan, Inf	IC-49547 V B Raja, Sigs
IC-49504 Siddhartha Sankar Nath, Inf	IC-49548 Mandeep Sokhanda, AC
IC-49505 Pawitter Mohan Bali, Inf	IC-49549 Umesh Chandra Singh, Arty
IC-49507 Sudhanshu Singh, Inf	IC-49551 Vineet Mittal, Inf
IC-49508 Mohan Vishwanath Bhalsing, Inf	IC-49552 Satish Viswanathan, ASC
IC-49509 Latif Ahmed, AOC	IC-49553 S Ramalingam, Arty
IC-49510 Hitesh Bhalla, Inf	IC-49555 Sharad Rastogi, AC
IC-49511 Amitabh Roy, Inf	IC-49556 Nalin Mohan, ASC
IC-49512 Arjun Mitra, Arty	IC-49557 C S Thigagaraj, Int
IC-49513 Jai Parkash Yadav, Inf	IC-49558 Shamsher Singh Virk, Inf
IC-49514 Ajay Kumar Arora, Sigs	IC-49559 Amit Mathur, Inf
IC-49516 Rajendra Kumar Swain, ASC	IC-49560 Vivek Gupta, EME
IC-49518 Deepak Chibber, Engrs	IC-49561 Vikas Verma, Inf
IC-49519 Pankaj Kumar Pandey, Arty	IC-49562 Vivek Pathak, Sig
IC-49520 J Anandan, AC	IC-49563 Vikram Tanaji Chavan, Arty
IC-49521 Surender Singh Jamwal, Inf	IC-49564 Saikat Roy, Mech Inf
IC-49522 Arun Kant Rishi, ADA	IC-49565 Vishal Bhutani, Arty
IC-49523 Manish Awasthi, Inf	IC-49566 Vikrant Madhav Dhumne, Arty
IC-49524 Sugandh Sharma, Mech Inf	IC-49567 Sundeep Kalra, Arty
IC-49525 Rajesh Srivastava, Arty	IC-49568 Dip Narayan Bagchi, Arty
IC-49527 Yogesh Kaura, Sig	IC-49569 Yashpal Singh, ASC
IC-49528 Yespal Singh Negi, AOC	IC-49571 Rahul Puneet Srivastav, Inf
IC-49529 Tejender Singh Dalal, ASC	IC-49573 Nitin Khare, Inf
IC-49530 Sudipto Roy, Engrs	IC-49574 Vinod Kumar Tiwari, EME
IC-49531 Suraj Prakash Mahajan, EME	IC-49575 Naveen Mehrotra, Inf

IC-49576 Sanjay Rana, Inf	IC-49621 Aditya Gurtoo, AC
IC-49577 Arun Kumar, AOC	IC-49622 Raj Singh, ASC
IC-49578 Deepak Manohar Thonge, Arty	IC-49623 Anil Kumar, Engrs
IC-49579 Shringarpure Shailesh Chintamani, Inf	IC-49624 Lewellyn Nott, Inf
IC-49580 Muralidharan, Engrs	IC-49625 Satyaroop, Inf
IC-49581 Anil Gurung, Inf	IC-49626 Vijay Jotwani, Engrs
IC-49582 Ritu Sood, Inf	IC-49627 Saleem Badiuzzaman Shaikh, Arty
IC-49583 Monish Sharma, ASC	IC-49628 Raj Kumar Sharma, Sigs
IC-49584 Pranab Kanti Ray, ASC	IC-49629 Surender Singh Yadav, Inf
IC-49585 Satendra Negi, Engrs	IC-49630 Vijay Singh Yadav, Inf
IC-49586 Anadi Dhaundiyal, AOC	IC-49631 Sukhdev Singh, Arty
IC-49588 Mohinder Pal Singh, Inf	IC-49632 Suraj Singh, Inf
IC-49589 Sarbjit Singh, EME	IC-49633 Sandeep Malakar, Arty
IC-49590 Jasjit Ghumman, Sigs	IC-49634 Ranjit Chacko, Inf
IC-49591 Roopesh Mehta, Arty	IC-49635 Kamal Kishore, Inf
IC-49592 Shinha Ajay Kumar Bishwanath, Arty	IC-49636 Charanjeey Manju, Inf
IC-49593 Chun Bahadur K C, AOC	IC-49637 Pradeep Kumar Jha, Inf
IC-49594 Patwardhan Sagar Vinay Kumar, Inf	IC-49638 Sanjiv Gajraj, Inf
IC-49597 Manu Gurung, Inf	IC-49639 Manoj Kumar Singh, Arty
IC-49598 Manbharan Ram, Sigs	IC-49640 Sandeep Chandorkar, Inf
IC-49599 Jagmohan Singh Brar, Inf	IC-49641 Kumar Shantanu, ASC
IC-49600 Sandeep Sood, EME	IC-49642 Bhaga Ram, Mech Inf
IC-49601 Chandewar Prashant Motiram, Arty	IC-49643 Bhima Venkata Durga Prasad, Engr
IC-49602 Harpreet Singh Sandhu, Inf	IC-49644 Anil Singh Negi, Inf
IC-49603 S Habeeb Rahuman, Engrs	IC-49645 Rajesh Kumar Sharma, Inf
IC-49604 Srinder Singh, Arty	IC-49646 Surender Partap Singh, Engrs
IC-49605 Salabh Sonal, Inf	IC-49647 Balbir Singh Kabsuri, Mech Inf
IC-49606 Om Parakash Chudhary, Mech Inf	IC-49648 Venugopal Menon, Arty
IC-49607 Devavrat Chhikara, Arty	IC-49649 Jasbir Singh Cheema, Inf
IC-49609 Bharat Singh, Arty	IC-49650 Gambhir Singh, Inf
IC-49610 Sundeep Chhetri, Inf	IC-49651 Harpreet Singh, Arty
IC-49611 Balraj Sharma, AC	IC-49652 Tapan Chakrabarty, AOC
IC-49612 Hem Singh Nagar, AOC	IC-49653 Rajesh Menon, Arty
IC-49614 Virendra Mohan, EME	IC-49654 Satyabir Shorot, Arty
IC-49615 Karkare Tushar Vilas, Inf	IC-49656 Chenkapartha Thomas Mathew, Inf
IC-49616 Benjamin Davind Adiappa, Sigs	IC-49657 Shubojit Lahiri, Inf
IC-49617 Ramesh Chand Rathore, ASC	IC-49658 Gagan Rana, AOC
IC-49618 Makrand Kashinathrao Deshmukh, Arty	IC-49659 Bimalendu Mohapatra, Arty
IC-49620 Abhoy Roy, Inf	IC-49660 M R K Rajesh Panicker, Inf

IC-49661 Jadhav Satish Shantaram, Engrs	IC-49705 Rohit Bhalla, Inf
IC-49662 Sanjeev Kumar Chauhan, Inf	IC-49706 Ataul Kumar Pandey, Inf
IC-49663 Rajendragouda Patil, EME	IC-49708 Dev Kumar, AOC
IC-49664 Goendra Singh Puyam, Inf	IC-49709 Surender Pal Singh Saggu, Inf
IC-49665 Prithvi Pal Singh Chauhan, ASC	IC-49710 Yogender Singh Paul, Inf
IC-49666 Prabhakar Joshi, Sigs	IC-49711 Ajay Kumar, Inf
IC-49667 Praveen Singh Sangwan, Inf	IC-49712 C Jenny Paul, Arty
IC-49668 Vijay Singh, ADA	IC-49713 Anil Bhosale, Inf
IC-49669 Sumit Mathur, Sigs	IC-49714 Raman Gulati, Arty
IC-49670 Raju Bahl, AC	IC-49715 Nadella Rajendra Prasad, Inf
IC-49671 Vivek Sheel, Arty	IC-49717 B Anil Kumar, Inf
IC-49673 Hadgekar Anil Kumar Sheshrao, Engrs	IC-49718 Ram Lal Choudhary, Arty
IC-49675 Shru Singh Negi, ASC	IC-49719 Dinesh Kumar Bhatia, Sigs
IC-49676 Ruchin Sodhani, AC	IC-49720 Debaditya Dipesh Lahiri, Inf
IC-49677 Dayal Singh Dalal, Inf	IC-49721 Manan Mukul, Inf
IC-49678 Virender Kumar Verma, Arty	IC-49724 Dharmesh Yadav, Inf
IC-49679 Harpreet Singh Ahluwalia, Inf	IC-49725 Irfan Ahmed Khan, EME
IC-49680 Vikas Lakhera, Inf	IC-49726 Navrattan Singh, Engrs
IC-49681 Jatinder Singh, Arty	IC-49728 Binay Kumar, Sigs
IC-49682 Hukam Singh, Engrs	IC-49729 Mahendra Kumar, Inf
IC-49683 Kuldip Singh, Inf	IC-49730 Sandeep Soni, Engrs
IC-49684 Vikram Mayne, Inf	IC-49731 Shivendra Shukla, Inf
IC-49685 Sanjay Dilwaria, ASC	IC-49732 Sanjeev Kumar Salwan, Mech Inf
IC-49686 Arun Kumar Natrajan, Arty	IC-49733 Thatiparthi Mohan Reddy, Arty
IC-49688 Kamal Kishore, Arty	IC-49734 Inderjeet Ghoshal, Arty
IC-49689 G Muthu Kumar, Engrs	IC-49735 Ajay Dhawan, ASC
IC-49690 Babu Ram Salgotra, AOC	IC-49737 Lal Chand, ASC
IC-49691 J N Praveen D'Chunha, Arty	IC-49738 Alok Dutt, AC
IC-49692 Dharmendra Shukla, AOC	IC-49740 Mohit Kaushal, Arty
IC-49693 Ajay Singh Yadav, AOC	IC-49741 Baldev Raj, ASC
IC-49695 Atul Dimri, AOC	IC-49742 Sanjay Gusain, EME
IC-49696 Ranbir Singh Salaria, Inf	IC-49743 Shrirang Ashok Khare, Arty
IC-49697 B N Venugola, Sigs	IC-49745 Chandan Nath Goswami, Inf
IC-49699 Tushar Arun Deshmukh, Arty	IC-49746 Pushkar Saluja, AC
IC-49700 Rajesh Tiwari, ASC	IC-49747 Pankaj Kr Singh, Arty
IC-49701 Ashok Kumar, EME	IC-49748 Bhupinder Singh, Arty
IC-49702 Karan Singh, Inf	IC-49749 Jasmit Singh Dhodi, Arty
IC-49703 Maninder Singh Kang, Inf	IC-49750 Rohit Yadav, Inf
IC-49704 Sameer Kanwar, Sigs	IC-49751 Dinesh Adhikari, Inf

IC-49753 Rakesh Yadav, AOC	IC-49807 Rajeev Ohri, Sigs
IC-49755 M Anand, Arty	IC-49808 Ranjeet Sundaram, Sigs
IC-49756 Prashanta Kumar Das, ASC	IC-49809 Kuriakose K T, EME
IC-49757 U V Ulaganathan, Engrs	IC-49810 Sanjay Madhukar Adsar, Engrs
IC-49760 Pankaj Bhola, Mech Inf	IC-49811 Lakshmanan Pramod, EME
IC-49761 Jai Prakash, Inf	IC-49812 Mritunjaya Nautiyal, Sigs
IC-49762 Raj Rattan, Inf	IC-49813 Bijay Kumar Thakur, Sigs
IC-49763 Maninder Singh Sidhu, Inf	IC-49815 Clement Stephen, Engrs
IC-49764 Rajesh Kumar Sharma, Sigs	IC-49816 Vishwanath Paranjpe, EME
IC-49769 Vinod Bhasker, Inf	IC-49817 Dinesh Kumar Tyagi, Engrs
IC-49770 Taresh Khanna, Engrs	IC-49818 Vikram Sanghi, EME
IC-49771 Ashok Kumar Tiwari, Arty	IC-49819 Susheel Sharma, MF
IC-49772 Monash Bakshi, Inf	IC-49820 Indivar Sharma, EME
IC-49773 Anubhav Sharma, Mech Inf	IC-49822 Dinesh Dikshit, Engrs
IC-49774 Aparjeet Singh Nakai, ASC	IC-49823 Shailender Kumar Sharma, Engrs
IC-49776 Sanjay Bakshi, Arty	IC-49824 Virender Singh Choudhary, EME
IC-49777 Vikram Chandar, Mech Inf	IC-49825 Harpreet Singh Mann, Engrs
IC-49778 Raghuir Singh Cheema, Arty	IC-49826 Praveen Parashar, Engrs
IC-49779 Partha Pratim Bhattacharje, Arty	IC-49827 Arun Kumar, EME
IC-49780 Satnam Singh, Engrs	IC-49828 Anil Kumar Jha, AEC
IC-49781 Rajiv Gupta, EME	IC-49830 Manmohan Singh Deol, Engrs
IC-49782 Brijesh Pandey, Arty	IC-49831 Pushap Hass Sharma, Engrs
IC-49784 Mayank Pasbola, Inf	IC-49832 Jacob Abraham, Engrs
IC-49785 P Paramdeep Singh, Arty	IC-49834 Krishan Yadav, AEC
IC-49786 Kapil Dev, ASC	IC-49835 V Ramesh, Engrs
IC-49787 Bibhash Chandra, Arty	IC-49836 Jaspal Singh, Sigs
IC-49789 Santosh Kumar G, Engrs	IC-49837 Buddhindra Lahkar, Engrs
IC-49790 Satyendra Singh, Inf	IC-49838 Chungkham Joyraj Singh, AEC
IC-49791 Anil Chaudhary, Inf	IC-49839 Sita Ram Gaur, AEC
IC-49792 Seemil Kumar, AOC	IC-49840 Ghorpade Bhausaheb Sahebrao, AEC
IC-49793 Rajat, Sigs	IC-49841 Anurag Sharma, EME
IC-49794 Kuldip Pathak, Inf	IC-49842 Chandan Vatsa, Engrs
IC-49795 Rajeev Bagga, Inf	IC-49844 Jitendra Kumar, Engrs
IC-49800 Devjeet Banerjee, Int	IC-49846 Shishir Kumar Ghosh, Sigs
IC-49801 Vivek Sharma, Inf	IC-49848 Vaseeq Ahmad Khan, EME
IC-49802 Yam Bahadur Thapa, AC	IC-49849 Kothapally Gabriel A Kamal Dev, Sigs
IC-49803 Man Bahadur Bohra, AOC	IC-49850 Angara Raghavendra Rao, EME
IC-49805 Kuricheti Siva Ram, Engrs	IC-49851 Ashokan G, Engrs
IC-49806 Ramesh Kumar Shreevastava, Sigs	IC-49852 Ravichander D, Sigs



IC-49853 D Balaji Dayal, EME	IC-49899 Raj Kapur Mour, Arty
IC-49854 Praveen Batra, Sigs	IC-49900 Gurudutt Shekdar, ASC
IC-49855 Shriharsha A N, EME	IC-49902 Jitender Singh Yadav, Arty
IC-49856 D N Srinivas, EME	IC-49903 Rajeev Gupta, ADA
IC-49858 Satish Kumar Singla, AEC	IC-49904 Rajeev Khullar, Inf
IC-49859 Satish K, EME	IC-49905 Lakhbinder Singh Lidder, Inf
IC-49860 Sunil Dutt, Engrs	IC-49906 Sumeet Shahi, Sigs
IC-49861 Boppana S V S Sudhakar, Engrs	IC-49907 Anand Patrick Dhananjayan, Arty
IC-49862 Rajesh Kumar Pokhriyal, AEC	IC-49908 Vishal Agarwal, Inf
IC-49863 Randhir Khatri, Sigs	IC-49909 Deepjyot Singh Bajaj, Inf
IC-49864 S A Varadan, AEC	IC-49910 Sunil Kumar, Engrs
IC-49865 Amrik Singh, Sigs	IC-49911 Prasanna Kishore Mishra, Inf
IC-49866 Gorthi N V R S Harnath, EME	IC-49912 Satyavrat Pagay, Arty
IC-49867 Ranjeet Singh Manral, Engrs	IC-49913 Arjun Singh, Inf
IC-49868 Ajay Dua, AC	IC-49914 Sunit Monga, Sig
IC-49869 Ravi Pritam Singh, Engrs	IC-49915 Madhukar Singh Chauhan, EME
IC-49870 Charanjit Singh Mann, AC	IC-49916 Vikas Dewan, AC
IC-49871 Rajyavardhan Singh Rathore, Inf	IC-49917 Bhupindra Singh Pundhir, Arty
IC-49872 Pawan S Yadav, Sigs	IC-49918 Nagendra Singh, Inf
IC-49873 Desh Raj Rahar, AOC	IC-49919 Harpreet Singh, Inf
IC-49874 V Anbarasu, Engrs	IC-49920 Nidhish Bhatnagar, Sigs
IC-49875 M N Sajan, Inf	IC-49921 Sameer Sharma, Arty
IC-49877 Shailesh Kumar Siingh, Inf	IC-49922 Mukul Dobhal, Inf
IC-49878 R Sundaram, Inf	IC-49923 Ketan Bhatt, EME
IC-49879 Gurpreet Singh Choudhry, ADA	IC-49924 Sumeer Singh Dhadwal, ASC
IC-49880 Sandeep Bahl, AOC	IC-49925 Amit Singh Sohal, Engrs
IC-49882 Ajay Kacker, EME	IC-49926 Vijay Kumar Purohit, Inf
IC-49883 Ramit Mehta, Arty	IC-49928 Jayesh Kanaiyalal Adhvaryu, Engrs
IC-49884 Sumesh Seth, Inf	IC-49929 Dhanush Bhajan Pathak, Inf
IC-49885 Chaitanya Limaye, Inf	IC-49930 Naveen Kumar Wadhera, AOC
IC-49886 Parimal Pant, Inf	IC-49931 Tejinder Jeet Singh, ASC
IC-49887 Vikram Gulati, Engrs	IC-49932 Pradeep Singh Bisht, Sigs
IC-49888 Shailendra Singh Soam, Inf	IC-49933 Satish Kumar Gupta, ASC
IC-49889 Iqbal Singh Samyal, Inf	IC-49934 Hardeep Singh Chawhan, AOC
IC-49890 Suman Negi, Inf	IC-49935 Ajay Singh Jamwal, Arty
IC-49892 Sandeep Choudhary, Inf	IC-49936 P V R Subramaniam, Engrs
IC-49893 Dinesh Kumar Tiwari, Sigs	IC-49937 Tripinder Singh Soin, AC
IC-49895 S Murugesan, Inf	IC-49938 Anup Singh Chauhan, Inf
IC-49898 Anil Chandel, Inf	IC-49940 Satish Kumar Singh, ASC

IC-49941 Ajoy Kumar Sinha, Arty	IC-49985 Sandeep Sharma, ASC
IC-49942 Navdeep Singh Khicher, EME	IC-49986 Anoop Kumar Arora, Arty
IC-49944 Prince Duggal, Mech Inf	IC-49987 Dipender Singh, Arty
IC-49945 Ajay Dalal, EME	IC-49990 Rajesh Kumar, Arty
IC-49946 Jacob G Podipara, Engrs	IC-49991 Jitender Singh Bangar, Inf
IC-49947 Vinay Mohan Kala, Sigs	IC-49992 Zohair Ibn Salma Yazdani, Arty
IC-49949 Devsheesh Chowdhury, Arty	IC-49993 Vinay Sudhakar Panchpor, Int
IC-49950 Pankaj Yadav, Engrs	IC-49995 Arvind Kumar, EME
IC-49951 Ramanuj Singh, Arty	IC-49996 Kuldeep Singh, ASC
IC-49952 Gummadi Srinivas, Arty	IC-49997 Gude Venkata Subba Rao, ASC
IC-49953 Amandeep Singh Grewal, ASC	IC-49998 Navneet Jaryal, Inf
IC-49954 Karan Singh Dahiya, Inf	IC-49999 Rakesh Bhanwala, Arty
IC-49955 Vivek Lall, Inf	IC-50000 Rajeev Kumar, AOC
IC-49956 Sanjeev Kumar Singh, AOC	IC-50001 Rajan A Y, Inf
IC-49957 Vinay Kumar Nagyal, AC	IC-50002 Sameer Lamba, ASC
IC-49958 Nagesh Kumar Rana, Sigs	IC-50003 Partha Pratim Barik, Int
IC-49959 Pankaj Pachnanda, AOC	IC-50004 Mohan Pal Singh, Arty
IC-49960 Gurpreet Singh, ADA	IC-50005 D Vinod, Engrs
IC-49961 Gyanendra Trivedi, Arty	IC-50006 Rajesh Kumar Ahlawat, Inf
IC-49962 Man Prakash, Inf	IC-50007 Vikram Bhushan, EME
IC-49963 Ravinder Singh, EME	IC-50008 Sanjay Prakash Sinha, Inf
IC-49964 Rajesh Kaswan, Inf	IC-50009 Sartaj Dhillon, Inf
IC-49965 Deepak Ahuja, Arty	IC-50010 Subin Balakrishnan, Inf
IC-49966 Shivendra Singh Negi, Inf	IC-50011 Vijay Kotiyal, Sigs
IC-49967 Ajit Singh Walia, Inf	IC-50012 Jai Deep Lanba, Inf
IC-49968 Sanjay Kumar, Sigs	IC-50013 Jai Prakash kaushik, Mech Inf
IC-49969 Kamat Ashwin, Inf	IC-50014 Wagh Girish Gulab, Engrs
IC-49970 Suresh Pal Singh, ADA	IC-50015 Ajay Ahuja, Inf
IC-49971 G Vakshalam, EME	IC-50016 Balbir Singh Siwach, Inf
IC-49972 Ranbir Singh Pathania, AC	IC-50017 Vikas Puri, EME
IC-49974 Pravin Y Dabholkar, Inf	IC-50018 Manish Kumar, Arty
IC-49975 Vijender Singh Dahiya, Inf	IC-50019 N Srinivasan, Int
IC-49976 Simer Preet Singh Cheema, Inf	IC-50020 Pijush Mukhopadhyay, AOC
IC-49977 Neeraj Chauhan, Engrs	IC-50021 Nanna Paneni Satish Kumar, Arty
IC-49978 Daryll Pereira, Engrs	IC-50022 Prakash B Birdar, Arty
IC-49980 Ashak Kumar Dalal, AC	IC-50023 Prasanna Kumar, ASC
IC-49981 Dipendra Rawat, Arty	IC-50024 Ravi Reddy, Engrs
IC-49982 Raizada Nirav Kumar Krishnasinh, Arty	IC-50025 Vinay Gupta, EME
IC-49983 A Ramakrishnan, Sigs	IC-50026 Deepak Kumar Singh, Sigs

IC-50027 Amar Singh Khangarot, Inf	IC-50071 Ashok Dahiya, ASC
IC-50028 Pramod Pathak, Inf	IC-50072 Garikapati Venkata Arudra, Arty
IC-50029 Piyush Seth, Arty	IC-50074 Gurjeet Singh, Inf
IC-50031 Rohitash Kumar, ASC	IC-50075 Gyanendra Kumar Jha, ASC
IC-50032 Satinder Singh, Inf	IC-50076 Karminder Singh Ghuman, Mech Inf
IC-50033 Rohit Kataria, AC	IC-50077 R Sriram, Engrs
IC-50034 Vinod Kumar Nambiar, Inf	IC-50078 Vineet Sehgal, Arty
IC-50036 Vinay Kumar Pundir, Arty	IC-50079 Anoop Kumar Kadyan, Inf
IC-50037 Sanket Pande, Inf	IC-50080 Yashpal Singh Ahlawat, Inf
IC-50038 Nalin Chauhan, EME	IC-50082 Om Prakash Rai, Inf
IC-50041 Jitendra Singh, ASC	IC-50083 Sujeet Jain, Arty
IC-50042 Ragbir Singh, Arty	IC-50084 Manish Kumar Kochhar, Sigs
IC-50043 Rajendra Singh Dhaila, Arty	IC-50085 Manish Bambha, Arty
IC-50044 Ambarish Tiwari, Inf	IC-50086 Sunil Arora, EME
IC-50045 Nagender S P Bisht, Inf	IC-50087 P P T Yeole, Engrs
IC-50046 Prem Raj R, Mech Inf	IC-50088 Shailesh Kumar Singh, Arty
IC-50047 Umesh Verma, AC	IC-50089 Arvind Singh Bedi, Inf
IC-50048 W Joy Kumar Singh, AOC	IC-50090 Gautam Mahajan, Sigs
IC-50050 Hemant Kapoor, Engrs	IC-50091 Mool Raj Singh Sarmal, AOC
IC-50051 Shibaji Das, Inf	IC-50092 Harinder Pal Singh Ahlawat, AOC
IC-50052 Ajay Kumar Raina, Arty	IC-50093 Gurpreet Singh, Arty
IC-50053 Neeraj Khurana, AOC	IC-50094 Rajinder Singh Kohli, EME
IC-50054 Sanjeev Anand, Inf	IC-50095 Rahul Batra, EME
IC-50055 Mayank Chaubey, AOC	IC-50096 Pankaj Sharma, Inf
IC-50056 Virendra Samant, ADA	IC-50097 Deep Kumar Rana, AOC
IC-50057 Raman Deep Singh, Engrs	IC-50098 Muppaneni Tiruputhi Swamy, ASC
IC-50058 Shailendra Kumar Mehra, Inf	IC-50099 Inder Deep Singh Bhalla, Inf
IC-50059 Yogesh Kumar Ahuja, Engrs	IC-50100 Rajinder Mehta, Arty
IC-50060 Rajeev Chawla, Inf	IC-50101 Ravindra Singh, Engrs
IC-50061 Sanjay Chhabra, AC	IC-50102 Krishna Murari Singh, Inf
IC-50062 Gene Noel Desouza, Sigs	IC-50103 Pavan Tiwari, Sigs
IC-50063 Dattatraya Jayasing Ingawale, AC	IC-50104 Dinesh Singh Bisht, Inf
IC-50064 Shantanu Mukharjee, Engrs	IC-50105 Shivinder Singh, Int
IC-50065 Naveen Gopal, EME	IC-50106 Neeraj Punetha, Inf
IC-50066 Devendra Krishna, Inf	IC-50107 Gurjeet Singh Bachchal, Mech Inf
IC-50067 Rajeev Kumar Dixit, Inf	IC-50108 Rakesh Kumar, Engrs
IC-50068 Amit Kumar, EME	IC-50109 Amit Kohli, Engrs
IC-50069 Anil Thakur, Arty	IC-50111 Pratim Kumar Hemrom, Inf
IC-50070 Kumara Venkata Kameshwara Prakash, Inf	IC-50113 Jagdish Singh Kandwal, Inf

IC-50114 G. Rushi Kesavan, Int	IC-50160 Vikas Singh Brar, Inf
IC-50115 Sanjay Kumar Rai, ADA	IC-50161 Mahavir Singh Rawat, Mech Inf
IC-50116 Neel Kamal, ASC	IC-50162 K N Suresh Kumar, EME
IC-50117 Pushpinder Singh, Arty	IC-50163 Marada Venkata Ganapathy, Inf
IC-50118 L Chandrasekhar Naidu, ASC	IC-50164 Nabendu Chakraborty, Engrs
IC-50120 Aniruddha Madhukar Shende, Arty	IC-50165 Swadeep Singh Chauhan, Inf
IC-50121 Sandeep Natu, EME	IC-50166 Narender Singh Bahchal, EME
IC-50122 Bhavesh Manish Anand, Arty	IC-50167 Nitesh Jangid, Inf
IC-50124 Kamal Singh, Inf	IC-50169 Maheshwar Singh Gurung, Inf
IC-50125 Rohan Anand, Inf	IC-50170 Vidhan Chandra Sharan, AOC
IC-50126 Kolekar Shrikant Appasaheb, AC	IC-50171 Subhashish Chakravorty, Arty
IC-50127 Ajit Singh Sambyal, Sigs	IC-50172 Anurag Saxena, Sigs
IC-50128 Raahdeep Singh Dhir, EME	IC-50173 Parag Pandey, AOC
IC-50129 Samarth Nagar, AC	IC-50174 Sajal Jain, Inf
IC-50130 Bali Anil Jagal Kishore, Sigs	IC-50175 Rakesh Budhani, Inf
IC-50131 Sunil Kumar, Inf	IC-50176 S V Sharanappa, Mech Inf
IC-50132 Satyendra Singh Yadav, EME	IC-50177 Harendra Pal Singh Bhati, Arty
IC-50133 Ratan Samadder, ASC	IC-50178 Lalit Kumar Deolal, Inf
IC-50134 Indranil Chakravarty, Arty	IC-50179 Puneet Srivastava, Arty
IC-50135 Brucee Jlee, Engrs	IC-50180 Dhundi Raj GC, Int
IC-50136 Niket Suda, Engrs	IC-50181 A R Ramkrishnan, Arty
IC-50137 Narayana Reddy, Inf	IC-50182 Bharat Chevur, AOC
IC-50138 Potluri Visveswar Rao Sitaramaiah, Inf	IC-50183 G Kartik, Arty
IC-50139 Sanjeev Hazarika, Inf	IC-50184 Arvind Shahi, Inf
IC-50140 Mohan Ravi Rao, Arty	IC-50185 Neeraj Nehta, EME
IC-50143 Ashish Kumar Subba, Inf	IC-50186 Kuldeep Singh, Inf
IC-50144 Malapati Ravi Kumar, ASC	IC-50187 S Sekhar, Arty
IC-50145 Rajender Singh, Inf	IC-50188 Rajesh Gandhi, EME
IC-50146 Rakesh Ashok Pedram, Engrs	IC-50189 Rajeshwar Singh, Inf
IC-50147 Aniruddha Roy, Sigs	IC-50190 Varun Sehgal, AC
IC-50148 Sandeep Singh, Inf	IC-50191 Sawhney Rajan, Engrs
IC-50149 Rajendra Kumar, Arty	IC-50192 Regi Philipose, AOC
IC-50150 Amit Sehgal, Inf	IC-50193 Mohinder Lal Dhammi, AC
IC-50151 Vijay Gupta, Sigs	IC-50194 Bhupendra Singh Bhakuni, Engrs
IC-50152 Prem Singh Shekhawat, Inf	IC-50195 Anil Dhayani, ASC
IC-50153 Rajeev Tuli, Sigs	IC-50196 Samir Kashyap, Sigs
IC-50154 Sandeep Chhajuria, AC	IC-50197 Vikrant Singh, Arty
IC-50155 Dalbir Singh Chhetri, ASC	IC-50198 C A Bheema Rao, Inf
IC-50157 Tribhuvan Singh Dhami, Engrs	IC-50199 Jagmohan Singh, ASC
IC-50159 Sudhir Dube, Engrs	

IC-50201 Ajay Singh, AC	IC-50244 Chetan B N, Sig
IC-50202 Sukhdeep Singh, Inf	IC-50246 Yogender Singh, Engrs
IC-50203 Surendra Singh Bhadauria, Inf	IC-50247 Sai Arul, Sigs
IC-50204 Krishna Deep Singh, Mech Inf	IC-50248 Vivek Mehta, Sigs
IC-50205 Sudipta Pal, Arty	IC-50249 S Gopikrishna, Sigs
IC-50206 Jaswinder Singh, Inf	IC-50250 V Sudhakar, Engrs
IC-50208 V Veerabadiran, Mech Inf	IC-50251 Ripu Soodan, Engrs
IC-50209 Aashutosh Sharma, Sigs	IC-50252 Biju Shantharam, EME
IC-50210 K Ganesh, Inf	IC-50253 Sunil Gadru, EME
IC-50211 Sanjay Makkar, AC	IC-50254 Satish Ramanand, Sigs
IC-50212 Nipun Vohra, AOC	IC-50255 Hira Lal, EME
IC-50213 Inderpal Singh Chahal, Inf	IC-50256 Jeetinder Pal Singh, Engrs
IC-50214 Ankur, Engrs	IC-50257 D'cunha Sumer Ivan, ADA
IC-50215 Rhitwik Lahiri, Arty	IC-50258 Sudhir MR, Engrs
IC-50216 Maninder Singh, Arty	IC-50259 T V Kamarudeen, EME
IC-50217 Vinod Kumar Kaul, Inf	IC-50261 Pranay Kumar, Engrs
IC-50218 Tribhuwan Singh Bhandari, Inf	IC-50262 Ganesh Chandra Mohanta, AEC
IC-50219 Uday Verma, ASC	IC-50263 Sudesh Kumar, EME
IC-50220 Venu Krishna Annapantula, ADA	IC-50264 Terry Thomas, Sigs
IC-50221 Neeraj Rana, Sigs	IC-50265 Rajguru Prashant Sham Rao, Sigs
IC-50222 Iyapa K C, AC	IC-50266 Mukul Sisodia, Engrs
IC-50223 C K Mathew, EME	IC-50267 Malikarjuna, EME
IC-50224 Sandeep Kumar, Arty	IC-50268 Ram Kishore B, EME
IC-50225 Alok Chandra, EME	IC-50269 Rohit Mittal, MF
IC-50226 Singh Ajay Kumar, Inf	IC-50270 Veldurthy Vasudev Rao, EME
IC-50227 Kuldeep Singh Tyagi, Arty	IC-50271 Sanjay Pradhan, Engrs
IC-50229 Debashis Nag, Inf	IC-44473 Ravi Murugan, Mech Inf
IC-50230 Pramukh Kumar, Engrs	IC-44474 R R Raina, Mech Inf
IC-50231 Bhoopendra Pal Singh, Engrs	IC-44475 Akashdeep Bhanot, AC
IC-50232 Sachin Batra, Arty	IC-44476 L C Dahiya, Mech Inf
IC-50233 Mool Chand, ASC	IC-44477 Vijay Singh, AC
IC-50235 Repu Daman Singh Rana, EME	IC-44478 Arvinder Singh, AC
IC-50236 Maneesh Rai, Sig	IC-44479 D K Sehrawat, AOC
IC-50237 Vijay Sharma, Engrs	IC-44481 K P S Rana, Mech Inf
IC-50238 Rajesh Bakshi, Inf	IC-44482 M N Vasudeva, Engrs
IC-50239 Maneesh Sehgal, Inf	IC-44483 Yogesh Viriley, Inf
IC-50241 Suresh Sharma, Arty	IC-44484 Sunil Sharma, Engrs
IC-50242 Devneet Singh Loomba, Engrs	IC-44486 Sudhir Nagpal, AVN
IC-50243 Sanjay Kaushal, EME	IC-44488 G S Daveta, Arty

IC-44489 Vinesh Rana, AOC	IC-44529 Michael James, AC
IC-44490 Manoj Kumar, Inf	IC-44530 Navneet Chabra, Inf
IC-44491 Jasbir Singh, Inf	IC-44531 S K Sharma, Arty
IC-44492 A A Zaki, Inf	IC-44532 Sanjiv Haldia, ASC
IC-44493 N A Vinod, AVN	IC-44533 R Peters, Inf
IC-44495 N S Rawat, AOC	IC-44534 Deepak Mahajan, Sig
IC-44496 Manoj Yadav, Inf	IC-44535 R Vijay Venketesh, Inf
IC-44497 Manohara Shinde, ASC	IC-44537 Rajeev Lal, Arty
IC-44498 Ram Chander Tiwari, Inf	IC-44538 R Nair, Inf
IC-44499 D C D'costa, Inf	IC-44540 R Khan, Inf
IC-44500 Vijay Pal Singh, Engrs	IC-44542 L M Kandpal, Inf
IC-44501 A K Verma, Inf	IC-44543 A S Ghumman, Arty
IC-44502 U S Sengupta, EME	IC-44544 Shiraz Varma, AC
IC-44503 Kamal Kumar Chand, Arty	IC-44545 A Sengupta, Inf
IC-44504 Gurbirpal Singh, Inf	IC-44546 S K Sengar, Inf
IC-44505 Sanjay Bose, Inf	IC-44547 R K Sachdeva, Engrs
IC-44506 R S Dadwal, Inf	IC-44548 Anil Bhargava, Sig
IC-44507 Viney Handa, Arty	IC-44551 S K Verma, Arty
IC-44508 A R Sharma, AOC	IC-44553 A K Shukla, Inf
IC-44509 S Sharma, Sig	IC-44555 N S Bains, Engrs
IC-44510 Rajiv Sethi, Arty	IC-44556 Manoj Gupta, Arty
IC-44511 Vipul Segan, Sig	IC-44557 C A Minwalla, Mech Inf
IC-44512 M K Choudhary, Arty	IC-44558 S V Damle, Engrs
IC-44513 Ramesh Balan, Sig	IC-44559 Sandeep Malik, AC
IC-44514 K K Singh, ASC	IC-44560 Amrik Singh, Sig
IC-44515 V Sreehari, Inf	IC-44561 Rajesh Kumar, EME
IC-44516 Sukhjinder Singh, ASC	IC-44563 Bubesh Kumar S, Inf
IC-44517 Anupam Sharma, Arty	IC-44564 Y P Khanduri, Inf
IC-44518 A A Sharma, Inf	IC-44565 B K Singh, Inf
IC-44519 G S Nagar, ADA	IC-44566 M D Babgirao, Inf
IC-44520 M K Sharma, ASC	IC-44567 Vivek Pathak, Engrs
IC-44521 Babu Francis, Inf	IC-44568 I Visveswaran, Sig
IC-44522 S S Mishra, AOC	IC-44569 P Gupta, Inf
IC-44523 Shamvir Singh, Arty	IC-44570 N S Khroudi, Arty
IC-44524 Vikaram Aditya, Arty	IC-44571 P P S Wadhwa, Engrs
IC-44525 S Dogra, Inf	IC-44572 S Thakaran, Inf
IC-44526 Ajai Singh, Inf	IC-44573 S K Jha, Inf
IC-44527 Ashok Singh, Inf	IC-44574 S Bhadauria, Inf
IC-44528 Dilbagh Singh, Inf	IC-44575 U S Trivedi, Arty

IC-44576 Navjot Singh, Sig	IC-44618 Harish Kukreja, Arty
IC-44577 K S Pitre, Inf	IC-44619 Paramjit Singh Gothra, Inf
IC-44578 Jagbhan Singh, EME	IC-44621 Harendra Rana, Inf
IC-44579 Raobinder Singh, Inf	IC-44622 M A Khan, AC
IC-44580 Sunil Khorana, AC	IC-44623 P Shreeram, Inf
IC-44581 Parmeswaran A, Arty	IC-44624 Anurag Dutta, ASC
IC-44583 Sree Krishna, Inf	IC-44625 R S Dadhwal, Arty
IC-44584 Hem Shankar, Engrs	IC-44626 N K Goel, Inf
IC-44585 Karan Dixit, Inf	IC-44627 P K Sharma, AOC
IC-44586 Sukhwir S G, AOC	IC-44628 R Khosla, Engrs
IC-44587 Amit Loomba, AC	IC-44630 Jagdish Lal, ASC
IC-44588 Rohit Dalal, Arty	IC-44631 Kushik Banerjee, Arty
IC-44589 Arun Kumar, ASC	IC-44632 M D Nair M M, Engrs
IC-44590 M Pandey, Arty	IC-44633 Rajesh Khurana, Engrs
IC-44591 D K Tyagi, ASC	IC-44634 S C Sharma, Arty
IC-44592 Amarjit Jha, Inf	IC-44635 R S Bhadauria, Arty
IC-44594 S K Obheroi, Inf	IC-44636 Rohit Kapila, AOC
IC-44595 Virander Kumar, ASC	IC-44637 Verender Luthra, Inf
IC-44596 P Puri, Engrs	IC-44638 Amit Pandey, Inf
IC-44597 Binod Kumar, Arty	IC-44639 S P Singh, Inf
IC-44598 R K Bhatia, Int	IC-44640 Vimal Kumar Sharma, ASC
IC-44599 Arun Sharma, Arty	IC-44641 Vijay Kumar Rai, Inf
IC-44600 Srinivas Raghavan, Mech Inf	IC-44642 Jagdish Chand, Arty
IC-44601 M R Shinde, Sig	IC-44643 S K Sharma, Inf
IC-44602 S B Singh, Arty	IC-44644 A B S Ghotra, Inf
IC-44603 V Kashyap, AC	IC-44645 S K Dikshit, AC
IC-44604 Anil Nautiyal, Inf	IC-44646 Jang Bhadur Singh, Arty
IC-44605 B K Rattan Pal, Inf	IC-44647 Rajesh Mahajan, Engrs
IC-44606 A Handa, Inf	IC-44648 G C Gaur, Inf
IC-44607 S K Dey, Arty	IC-44649 Tarun Tiwari, Inf
IC-44608 Kuldip Saigal, AOC	IC-44650 Sandeep Rao, Inf
IC-44610 Anil Thakur, Arty	IC-44651 C S Prabhakar, Mech Inf
IC-44611 R P Singh, Arty	IC-44652 Verinder Sharma, Inf
IC-44612 A Bhardwaj, Mech Inf	IC-44653 A K Kaushik, Sig
IC-44613 Rajbir, Inf	IC-44654 D S Shishodia, Inf
IC-44614 S P Sinha, Arty	IC-44655 Sanjkay Kumar Dhar, Int
IC-44615 Jagjit Singh, AOC	IC-44656 Malay Kumar, Arty
IC-44616 Deepak Rampal, Inf	IC-44657 R Bhatia, Arty
IC-44617 Rakesh Deswal, Inf	IC-44658 S S Ahlawat, ASC

IC-44659 A K Vasudevan, Sig	IC-44703 Thomas Kurubilla, Inf
IC-44661 Jeetsnder Gulati, Arty	IC-44704 Y S Gill, Inf
IC-44662 Pankaj Kumar, Inf	IC-44707 Harinder Singh, EME
IC-44663 Ajit Singh, AOC	IC-44708 Rajeev Sharma, Arty
IC-44664 Y S Rana, Inf	IC-44709 Peeyush Sharma, Arty
IC-44665 Navin Chander Joshi, AC	IC-44710 Manoj Thakur, Inf
IC-44667 A K Tewari, AC	IC-44711 Deepak Verma, AOC
IC-44668 S K Prasad, Arty	IC-44712 S K Bakshi, ASC
IC-44669 N K Sharma, Inf	IC-44713 A S Dhillon, AC
IC-44670 V Sharma, Arty	IC-44714 S Johari, Engrs
IC-44672 D S Navraj, Mech Inf	IC-44715 Narinder Bahl, Mech Inf
IC-44673 A K Sharma, Inf	IC-44716 J B Singh, Inf
IC-44674 Dilbag Singh, AOC	IC-44717 Manjit Singh, Arty
IC-44675 Sanjay Gupta, Inf	IC-44718 Venkat Reddy, AOC
IC-44676 Dileep Kumar S, Mech Inf	IC-44719 Kamesh Kumar, Sig
IC-44677 B M Pathak, Arty	IC-44720 O P Misra, Arty
IC-44678 J P S Uppal, Inf	IC-44721 J A Mir, Inf
IC-44679 Satyavir Singh, Inf	IC-44722 B S Bali, Inf
IC-44680 Deepak Sharma, Engrs	IC-44723 Banwari Lal, AC
IC-44681 Samir Anukul, Inf	IC-44724 D Singhal, Arty
IC-44682 Siddharth, Inf	IC-44726 S S Jamwal, Inf
IC-44683 Atul Yadav, Inf	IC-44727 Sanjeev Yadav, Arty
IC-44684 S K Singh, Sig	IC-44728 Hamant Tiwari, Inf
IC-44685 Yogendra Kumar, Sig	IC-44729 P S Sehrawat, Inf
IC-44686 Awadesh Singh, Engrs	IC-44730 J S Kang, Inf
IC-44687 K S Ganesam, Engrs	IC-44731 Sushil Wali, Inf
IC-44688 D S Yadav, Sig	IC-44734 M K Sharma, ASC
IC-44689 Bhardwaj JS, Inf	IC-44735 Om Prakash, Arty
IC-44690 Deepak Joshi, Inf	IC-44736 Sanjay Maini, AC
IC-44691 M K Moudgil, Engrs	IC-44737 Vinay Kumar Chouhan, Arty
IC-44692 M S Dawra, Arty	IC-44738 Joshi Joseph, Mech Inf
IC-44693 J S Kanwar, Inf	IC-44739 Ashwani Kumar, Arty
IC-44694 Ashok Choudhary, ASC	IC-44740 Roopam Rudra, Arty
IC-44695 A P Tripathi, Inf	IC-44741 A K Mehrotra, Inf
IC-44696 Anil Kumar, Arty	IC-44742 S K Singh, Arty
IC-44697 S P Patial, AOC	IC-44743 Rajinder Singh, Inf
IC-44698 M K Yadav, ASC	IC-44744 Satish Mallik, Inf
IC-44701 Manoj Kumar, Inf	IC-44745 V S Khatana, Sig
IC-44702 Returnj Narukha, Arty	IC-44746 S S Sandhu, Arty



IC-44748 Sanjay Kapur, Engrs	IC-44790 Prem Chand, Engrs
IC-44749 Rajesh Kumar Wasn, EME	IC-44791 Sameer Anand, Inf
IC-44750 D K Pathak, Inf	IC-44793 S K Bose, Arty
IC-44751 P S Gulia, ASC	IC-44795 Arun Chopra, AOC
IC-44752 N S Bisht, Sig	IC-44796 N Babu K S, Arty
IC-44753 S J David, Inf	IC-44797 Vijay Kumar, AC
IC-44754 D C Ragunath, Inf	IC-44798 Rajeev Kumar, Engrs
IC-44755 Lokesh, Engrs	IC-44799 R K Verma, ASC
IC-44756 Anand Srivastava, Arty	IC-44800 A K Shukla, Arty
IC-44757 S Tripathi, Arty	IC-44801 N K Mathur, Inf
IC-44758 S K Gupta, AOC	IC-44802 B S Rao, Inf
IC-44759 M Jogdand, Inf	IC-44803 B Jayadeva, Inf
IC-44760 Girish Kandpal, EME	IC-44804 M Singh Randhawa, Inf
IC-44762 Rajeev Joshi, ASC	✓ IC-44806 Sanjeev Soni, Inf
IC-44763 B C Julian, Engrs	IC-44807 Surya Sen, Arty
IC-44764 V P S Narula, Mech Inf	IC-44808 Sandeep Bhargava, Arty
IC-44765 Yadvender Sood, Arty	IC-44812 S S Bajaj, Inf
IC-44766 R S Dogra, Inf	IC-44813 Arvind Sharma, Inf
IC-44767 N S Sandhu, Engrs	IC-44814 Subash Sehgal, Arty
IC-44768 B K Paliwal, Inf	IC-44815 Bhupinder Singh, Inf
IC-44769 J J S Gili, Inf	IC-44816 Bablu Mandi, Inf
IC-44770 P S Bajwa, Inf	IC-44818 K Bhattacharyya, Arty
IC-44771 D P Mathews, Inf	IC-44819 Rajeev Vasandani, Sig
IC-44772 Indervir Singh, ASC	IC-44820 Sunny K A, Engrs
IC-44773 Deepak Chopra, AC	IC-44821 J S Chouhan, Mech Inf
IC-44774 Shrikanta Paul, Arty	IC-44822 A K Singhal, AC
IC-44776 G C Pathak, Inf	IC-44823 Ahmed Malik, Arty
IC-44777 R S Shankar, Int	IC-44824 A Sunderlal, ASC
IC-44778 Mukash Rangra, Arty	IC-44825 Sanjaya Kumar, Engrs
IC-44779 Sanjeev Sinha, Inf	IC-44826 Sree Kumar K, Inf
IC-44780 Surjit Singh, AOC	IC-44827 Birendra Bishi, Arty
IC-44781 Atul Madhok, AC	IC-44828 Vijai Kristopher Dattaatta, Arty
IC-44782 R K Varma, Arty	IC-44829 Kuldip Singh, AC
IC-44784 Q A Siddiqui, Arty	IC-44831 S V Zaverbhi, Arty
IC-44785 T Anand, Sig	IC-44832 Rajesh Gupta, Mech Inf
IC-44786 Rajiv Kumar Gosain, AOC	IC-44833 A S Parmar, Inf
IC-44787 Mayan George, Int	IC-44834 B S Rathore, Arty
IC-44788 Lakhwinder Singh, Inf	IC-44835 Jaideep Sethi, Sig
IC-44789 K K Sharma, Int	IC-44836 Surene Subiah, Inf

IC-44837 M C Kuthari, EME	IC-44885 Rajesh Jayaswal, EME
IC-44838 P K Shukla, Inf	IC-44886 Rajiv Sharma, Sig
IC-44839 Ishrat Nabi, Inf	IC-44887 Rajeev Agarwal, Engrs
IC-44841 N S Thapa, AOC	IC-44889 T K Bhattacharya, Engrs
IC-44842 Sandeep Kumar, ASC	IC-44890 Deviah B N, Engrs
IC-44843 Gopal Verma, AOC	IC-44891 Sham Sunder N, EME
IC-44844 Sanjay Johri, AOC	IC-44892 B K Singh, Engrs
IC-44845 R P Singh, Int	IC-44893 M K Singhal, Engrs
IC-44846 Sanjay Bhardwaj, AC	IC-44895 Tony Varghese, Engrs
IC-44847 Naushad Alam, Sig	IC-44896 M Baskaran, Engrs
IC-44848 Sanjay Singh Karki, Engrs	IC-44897 A K Ray, Engrs
IC-44849 S K Singh, Inf	IC-44898 A Deshpande, Engrs
IC-44850 H V Thakur, Inf	IC-44899 Shivkumar A K, Engrs
IC-44851 S K Bhardwaj, ASC	IC-44900 G Singh, Engrs
IC-44852 M N Gopal, Inf	IC-44901 Sanjay Sharma, Engrs
IC-44853 Umendra Kumar, Inf	IC-44902 Sanjay Sharma, EME
IC-44856 Vikram Joshi, Engrs	IC-44903 K Madhusudan Rao, EME
IC-44859 G P Misra, Engrs	IC-44904 Badal Kumar Pandey, EME
IC-44860 Rajiv Manglik, Engrs	IC-44905 Sachin Marawaha, EME
IC-44861 Jose K P, Engrs	IC-44906 Nataraj Kuppasad, EME
IC-44862 Om Parkash Yadav, EME	IC-44907 R K Sen, Sig
IC-44863 Vishna Lalchandani, EME	IC-44908 M K Sharma, Engrs
IC-44865 Ravindra Mehta, Sig	IC-44909 S M Kulkarni, Engrs
IC-44866 Sukhpal Singh, Sig	IC-44910 R Bala Subramaniam, EME
IC-44867 Atul Thapliyal, Sig	IC-44911 Rajeev Dobhal, Sig
IC-44868 R Sharma, Engrs	IC-44912 Ramesh Kumar P, EME
IC-44869 Rajeev Kumar Singh, EME	IC-44913 Probhas Bose, EME
IC-44870 D M Gupta, Engrs	IC-44914 N K Jain, Engrs
IC-44873 Adarsh Bhardwaj, EME	IC-44915 A K Sinha, Engrs
IC-44874 M M Majumdar, Engrs	IC-44916 R D S Chauhan, EME
IC-44875 Haridas Bhaskaran, EME	IC-44917 Vidya Sagar, Engrs
IC-44876 Krishna Kishore, Engrs	IC-44918 S K Shankhyan, Engrs
IC-44877 Srinivasan G, EME	IC-44919 A V Ramesh, EME
IC-44878 Rishi Raj Singh, AEC	IC-44920 H K Rath, Engrs
IC-44879 R S V Raman, EME	IC-44921 S L Joshi, EME
IC-44880 Ajay Gosh P K, EME	IC-44922 Ramesh Palliserry, Sig
IC-44881 Sunil S, EME	IC-44924 Raghubir Singh, Engrs
IC-44882 S S Kapoor, Engrs	IC-44925 SP Balkrishnah, Sig
IC-44883 Sunny Thomas, EME	IC-44927 MP Sen, Sig

IC-44928 DK Agrawal, Engrs	IC-44974 VK Sharma, Sig
IC-44931 Suresh K, Engrs	IC-44975 Rajshekhar S Hiremath, Engrs
IC-44932 AK Singh, Engrs	IC-44976 T Hegde, EME
IC-44933 SS Patil, Engrs	IC-44977 YR Sekhar Reddy, Engrs
IC-44934 AK Tewari, AEC	IC-44978 SK Karodpati, Engrs
IC-44935 SK Ayyangar, Engrs	IC-44979 RV Subrahmanya Prasad, AEC
IC-44936 C Ravindra Reddy, AEC	IC-44980 GLN Keshav, Engrs
IC-44937 RC Joshi, Engrs	IC-44981 CD Bharucha, Sig
IC-44938 BS Gokula, AOC	IC-44982 Arun Kumar, Sig
IC-44939 Mohamed Rafiuddin, EME	IC-44985 Prakash Kumar MP, Engrs
IC-44940 V Pramod Kumar, Sig	IC-44986 S Khare, Sig
IC-44941 DD Padhi, Engrs	IC-44987 SK Datta, Engrs
IC-44942 Dinesh Jain, Engrs	IC-44988 Upender Kumar Sharma, AEC
IC-44944 MK Dadhichi, EME	IC-44989 Sanjay Singh, Sig
IC-44945 KA Siddiqui, Engrs	IC-44990 PR Prasad Raju, Engrs
IC-44946 Jamshaid Akhtar, Engrs	IC-45795 Vikram Singh, Inf
IC-44947 Naresh Gupta, Engrs	IC-45797 Anil Beniwal, Inf
IC-44948 Deepak Singh, Engrs	IC-45799 MK Tiwari, AOC
IC-44949 BS Narayan, EME	IC-45800 Pradeep Lamba, AC
IC-44950 AM Ramachandra, Sig	IC-45801 Sran Gurvinder Singh, ASC
IC-44951 G Nair, Engrs	IC-45802 Ramesh Singh Kandwal, Inf
IC-44952 Digvijai Sharma, EME	IC-45803 Subodh Kumar Shahi, Mech Inf
IC-44954 SV Chandran, Engrs	IC-45804 Vidya Sagar Yadav, Engrs
IC-44955 S V Gopalan, Engrs	IC-45805 Chandu Mukesh Rao, Inf
IC-44956 Sriram Kelaneya, Engrs	IC-45807 Dinesh Shrivastava, Inf
IC-44957 GYS Reddi, EME	IC-45808 Shailendra Prasad Kukrety, Sig
IC-44958 AK Gupta, Engrs	IC-45809 Harsh Deep Sharma, Inf
IC-44959 Raghu K, AEC	IC-45810 Sunil N Tandale, Inf
IC-44961 Shafique Alam MD, Engrs	IC-45811 Ajay Kumar Dubey, Inf
IC-44962 Yogesh Jain, Sig	IC-45812 Anil Sehgal, EME
IC-44963 Rajan K Tharu, Engrs	IC-45813 Saurabh Bhardwaj, Inf
IC-44964 TVS Raghava, Sig	IC-45814 Anurag Bhatnagar, ADA
IC-44966 SS Chaudhary, Sig	IC-45816 Pramod Vo, Arty
IC-44967 GDG Prasad Raju, Engrs	IC-45817 Naresh Kumar Chhibber, Inf
IC-44968 RD Singhal, Engrs	IC-45818 Josy Joseph Kunju Kunju, Inf
IC-44970 Venudhar Singh, AEC	IC-45819 Kshitij Srivastava, Arty
IC-44971 Radhakrishnan N, EME	IC-45820 Shobir Singh Saharan, Inf
IC-44972 Anil Kumar, Engrs	IC-45821 US Phulari, Arty
IC-44973 Vijay Singh, EME	IC-45822 Bhupinder Jit Singh Ghataura, Engrs

IC-45823 Sudeep Singh Madra, Inf	IC-45867 Rahul Sharma, Inf
IC-45824 Rameshwar Sharma, Inf	IC-45868 AN Venkatesh, EME
IC-45825 Sunil Sharma, Inf	IC-45869 T Lakshmana Kumar, Arty
IC-45826 Divya Raj Singh Shaktawat, Inf	IC-45870 Shamik Dutta, Inf
IC-45827 Mukal Bhatia, Arty	IC-45872 Daljit Singh, Inf
IC-45828 Arun Krishan Singh, Inf	IC-45873 Vinod Kumar C, ASC
IC-45829 Rajiv Nagpal, Inf	IC-45874 Aditya Shankar Choudhri, Arty
IC-45830 Sumesh Kumar Gosain, Int	IC-45875 Amitabh, Inf
IC-45831 Vinod Kumar Phogat, Inf	IC-45877 Kamal Singh, Inf
IC-45832 Kanwar Pradeep Singh, ASC	IC-45878 Sanjeev Anand, Engrs
IC-45833 Harinder Singh Yadav, Inf	IC-45880 Vijay Kumar Chhikara, Inf
IC-45834 Gurinder Singh Dhillon, AOC	IC-45881 Sukhdev Singh, Mech Inf
IC-45835 Jasbir Singh, Inf	IC-45882 Somendra Krishna Gupta, AC
IC-45836 Girish Parashar, Inf	IC-45883 Arun Sharma, JAG
IC-45837 PM Muthappa, Inf	IC-45884 M Suresh Reddy, Sig
IC-45838 Devendra Singh, Inf	IC-45885 Sanjay Nagi, ASC
IC-45839 Sanjay Kumar Srivastava, Arty	IC-45886 Sainnath Gopinath, EME
IC-45840 N Raghunath, AC	IC-45888 C Vasistaram Sarma, EME
IC-45841 Naresh Patrick, EME	IC-45889 Pradeep Vasudeo, Arty
IC-45842 Dharam Veer Singh Dhesi, Mech Inf	IC-45890 Durga Dutt Baloni, Inf
IC-45843 Vijender Singh Ralhi, Sig	IC-45891 Ramesh Yadav, Arty
IC-45844 Ravi Chaudhry, ADA	IC-45892 Pankaj Shrivastav, Inf
IC-45846 Vinay Pant, Inf	IC-45893 Mohmmad Ahsan Siddiqui, Inf
IC-45847 Om Parkash Ojha, Arty	IC-45894 Abhaya Vetekar, Inf
IC-45848 Ghatnekar Praphou Govind, EME	IC-45895 Prabhat K Prasad, EME
IC-45849 Sanjay Pande, EME	IC-45896 Yogesh Kumar Bhatti, Inf
IC-45851 Saumya Priya Mukherjee, Inf	IC-45897 Sunil Kumar Sinha, Inf
IC-45852 Anil Raj Singh Kandari, ASC	IC-45898 Amar Pal Singh, Arty
IC-45853 Kuljeet Jaiswal, Arty	IC-45899 Fatendra Singh Bhadoria, AOC
IC-45854 Brinder Singh Gill, Arty	IC-45900 Sanjay Kumar Razdan, Engrs
IC-45855 Yagyapal Nagar, AC	IC-45901 Rajesh Nandal, Engrs
IC-45857 Khemchandra Patil, EME	IC-45902 Sunil Dutt Pathak, Mech Inf
IC-45858 Hejib Gopinath Khanna Rao, Sig	IC-45909 Vijay Singh Rawat, Inf
IC-45859 Mohan Lal Chatta, Inf	IC-45910 Rajneesh Kackar, AC
IC-45860 Manmohan Madan, AOC	IC-45911 Dharmendra Sirohi, EME
IC-45862 Karandeep Singh Khurana, Inf	IC-45912 MC Jayakrishnan, AOC
IC-45863 Vikas Rana, Engrs	IC-45913 Sudhir Kashyap, MF
IC-45864 Jugraj Singh Sidhu, Arty	IC-45914 Kapil Jit Singh Rathore, Arty
IC-45866 Ajay Sood, Arty	IC-45916 Ranbir Singh Sehgal, EME

IC-45917 CP Premvas, Arty	IC-45959 Dharmendra Kumar Pal, ASC
IC-45918 Kunwar Ajay Singh, ADA	IC-45960 Sanjay Yadav, Arty
IC-45919 Bijender Singh Khokhar, Engrs	IC-45961 Paresch Dave, AOC
IC-45920 Sanjay Kahol, Arty	IC-45962 Rajesh Kumar Giroti, Arty
IC-45921 Gurvinder Singh Sodhi, AOC	IC-45963 Vineet Seth, Inf
IC-45922 Jayant Mohan Singh Negi, Inf	IC-45965 Vichitra Singh Gurung, Inf
IC-45923 Ashok Chandel, Inf	IC-45967 Jyothi Bhanu, ASC
IC-45924 Ravinder Gurung, Inf	IC-45968 Diwakar Pota, Sig
IC-45925 Jitendra Singh, Sig	IC-45969 Kapil Kumar Nehra, Arty
IC-45926 Sajo Sebastian, ASC	IC-45970 Bhanu K George, EME
IC-45927 Arun Tukaram Jagdale, Inf	IC-45971 Dinesh Kumar Sood, AOC
IC-45928 Aurobindo Kumar Pandey, Arty ✓	IC-45972 Asit Kansal, Inf
IC-45929 Rupam Roy, ASC	IC-45973 Amanider Singh VEDI, AC
IC-45930 Rattan Singh Chauhan, ADA	IC-45974 Harshad Suresh Nadkarnee, EME
IC-45931 Bhupender Pal Singh, AOC	IC-45975 Rajeev Kumar Srivastava, Engrs
IC-45932 S Ramesh, AC	IC-45976 Vinay Prashar, EME
IC-45934 Parveen Chandra Vyas, EME	IC-45977 Manveet Singh, JAG
IC-45935 Neeraj Mehrotra, Arty	IC-45978 J H Sayeed, AOC
IC-45936 Harendra Singh, Inf	IC-45979 Anil Kumar Sharma, Engrs
IC-45937 Dharamveer Singh, ASC	IC-45980 Parkesh Chand Balwada, Inf
IC-45939 B Suresh Kumar, ASC	IC-45981 Neeraj Tiwari, Inf
IC-45940 MC Lavakumar, EME	IC-45982 Sunil Kumar Nirwana, ASC
IC-45941 Jigme Wangde, Inf	IC-45983 AK Vasudevan, Engrs
IC-45942 Sanjay Ahuja, AOC	IC-45984 Rajeev Mehta, ASC
IC-45943 Yash Pal Singh Rana, Arty	IC-45985 Nitin Kumar Sharma, Engrs
IC-45944 Surender Pal Verma, Arty	IC-45986 Kamal Dev, Inf
IC-45945 Vinay Krishna Kant Shrivastava, ASC	IC-45987 Vijay Singh Dalal, ASC
IC-45946 Jag Pal Singh Gill, Arty	IC-45988 Shivendra Kumar Shahi, ASC
IC-45947 Harvir Singh, EME	IC-45989 Deepak Kumar Chakraborty, Arty
IC-45948 Dinesh Kumar Singh Deo, Inf	IC-45990 Kanwarjit Singh, JAG
IC-45950 Dinesh Sharma, AOC	IC-45991 Virinder Singh, Inf
IC-45951 Prem Chand Chigilipalli, Inf	IC-45993 Satyendra Kumar Singh, Inf
IC-45952 Sonam Wangchuk, Inf	IC-45995 Narasinga Rao Vballapragada, Engrs
IC-45953 Yadram Singh Yadav, Arty	IC-45996 Pradeep Kumar Sharma, Mech Inf
IC-45954 Rajesh Kumar Chauhan, AOC	IC-45997 Gulshan Sharma, ADA
IC-45955 Sandeep S Shaligram, Arty	IC-45998 Sanjay Mishra, ADA
IC-45956 Sheel Raj Tevatia, Inf	IC-45999 Abhaya Misra, Arty
IC-45957 Arun Kumar Vashishta, JAG	IC-46000 Hamant Kumar Dogra, Arty
IC-45958 Jaideep Singh, AC	IC-46001 Anil Dev Jamwal, JAG

IC-46002 Praveen Kumar, JAG	IC-47022 Arvind Kumar Abrol, AOC
IC-46004 Sanjeev Agnihotri, AOC	IC-47023 Navneet Singh Sarna, Arty
IC-46005 Sandeep Sharma, EME	IC-47024 Ram Gopal Shukla, Arty
IC-46006 Alok Mehra, Arty	IC-47025 Sandeep Sehgal, Inf
IC-46007 Sanjeev Keserwani, ASC	IC-47026 Vikas Grover, Arty
IC-46008 Mukal Rana, Arty	IC-47027 Ajay Kalia, Arty
IC-46009 Umesh Chandra Gupta, JAG	IC-47028 Raj Mohan, Sig
IC-46010 Venkat Ramni, Inf	IC-47030 Vikram Date, Inf
IC-46011 Kamal Jeet Singh Sandhu, Arty	IC-47031 APS Rajura, Inf
IC-46012 Krishna Mohan, AOC	IC-47032 Pratik Sharma, Inf
IC-46014 Harjeet Singh Saini, Sig	IC-47033 Sanjay Thakur, Inf
IC-46015 V Suresh Nair, Inf	IC-47034 DS Rawat, Engrs
IC-46016 Vimal Narang, Arty	IC-47035 Parveen P Shinde, Inf
IC-46017 Maynak Munjal, Arty	IC-47036 Deepak Garg, Inf
IC-46018 Manovendra Chatterji, Int	IC-47037 BP Yadav, AOC
IC-46019 Kulander Dev Sharma, ASC	IC-47038 SN Tiwari, Inf
IC-46022 Miland Vasant Prabhu, EME	IC-47039 Sarwan Singh, ASC
IC-46023 Sanjay Bhargava, ASC	IC-47040 Shamsheer Yadav, Mech. Inf
IC-46024 Vivekanand, Inf	IC-47042 GV Hari Prasad, Inf
IC-46025 Himanshu Mehrish, Arty	IC-47043 Bikram Deep Singh, EME
IC-46026 Arun Kalyal, Arty	IC-47044 Sangram Shahaji Mohite, Inf
IC-46027 Charan Preet Singh Bedi, ADA	IC-47045 Ashok Kumar Bhuyan, Arty
IC-47002 Jagjit Singh Mangat, AC	IC-47046 Shailendra Malik, EME
IC-47003 Drindra Sharma, AC	IC-47047 Jai Singh Yadav, Inf
IC-47005 Chander Vijay Singh, AC	IC-47049 Jeetnder Sharma, Sig
IC-47006 R Nathawat, Mech Inf	IC-47050 Gurbir Singh Sarna, Inf
IC-47007 Ashwani Kumar Yadav, AC	IC-47051 Krishna Raj, Arty
IC-47008 Manjeet Singh Vij, AC	IC-47052 DS Yadav, Inf
IC-47009 RK Uniyal, Engrs	IC-47053 Mohan Singh Shekhawat, Inf
IC-47010 Anurag Kumar, EME	IC-47054 Hardeep Singh, Arty
IC-47011 Vinayak Saini, Engrs	IC-47055 Ashish Sharma, ADA
IC-47012 TS Mundi, AC	IC-47057 Mukesh Aggarwal, Arty
IC-47013 Deepak Mehra, Inf	IC-47058 Satbir Singh, Inf
IC-47014 Tapan Kumar Das, EME	IC-47059 Ajay Bhatia, EME
IC-47017 Deepankar Chaudhary, Inf	IC-47060 Nikash Nandan, Arty
IC-47018 Rajinder Singh, Arty	IC-47061 Vikash Sharma, ADA
IC-47019 Sandip Ghai, Inf	IC-47062 Alex Jacob, Inf
IC-47020 DS Rana, Inf	IC-47063 Sanjay Sharma, Arty
IC-47021 R Y Balkrishna, Inf	IC-47064 Manoj Natarajan, Inf

IC-47066 Sanjay Sharma, Sig	IC-47115 Prabir Barik, Inf
IC-47067 PS Samyal, Sig	IC-47116 Rajesh Kumar Hoon, Sig
IC-47068 Yogendra Kumar, AC	IC-47118 Ravi Shah, Inf
IC-47069 SS Khera, Engrs	IC-47119 Anil Kumar BK, AC
IC-47070 AM Bapat, Inf	IC-47120 Bhushan Lal, Inf
IC-47071 Kamal Singh Bhadwal, ASC	IC-47121 Anmol Sood, Inf
IC-47072 Ravindera Pratap Singh, Inf	IC-47122 Sanjay Mukherjee, Sig
IC-47073 Sanjeev Tyagi, ASC	IC-47123 JS Dhillon, Arty
IC-47075 VSK Reddy, Arty	IC-47124 Jai Shankar Prasad, EME
IC-47076 Rakesh Kapoor, AC	IC-47125 Aravind P Mulimani, ADA
IC-47077 Varinder Singh, Inf	IC-47126 Praveen Mathur, Engrs
IC-47079 Sanjay Sethi, AOC	IC-47127 Ajay Tomar, ASC
IC-47080 Vikram Jeet Singh, Inf	IC-47128 Arun Yadav, Inf
IC-47081 H R Indeer Singh Brar, Inf	IC-47129 Anupam Jain, Arty
IC-47082 Deepinder Singh Saini, Inf	IC-47130 Dinish Bhandari, AOC
IC-47083 Rajiv Kumar Singh, AOC	IC-47131 Deepak Kundra, Arty
IC-47084 PS Sangwan, Arty	IC-47132 Amit Sood, EME
IC-47085 Sharad Kaku, Arty	IC-47133 Avinash Singh Berar, Inf
IC-47086 Avadhut Deshpande, Sig	IC-47135 Kamal Singh Rawat, Inf
IC-47087 RK Sharma, ADA	IC-47136 Sandeep Kumar Ghosh, AOC
IC-47088 PG Subbapurmath, Arty	IC-47137 Ajit Singh Shekhawat, ASC
IC-47089 Surendar Singh, Arty	IC-47138 Ajay Bakshi, Inf
IC-47090 Deepak Thapa, Inf	IC-47139 Pushpendra Pal Singh, Inf
IC-47091 GRB Devanandam, AOC	IC-47140 Sahaj Kumar Sah, Inf
IC-47092 Om Prakash Rana, Inf	IC-47141 Raj Kumar Attri, AOC
IC-47094 Sandeep Sudhera, Engrs	IC-47142 Ravinder Dhankhar, EME
IC-47096 SK Vidyarthi, Engrs	IC-47143 Jatinder Kumar Gera, ASC
IC-47097 Jagroop Singh, ADA	IC-47144 Sumit Talwar, Arty
IC-47098 KA Desouza, EME	IC-47145 TK Mukherjee, Inf
IC-47099 Rajesh K Gaikwad, Inf	IC-47146 Mandip Singh Gill, Arty
IC-47101 Maneesh Gosain, ASC	IC-47147 Shireosh Bhatia, EME
IC-47104 Sanjay Kumar Karwal, EME	IC-47148 Anjan Kumar Dutta, ASC
IC-47105 Yash Saxena, Inf	IC-47149 Shubha Mitra, ASC
IC-47106 Umesh Chandra Rai, EME	IC-47150 Pankaj Singh, Inf
IC-47108 Deepak Kohli, Arty	IC-47152 Iqbal Singh, Inf
IC-47109 Vineet Bhatia, Sig	IC-47153 Ranjeev Sanyal, Sig
IC-47111 Mahinder K. Joshi, Inf	IC-47154 Khandekar Sanjeev B, Inf
IC-47112 JS Shekhawat, Inf	IC-47155 Umesh Chandra Bhatt, AOC
IC-47113 Narender Singh Yadav, Inf	IC-47156 Devinder Pal Singh, Int

IC-47157 G Sree Rama Rao, AOC	IC-47199 Ajok Joshi, Inf
IC-47158 Jaya Kumar S, Arty	IC-47200 Dinesh R Mudri, ASC
IC-47159 Joginder Kumar, Inf	IC-47201 Hiresb Barthwal, AC
IC-47160 PK Sharma, Arty	IC-47202 Rama Kanta Barman, Arty
IC-47161 Kunal Kashyap, Arty	IC-47203 PM Brindavan Lal, Inf
IC-47163 SS Durrani, Arty	IC-47204 Venkatesh M Naik, ASC
IC-47164 Ajay Kadian, Inf	IC-47206 NJS Mann, AOC
IC-47165 Sakitanand Jha, AC	IC-47207 Anil Negi, Engrs
IC-47166 Sanjay Sharma, Engrs	IC-47208 Rajan Mahajan, Inf
IC-47167 Vijay Kumar Sharma, Sig	IC-47209 Ajay Joshi, Inf
IC-47168 Niroop Chandran, Arty	IC-47210 Suneet Malik, Sig
IC-47169 Rakesh Kumar Saini, Sig	IC-47211 TK Thapar, EME
IC-47171 APS Randhawa, Arty	IC-47212 Ranjeet Singh Malik, Arty
IC-47172 BS Dhingra, Sig	IC-47213 Ashok Kumar, Engrs
IC-47173 Rajiv Ghose, Arty	IC-47214 R Srinivas, Arty
IC-47174 Nikunj Goel, Inf	IC-47215 Sanjay Kumar Jain, AOC
IC-47175 Rajesh Sharma, AOC	IC-47216 Humayun Mirza, Inf
IC-47176 M R Raveendra Nair, Engrs	IC-47217 Pramod Kumar Rawat, Inf
IC-47177 Alok Beri, Arty	IC-47218 Ajay Singh Beri, Mech Inf
IC-47178 Suresh Kumar Yadav, Inf	IC-47220 Amit, EME
IC-47179 Vijay Pal Singh, AOC	IC-47222 AK Mukhopadhyay, Sig
IC-47180 Dheeraj Singh Raghuwanshi, Int	IC-47223 Sanjeev Chauhan, Inf
IC-47181 Sanjay Prasad Gupta, Inf	IC-47224 Paramesh Sarma, Inf
IC-47182 Anil Kumar Gulia, Inf	IC-47225 Vijay Pal Singh, Inf
IC-47183 Bhupal Singh Latwal, Inf	IC-47226 Rahul Singh, Mech Inf
IC-47184 PD Shrikant, AC	IC-47227 Parmod Kaushik, Inf
IC-47185 Mohan Singh, Inf	IC-47228 PKG Sathvara, Engrs
IC-47186 Shantonu Roy, EME	IC-47229 Dalwinder Singh, Inf
IC-47187 Piyush Bisht, ASC	IC-47230 Bhupinder Singh Dhillon, Inf
IC-47188 Surender Pal Singh SG, Inf	IC-47231 Manjeet Singh, Sig
IC-47189 Nirupam Dhar, Engrs	IC-47232 Devendra Pal, EME
IC-47190 Venkata Raman Adusumalli, Arty	IC-47233 Someshwar Singh Simsinwar, Inf
IC-47191 Mrutyunjay S Yarnal, ADA	IC-47234 Manmohan Singh Bajwar, Arty
IC-47192 Rakesh Kumar Singh, Inf	IC-47235 K Ramesh Kumar, EME
IC-47193 Dinesh Kumar Malhotra, Inf	IC-47236 Harpreet Singh, Arty
IC-47194 Joginder Singh Tanwar, Inf	IC-47237 VK Sharma, ASC
IC-47195 Sanjiv Dyal Mathur, EME	IC-47238 SP Bhalekar, Arty
IC-47196 RPS Gill, Arty	IC-47239 Sudhir Verma, Arty
IC-47198 JA Sahasrabudhe, ADA	IC-47242 Jogender Singh Lakra, AC
	IC-47243 Baby CM, AC



IC-47244 PK Rukhaiyar, Arty	IC-47286 Yashpal Singh, Inf
IC-47245 Ajai Gautam, AOC	IC-47287 Vineet Nehra, Int
IC-47246 Kanwar Bir Singh, Arty	IC-47288 Saurabh Kala, Engrs
IC-47247 Peeyush Pandey, Inf	IC-47289 Govind Singh Verma, ASC
IC-47248 Sandesh Sharma, Sig	IC-47290 DS Nayyar, Inf
IC-47249 Mannu Chopra, AOC	IC-47292 Rajeev Sethi, Arty
IC-47251 SY Jadhav, Inf	IC-47293 Baljit Singh Bajwa, Arty
IC-47253 Gajendra Joshi, Inf	IC-47294 Rajeev Singh, Inf
IC-47254 Kuldip Singh Bidhan, Arty	IC-47297 Aditya Bhagwat, Sig
IC-47255 Anurag Chauhan, Inf	IC-47298 Ravindra Singh, Inf
IC-47256 Sridhar B Kulkarni, EME	IC-47299 GJS Gill, Inf
IC-47257 KJS Mayal, Arty	IC-47300 Sushobit Kamra, EME
IC-47258 Avinash Rawat, AOC	IC-47302 Nagender Singh Thakur, Inf
IC-47259 Harsh Verdhhan Singh, Inf	IC-47303 Naresh Singh Chauhan, Inf
IC-47260 Anurag Asthana, Sig	IC-47304 Ram Dhan Singh, ASC
IC-47261 Amardeep Singh Aujla, Inf	IC-47305 Sanjay Jethi, AOC
IC-47262 PK Ray, Arty	IC-47306 SK Panda, AC
IC-47263 Rajeev Thakur, Inf	IC-47307 S Ravichander, AC
IC-47264 Karandeep Singh, Inf	IC-47308 Ranbir Singh Yadav, ASC
IC-47265 Chaudhari GM, Engrs	IC-47309 Jagdish Singh, AOC
IC-47267 BC Singh, ADA	IC-47311 Bashir Ahmed, Inf
IC-47268 Braj Raj Tiwari, ASC	IC-47312 Varinder Singh, EME
IC-47269 GS Bhatti, Inf	IC-47314 Sunil Kumar, Sharma, Inf
IC-47270 Shivnandan Sharma, Arty	IC-47316 Deepak Ranjan Sinha, Engrs
IC-47271 Harjinder Singh, Inf	IC-47317 RK Pathak, Sig
IC-47272 Rajbir Singh Virk, Arty	IC-47318 Sanjay Kadian, Inf
IC-47273 Ashok Kumar Singh, Inf	IC-47319 Balbir Singh Bisht, EME
IC-47274 Bhupinder Singh Handa, AC	IC-47320 Yash Bhatnagar, AC
IC-47275 Navdeep Singh Sangha, Inf	IC-47321 Pritpal Singh, AOC
IC-47276 Vivek Kaul, Mech Inf	IC-47322 Parminderjit Singh, Inf
IC-47277 Sanjeevan Singh Guleria, Inf	IC-47323 Rajeev Sharma, Inf
IC-47278 Surya Pal Singh Rawat, Inf	IC-47324 Vinod Bhadu, Inf
IC-47279 Hemant Kumar, EME	IC-47325 Sunil Parmar, Inf
IC-47280 Harmanjit Singh Chopra, Inf	IC-47326 Deepak Singh, Arty
IC-47281 Jaswant Singh, Sig	IC-47327 KT Sherpa, Arty
IC-47282 Sandeep Nagrath, AC	IC-47328 RK Jasaiwal, Inf
IC-47283 JS Mahendru, Sig	IC-47329 Ashutosh Ahluwalia, Arty
IC-47284 Jasvir Singh Boparai, Int	IC-47330 Ujjwal Prakash, Sig
IC-47285 Kaushik Sircar, Inf	IC-47331 Ravi Bora, AOC

IC-47332 DK Yadav, Engrs	IC-47376 Jose Kurian, Arty
IC-47333 Sandeep Chaudhary, Sig	IC-47377 Rahul Chandra, Arty
IC-47334 Harish Katoch, AC	IC-47378 Sanjay Bhushan, Int
IC-47335 Alankar Bhardwaj, ASC	IC-47379 Umesh Kumar Pant, EME
IC-47336 T Thomas, ASC	IC-47380 Pushkar Prasad, Engrs
IC-47337 DSK Gopaldas, Arty	IC-47381 Bhupinder Singh Virk, Mech Inf
IC-47338 Gautam Nandy, Inf	IC-47382 RK Zarabi, Sig
IC-47339 Aseem Kukreja, AC	IC-47383 Jagnar Singh, Int
IC-47340 Vikram Heble, Inf	IC-47384 Arun Malhotra, ASC
IC-47342 SK Sharma, Sig	IC-47386 Santosh KM, AOC
IC-47343 Vijay Bikram Singh Bora, Inf	IC-47387 Surender Kumar Sharma, Inf
IC-47344 Amarjit Singh Oberoi, Arty	IC-47389 Amitava Mukherjee, Arty
IC-47345 Brijesh Kumar Dhankhar, Inf	IC-47391 JS Hundal, Inf
IC-47346 GMS Bindra, AVN	IC-47392 Anand Mehrotra, Inf
IC-47347 Vikram Uppal, ADA	IC-47393 Sanjay Langeh, ASC
IC-47348 Anurag Gupta, Inf	IC-47394 Ranjit Singh, AC
IC-47349 Mohinder Singh Rawat, Mech Inf	IC-47395 Rohit Singhal, Inf
IC-47350 Rajendra Bana, AOC	IC-47396 DK Acharya, Inf
IC-47351 Rajesh Tyagi, Inf	IC-47397 Vinay Kumar Gupta, Inf
IC-47352 Subhendu Subhash Anjaria, Inf	IC-47398 SS Rathore, AC
IC-47353 Debasis Mukhopadhyay, Engrs	IC-47399 Sharad Mohan, AC
IC-47354 GS Sandhu, AOC	IC-47400 Kuldeep Yadav, EME
IC-47355 Jagdish Chandra Pati, Engrs	IC-47401 Kiran Deep Singh, EME
IC-47356 HP Singh, Sig	IC-47402 Anshul Bhargava, AC
IC-47357 Naveen Rai Maggo, EME	IC-47403 Rakesh Bhutani, Arty
IC-47359 Arvind Kalia, EME	IC-47404 Bikram Ahluwalia, ASC
IC-47360 Ajeet Kumar Punia, Inf	IC-47405 M Kishore Belliappa, Inf
IC-47362 Inder Mohan Singh, Inf	IC-47406 Anuj Chaturvedi, Sig
IC-47363 Anoop Singh, Inf	IC-47407 Birbal Singh, Inf
IC-47365 Sanjay Srivastava, Arty	IC-47408 Vijay Dhawan, AOC
IC-47366 Manish Kumar K Chakraborty, Inf	IC-47409 Vivek Kumar Sharma, Mech Inf
IC-47367 Samir Singh, Arty	IC-47410 Sanjeev Baweja, Inf
IC-47368 Shri Bhagwan Sharma, Sig	IC-47411 Jagjit Singh Sandhu, Inf
IC-47369 Ravi Prakash, AOC	IC-47412 Prabhakar Singh Gautam, Arty
IC-47370 KS Talwar, Inf	IC-47413 Atul Bhandari, ASC
IC-47371 Balbir Singh, Inf	IC-47414 Kailash Prakash Malik, Engrs
IC-47372 Raj Rishi Sharma, Arty	IC-47415 Yogesh Chander Lohumi, AOC
IC-47374 PK Jetley, Inf	IC-47416 Charanjit Singh Mander, Arty
IC-47375 Shankar Singh, Inf	IC-47417 Uttam Kumar Saha, Arty

IC-47418 Jewel Antony, AOC	IC-47464 Vimal Kapoor, Mech Inf
IC-47419 Vikas Ranjan, Arty	IC-47465 Sanjeev Singh, Inf
IC-47420 Shiv Raj Singh Rathore, Inf	IC-47466 Kurra Sreenivasa Rao, Inf
IC-47421 Khem Prasad, Int	IC-47467 Sanjeev Chauhan, Arty
IC-47423 Shavade Nand Kumar Janardan, Inf	IC-47468 R Arun, Arty
IC-47425 Dinesh Soni, AOC	IC-47469 Dinkar Hiteshi, EME
IC-47426 Anil Kumar Pathania, Inf	IC-47471 Vivek Jhanji, ASC
IC-47428 Sameer Chaturvedi, Inf	IC-47472 Anant Niranjana, EME
IC-47429 Sushil S Kulkarni, AOC	IC-47474 Kulddir Singh Rathee, Inf
IC-47430 Ashish Moulik, AC	IC-47475 SV Balaji, Arty
IC-47431 Hamant Saroch, Inf	IC-47476 Rajnish Mathur, Inf
IC-47432 Vikramaditya Gupta, Inf	IC-47477 M Julius George, Engrs
IC-47433 BS Shekhawat, Arty	IC-47478 Sunil Thomas, Inf
IC-47434 Arun Narain Mathur, Arty	IC-47480 Nitin Sharma, Mech Inf
IC-47435 Rajesh Jagtap, Sig	IC-47481 Vijay Jain, Engrs
IC-47436 Gautam Majumdar, AC	IC-47482 Harminder Singh Kahlon, Engrs
IC-47437 RK Choudhary, ASC	IC-47483 Jagdeep Singh Isher, Engrs
IC-47440 Arun Jyoti, Arty	IC-47484 Sukhdev Singh, EME
IC-47441 BS Chauhan, Arty	IC-47485 Atul Bakshi, Engrs
IC-47442 Ravi Kant Joshi, EME	IC-47486 Poonacha MM, EME
IC-47443 Deepak Chaturvedi, ASC	IC-47487 Jaspreet Singh Brar, Engrs
IC-47444 Dharam Pal, Inf	IC-47489 Manoj Kumar Chauhan, Engrs
IC-47445 Rajiv Gupta, Engrs	IC-47490 Ved Prakash, Engrs
IC-47446 Sanjay Ghildiyal, AC	IC-47491 Manesh K Timmapur, Engrs
IC-47447 Ajay Shah, Mech Inf	IC-47492 Jimmy P John, Engrs
IC-47448 Vijay Kumar Sharma, Inf	IC-47493 Vemuru R Kumar, AEC
IC-47450 CP Sharma, Sig	IC-47494 TS Reen, Engrs
IC-47452 Abihijit Mitra, Sig	IC-47495 Antariksha Gautam, Engrs
IC-47453 SS Tomar, Arty	IC-47496 Dukha Bandhu Pany, EME
IC-47454 Harendra Singh, Inf	IC-47497 Yasvender Singh Rana, EME
IC-47455 YP Banwait, Sig	IC-47499 Shree Ram Singh, EME
IC-47456 Om Prakash Choubey, ASC	IC-47501 Ashok Dighe, Sig
IC-47457 Vishal Rai, AOC	IC-47502 Ashwani Kumar, EME
IC-47458 Manreet Singh Brar, Arty	IC-47503 N Satish Chander Govind, Engrs
IC-47459 Ajay Dhawan, AOC	IC-47504 Narendra Pratap Singh, Engrs
IC-47460 Praveen Singh, Inf	IC-47505 SC Kharbanda, EME
IC-47461 Puneet Pasricha, Arty	IC-47507 Antarayami Pradhan, EME
IC-47462 Arvind S Gill, Inf	IC-47508 Praveen Kaul, Engrs
IC-47463 Rajit Singh Babbal, Arty	IC-47509 Jasbir Singh, EME

IC-47510 Rajesh Kumar Gaur, Sig  
 IC-47511 Rajeev Arora, Engrs  
 IC-47513 P Hari Narayanan, Engrs  
 IC-47514 Manoj Kumar Gupta, Engrs  
 IC-47515 Prabir Deb, Engrs  
 IC-47516 Sanjay Kumar, EME  
 IC-47517 Srinivasulu Somanchi, AEC  
 IC-47518 Sandeep Kumar Sharma, Engrs  
 IC-47519 Haranatha Reddy, EME  
 IC-47520 Naveen Kumar Jha, Engrs  
 IC-47521 Narendra Singh Tomar, Engrs  
 IC-47522 HCS Rautela, Sig  
 IC-47523 Praveen Kumar Goyal, Engrs  
 IC-47524 R Rama Subramanian, EME  
 IC-47525 Madhu Sudan Sharma, Engrs  
 IC-47527 Mantha Nagaraj, Engrs  
 IC-47528 Ravi Kumar, AEC  
 IC-47529 Harpreet Singh Walia, Engrs  
 IC-47530 Uma Shankar Verma, Sig  
 IC-47531 Mohanan KG, Sig  
 IC-47532 G Kumaraswamy, Engrs  
 IC-47533 G Raja Sekhar, EME  
 IC-47534 Sudhindra Itnal, EME  
 IC-47535 Deepak Sharan, Engrs  
 IC-47536 MKR Varma, EME  
 IC-47537 Anil Kumar Gupta, Engrs  
 IC-47538 SC Verma, Sig  
 IC-47539 Parveen Kumar, EME  
 IC-47540 Ashok Kumar Binjolkar, EME  
 IC-47541 Subramanyam PV, EME  
 IC-47542 Tonmoy Roy, AEC  
 IC-47543 Maheswara NH, Engrs  
 IC-47544 G Sudheer Kumar, EME  
 IC-47546 Peddibhotla Venkateswarlu, Engrs  
 IC-47547 Anant Kishore Singh, EME  
 IC-47549 Subash CP, Engrs  
 IC-47550 DN Sharma, Engrs  
 IC-47551 Atul Kulshrestha, Engrs  
 IC-47552 K Pratap Singh, EME  
 IC-47554 Rajasekharan KB, EME

IC-47555 Sanjay Kumar, Engrs

—16 Dec. 2004

CHANDER PARKASH  
 Dy. Dir., MS-8C

## AIR HEADQUARTERS

No. 577, 3rd November, 2005—The President is pleased to promote the following Private Secretaries (Group 'B' Gazetted) of AFHQ Stenographers' Service as Principal Private Secretary (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/-, on ad-hoc basis for the period as mentioned against their names or till availability of regular incumbents, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Period From	to
	(Shri/Smt.)		
(a)	KS Pillay	04 Jan 2005	17 Jan 2005
(b)	K Zachariah	04 Jan 2005	17 Jan 2005
(c)	Bhim Sain	04 Jan 2005	30 Jun 2005
(d)	DS Sandhu	04 Jan 2005	30 Jun 2005
(e)	Rajni Kant	12 Aug 2005	31 Dec 2005

The promotion shall be subject to the following conditions :—

- Their appointment is purely on temporary basis and shall be terminated on administrative ground without issuing any prior notice to this effect.
- The officers shall have no claim for regular promotion/appointment on the basis of ad-hoc promotion granted now nor will their period of such appointment count towards seniority in the grade of PPS.

SHANKAR SINGH  
 Dy. Chief Administrative Officer

(ARMY BRANCH)

No. 578, 9th November, 2005—The President is pleased to permit the undermentioned officers relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 27-08-2004 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

## REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

TO BE SURG LT (On Prob)

Ranjan Sarkar (MS-14364-X) (MR-08120-N) (75801), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 06-03-2002. (MoD Notification published in the Gazette of

India dated 05-07-2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Narayan S (MS-14184-P) (MR-08124-K) (75725), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 13-12-2000. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 04-10-2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Viking Bhanoo (MS-14290-K) (MR-08117-N) (75792-B), AMC, 21-01-2002 with seniority for pay and promotion w.e.f. 21-07-2001. (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 18-09-2004 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Shilpa Asthana (MS-14326-F) (MR-08121-W) (75787), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 21-01-2002. (MoD Notification published in the Gazette of

India dated 25-01-2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Surg Sub Lt. K Pradeep Shankar (MS-14144-N) (MR-08107-K) (75743), AMC, 03-02-2001. (On completion of Internship Training promoted to the rank of Surg Lt. w.e.f. 21-03-2001.) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 05-07-2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Surg Sub Lt. Marak Pertin (MS-14146-Y) (MR-08116-L) (75759), AMC, 11-03-2001. (On completion of Internship Training promoted to the rank of Surg Lt. w.e.f. 10-08-2001.) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 09-03-2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

RAJESH KAMRAN  
Brig.  
Dy. DGAFMS (Pers.)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005